



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 18, 2013/माघ 29, 1934

No. 49]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 18, 2013/MAGHA 29, 1934

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 16 फरवरी, 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./वि./14/72/2013.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिनियम, 1999 की धारा 14 और धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. प्रारंभ —

- इन विनियमों को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 कहा जाए ।
- ये विनियम भारत सरकार के राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।
- जब तक कि इन विनियमों में प्रावधान हो, इन विनियमों के लागू होने से पहले, बनाए गए स्वास्थ्य बीमा अनुबंधों को अमान्य न समझा जाए ।
- ये विनियम उन सभी लाइसेंस प्राप्त जीवन बीमाकारों, गैर-जीवन बीमाकारों और स्वास्थ्य बीमाकारों पर लागू होंगे जो भारत में इन विनियमों के तहत स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय संचालित कर रहे हैं ।

2. परिभाषाएँ ; इन विनियमों में —यदि यह संदर्भ लगते हैं —

- 'अधिनियम' का अर्थ बीमा अधिनियम 1938 है ।
- 'अनुबंध' का अर्थ है — उन निर्धारित सेवा शर्तों से है । जो किसी बीमा कंपनी के स्वास्थ्य पॉलिसी के धारकों को प्रस्तुत की गई हों । ये अनुबंध निम्नलिखित के बीच होता है ।

- i. किसी थर्ड पार्टी प्रशासक (TPA) और किसी बीमा कंपनी के बीच ; अथवा
  - ii. नेटवर्क प्रदाता (किसी अस्पताल) और बीमा कंपनी जो किसी थर्ड पार्टी प्रशासक को शामिल करना चाहती है ।
  - iii. किसी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र तथा किसी बीमा कंपनी के बीच जिसमें TPA एक तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) के रूप में शामिल हो सकता है ।
- c) 'प्राधिकरण' से तात्पर्य, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से है जिसे आई.आर. डी.ए. अधिनियम, 1999 की धारा 3 और उप-धारा 1 के तहत स्थापित किया गया था ।
  - d) 'ब्रेक इन पॉलिसी' वर्तमान पॉलिसी का टर्म समाप्त होने पर होती है जबकि, किसी पॉलिसी के नवीकरण के लिए शुल्क प्रीमियम भरने की निर्धारित तारीख को या उससे पहले या अगले 30 दिन, दिनों के भीतर भी न भरा गया हो ।
  - e) 'निशुल्क सुविधा' अर्थात् एक बीमाकार द्वारा बीमाधारक को दी गई वह सुविधा जिसके अंतर्गत बीमा धारक द्वारा पॉलिसी की शर्तों पर करवाए गए उपचार का सारा भुगतान बीमाकार द्वारा पूर्व प्राधिकृत अनुमोदन के जरिये सीधे नेटवर्क प्रदाता को कर दिया जाता है ।
  - f) 'फाइल व यूज प्रक्रिया' का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है, जिसका पालन बीमाकार अपने प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों/परिपत्र के अनुसार स्वास्थ्य बीमा उत्पाद अनुमोदन हेतु करता है ।
  - g) 'स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (बिजनेस)' अथवा 'हेल्थ कवर' का अर्थ उन बीमा अनुबंधों की प्रभावकारिता से है जिसके तहत चिकित्सा लाभ या मेडिकल, सर्जिकल अथवा अस्पताल का व्यय आदि का लाभ, जिसमें सुनिश्चित लाभ और दीर्घकालिक देखभाल, यात्रा बीमा तथा व्यक्तिगत दुर्घटना आदि समाविष्ट (कवर) किए जाते हैं ।
  - h) 'टी.पी.ए. द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सेवाएँ' अर्थात् टी.पी.ए. द्वारा एक स्वास्थ्य बीमा व्यापार से संबंधित अनुबंध के अंतर्गत प्रदान की गई सेवाएँ जिसमें किसी बीमा कंपनी का बिजनेस अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय अथवा किसी दावे की स्वीकार्यता या उसकी अस्वीकृति शामिल नहीं होती ।
  - i) 'स्वास्थ्य तथा जीवन संयोजक उत्पाद' अर्थात् ऐसे उत्पाद जो एक जीवन बीमा कंपनी का एक सावधिक जीवन बीमा कवर के साथ किसी गैर-जीवन बीमा और या /स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का स्वास्थ्य बीमा संयुक्त रूप से ऑफर करते हैं ।
  - j) 'नेटवर्क प्रदाता' अर्थात् ऐसे अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र जिन्हें बीमाकार द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है और वे अपने बीमाधारकों को, निशुल्क सुविधा के आधार पर अपने यहाँ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते हैं ।
  - k) 'पोर्टेबिलिटी' - स्वास्थ्य बीमा करवाने वाले किसी बीमाधारक को (फैमिली कवर सहित) प्रदान किया गया वह अधिकार होता है जिसमें कि पूर्व-निर्धारित शर्तों तथा

समयबद्ध सीमा के अनुसार प्राप्त किए गए क्रेडिट का हस्तांतरण एक बीमाकार से दूसरे बीमाकार को अथवा उसी बीमाकार की एक से दूसरी योजना को किया जा सकता है — बशर्ते कि पिछली पॉलिसी को उसने बिना किसी ब्रेक/व्यवधान के अनुरक्षित किया हो ।

- l) 'वरिष्ठ नागरिक' अर्थात् ऐसा व्यक्ति जिसने स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत अथवा नवीकरण की तारीख तक 60 या उससे अधिक आयु पूरी कर ली हो ।
- m) 'थर्ड पार्टी प्रशासक' का तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आई.आर.डी.ए. (थर्ड पार्टी प्रशासक—स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम 2001 के तहत प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस दिया गया हो और किसी बीमा कंपनी ने शुल्क अथवा पारिश्रमिक देकर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु नियुक्त कर रखा हो ।
- n) सभी पदों अथवा अभिव्यक्तियों को इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है बल्कि उन्हें बीमा अधिनियम 1938 अथवा बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत सुनिश्चित अर्थों सहित परिभाषित किया गया है ।

### 3. पंजीकरण तथा स्वास्थ्य-व्यापार का दायरा (स्कोप)

- a) स्वास्थ्य बीमा उत्पाद केवल उन्हीं इकाइयों द्वारा ऑफर की जा सकती हैं जो, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण विनियम 2001 के अंतर्गत मान्य रूप से पंजीकृत हों ।
- b) जीवन बीमा कंपनियाँ दीर्घकालिक स्वास्थ्य उत्पाद ऑफर कर सकती हैं परंतु ऐसे उत्पादों का प्रीमियम तीन वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक की अवधि तक अपरिवर्तित रहे तत्पश्चात् प्रीमियम को पुनरीक्षित कर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है ।
- c) गैर जीवन तथा एकांगी बीमा कंपनियाँ न्यूनतम एक वर्ष तथा अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक के व्यक्तिगत स्वास्थ्य उत्पाद ऑफर कर सकती हैं — बशर्ते उसके प्रीमियम में पूरे कार्यकाल तक कोई बदलाव न हो ।
- d) सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ किसी भी बीमा कंपनी द्वारा ऑफर की जा सकती हैं — बशर्ते सभी ऐसे उत्पाद केवल एक वर्ष के नवीकरण अनुबंध के रूप में हों । परंतु गैर-जीवन तथा एकांगी स्वास्थ्य बीमाकार, सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना योजनाएँ ऑफर कर सकती हैं जो एक वर्ष से कम अवधि के लिए हों या किसी विशिष्ट घटना को कवरेज प्रदान करती हों ।
- e) समुद्रपारीय अथवा घरेलू यात्रा बीमा योजनाएँ केवल गैर जीवन तथा एकांगी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा ही प्रायोजित की जा सकती हैं या तो एकांगी योजना अथवा किसी मौजूदा स्वास्थ्य योजना के कवरेज के रूप में बशर्ते कि उसका प्रीमियम प्राधिकरण द्वारा फाइल व यूज प्रक्रिया के तहत अनुमोदित किया गया हो ।

#### 4. स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए फाइल व यूज प्रक्रिया —

- a) किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना को बीमाकार तब तक प्रचारित नहीं किया जाए जब तक कि उसे प्राधिकरण द्वारा फाइल व यूज प्रक्रिया के अनुसार पूर्वानुमोदन प्राप्त न हुआ हो।
- b) किसी अनुमोदित स्वास्थ्य बीमा योजना की अनुवर्ती पुनरीक्षा अथवा संशोधन के लिए भी समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्राधिकरण के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होती है।
  - i. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना की पुनरीक्षा अथवा संशोधन के बारे में उसकी प्रभावी तारीख से कम से कम तीन महीने पहले संबंधित पॉलिसी धारक को जानकारी दी जानी चाहिए। उक्त नोटिस में ऐसे पुनरीक्षण एवं संशोधन का विशेष रूप से प्रीमियम में बढ़ोतरी एवं अन्यथा परिवर्तन करने का समुचित कारण दर्शाया जाना चाहिए।
  - ii. संबंधित विवरणिका में पॉलिसी की शर्तों के पुनरीक्षण व संशोधन तथा प्रीमियम की पूरी जानकारी प्रकटित की जाए।
- c) फाइल एवं यूज के पूर्वानुमोदन का आवेदन नियुक्त किए गए बीमांकक तथा बीमा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए। साथ ही वह उन सभी प्रारूपों तथा प्रलेखों के साथ संलग्न किया जाए, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।
- d) स्वास्थ्य बीमा योजना की निकासी (Withdrawal)
  - i. किसी स्वास्थ्य बीमा योजना की निकासी से पूर्व बीमाकार को, निकासी का कारण तथा मौजूदा बीमा धारक के उपचार का पूरा विवरण देते हुए प्राधिकरण से अनुमोदन लेना होगा।
  - ii. पॉलिसी प्रलेख में भविष्य में उसकी निकासी की संभावनाओं तथा पॉलिसी धारक हेतु उपलब्ध अन्य विकल्पों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।
  - iii. यदि मौजूदा ग्राहक बीमाकार द्वारा भेजी गई सूचना का उत्तर नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में वह पॉलिसी अपने नवीकरण की तारीख से ही अमान्य हो जाएगी। तत्पश्चात बीमाधारक को बीमाकार के पास उपलब्ध नई पॉलिसी, पोर्टेबिलिटी की शर्तों के आधार पर लेनी होगी।
  - iv. निकासी के बाद वही योजनाएँ अन्य संभावित ग्राहकों को प्रस्तावित न की जाएँ।
- e) किसी योजना के समस्त विवरण जानकारी दिए जाने के पश्चात कम से कम वर्ष में एक बार, नियुक्त बीमांकक द्वारा समीक्षित किए जाएँ। यदि वह योजना वित्तीय रूप से अलाभकारी पाई जाए अथवा उसमें किसी प्रकार की कमी नजर आए तो नियुक्त बीमांकक उस योजना का गहन अवलोकन कर उसे फाइल एवं यूज प्रक्रिया के तहत पुनरीक्षण हेतु प्रस्तुत कर सकता है।
- f) किसी योजना के फाइल व यूज अनुमोदन के पाँच वर्ष पूरे होने के पश्चात नियुक्त बीमांकक उस योजना के निष्पादन का कमियाँ, ब्याज दरों, मुद्रास्फीति, व्यय तथा अन्य प्रासंगिक विवरणों की दृष्टि से पुनरावलोकन कर उपयुक्त औचित्य या संशोधनों के साथ फिर से अनुमोदन प्राप्त कर सकता है।

#### 5. स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित सामान्य प्रावधान —

- a) स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को विभिन्न कवरेजों का प्रस्ताव देने हेतु अभिकल्पित किया जाता है।

- i. विशिष्ट आयुवर्गों एवं लिंग हेतु
  - ii. विभिन्न आयुवर्गों के लिए
  - iii. देशव्यापी सभी अस्पतालों में उपचार हेतु बशर्ते कि उस अस्पताल को परिभाषित किया गया हो ।
  - iv. केवल विशिष्ट अस्पतालों में उपचार हेतु बशर्ते कि, वहाँ की दरें प्रतिनिधिमूलक हों ।
  - v. विशिष्ट क्षेत्रों में उपचार के लिए यदि मॉर्बिडिटी दरें उपयुक्त हों ।  
यदि उपर्युक्त विशिष्टताएँ पॉलिसी के विवरणिका, प्रलेखों तथा ब्रिकी प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से दर्शाये गए हों ।
- b) किसी पॉलिसी के बीमाधारक के लिए अलाभकारी होने की स्थिति में बीमाकार उसे अन्य स्वास्थ्य बीमा योजना लेने हेतु बाध्य नहीं करेगा ।
- c) बीमाकार द्वारा अपनी सभी स्वास्थ्य योजनाओं की संपूर्ण जानकारी अपनी वेबसाइटों पर मुहैया करवाई जाए । उस जानकारी में योजना का पूरा ब्यौरा, फाइल व यूज़ प्रक्रिया के तहत विवरणिका की अनुमोदित प्रतियाँ, प्रस्ताव फॉर्म, पॉलिसी प्रलेख तथा प्रीमियम की दरें — सेवा कर सहित तथा रहित समाविष्ट होना चाहिए ।
- d) नामांकन एवं नियत कार्य
- i. बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को प्रस्ताव देते समय, नामांकन पंजीकृत करवाना चाहिए ।
  - ii. स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का कोई भी असाइनमेंट इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसका कवरेज मुआवजे पर आधारित है या लाभ पर । ऐसा होने पर जीवन स्वास्थ्य संयोजन योजनाओं को बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अनुसार ही जारी किया जाए ।
- e) प्रवेश एवं निकास की आयु
- i. विनियम J के अतिरिक्त अन्य सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में सामान्यतः 65 वर्ष की आयु तक प्रवेश आयु का प्रावधान है ।
  - ii. यात्रा बीमा योजनाओं तथा विनियम J एवं 4 (d) के अतिरिक्त यदि एक बार किसी पॉलिसी का प्रस्ताव स्वीकृत होकर पॉलिसी जारी कर दी जाती है तथा बाद में बिना किसी ब्रेक के सावधिक रूप से नवीकृत करवाई जाती है तो, भविष्य में भी धारक की आयु के आधार पर उसे रीन्यू करने से नकारा नहीं जा सकता ।
- f) योजनाओं/पॉलिसियों का नवीकरण
- i. कोई भी स्वास्थ्य बीमा योजना सामान्यतः नवीकृत हो सकती है, परंतु फ्रॉड, नैतिक हानि अथवा ग़बन या बीमाधारक के असहयोग की स्थितियों में इसका नवीकरण नहीं हो सकता ।
  - ii. किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीकरण को बीमाधारक की इच्छा के विरुद्ध नकारा नहीं जाएगा । यदि मना किया जाता है तो, उसके लिए पॉलिसी धारक को अस्वीकृति के ठोस कारण बताए जाएँ ।
  - iii. एक बीमाकार को कि स्वास्थ्य बीमा योजना को केवल इस आधार पर रीन्यू करने से मना नहीं करना चाहिए कि, बीमाधारक ने पिछले कुछ वर्षों में बीमे का दावा या दावे किए थे । केवल लाभ आधारित बीमे के अलावा क्योंकि इस प्रकार की योजनाओं में पॉलिसी अपने कवरेज वाली बीमारियों के लिए भुगतान करने के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाती है ।

- iv. बीमाकार को नवीकरण की निर्धारित तिथि से 30 दिन की अवधि तक करवाने हेतु एक मेकॉनिज्म अपनाना होगा । नवीकरण में होने वाले विलंब की अवधि को ब्रेक न समझा जाए । फिर भी इस अवधि के लिए कवरेज की उपलब्धता नहीं होगी ।
- v. प्रमोशन—सामग्री तथा पॉलिसी प्रलेख में, पॉलिसी की समाप्ति के कारणों/स्थितियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए, जैसे कि गंभीर रोग लाभ पॉलिसियों में लाभार्थी के विशिष्ट रोग हेतु भुगतान करने के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाती है।
- g) फ्री लुक अवधि**
- i. सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में फ्री लुक अवधि होनी चाहिए । फ्री लुक अवधि पॉलिसी की शुरुआत से लागू हो जानी चाहिए और :-
1. बीमाधारक को पॉलिसी मिलने के बाद कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा ताकि वह पॉलिसी की सभी शर्तों की पुनरीक्षा करे और स्वीकार्य न होने की स्थिति में पॉलिसी लौटा दे ।
  2. यदि बीमाधारक ने फ्री लुक अवधि के दौरान कोई दावा नहीं किया तो वह निम्नलिखित का हकदार होगा -
    - a) बीमाकार द्वारा बीमाधारक की चिकित्सकीय परीक्षा का कम भुगतान किए जाने पर इसके साथ स्टैम्प ड्यूटी शुल्क तथा प्रीमियम का रीफंड । अथवा ;
    - b) जहाँ जोखिम पहले ही हो चुका है और पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी को वापस करने का प्रयास किया जा चुका हो, कवरेज अवधि के लिए आनुपातिक रिस्क प्रीमियम में कटौती अथवा ;
    - c) जब आंशिक रूप से जोखिम घट चुका हो, ऐसे आनुपातिक रिस्क प्रीमियम को उस अवधि के दौरान कवर किए गए रिस्क में सम्मिलित किया जाएगा ।
    - d) यूनिट लिंकड पॉलिसी के मामले में उपर्युक्त कटौतियों के अलावा बीमा धारक को उस यूनिट को फिर से उस यूनिट को, पॉलिसी की वापसी की तारीख की दर पर ही खरीदने का अधिकार होगा ।
- h) प्री-इंश्योरेंस स्वास्थ्य चेकअप की लागत**
- i. किसी भी प्री इंश्योरेंस मेडिकल परीक्षण सामान्यतः प्रीमियम में अनुमत व्यय का एक भाग होता है । फिर भी एक वर्ष या उससे कम की योजनाओं में यदि ऐसी कीमत बीमाधारक को चुकानी होती है तो उसका लगभग 50% भाग प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद बीमाकार द्वारा वहन किया जाएगा, बजाय यात्रा बीमा योजनाओं के जहाँ ऐसी लागत की प्रतिपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती ।
  - ii. बीमाकारों को ऐसे संस्थानों तथा उनके द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्क की सूची रखनी चाहिए जहाँ ऐसे प्री-इंश्योरेंस परीक्षण किए जा सकते हैं जहाँ की रिपोर्ट उनके द्वारा मान्य होती हैं ।
- i) समेकित लाभांश**
- i. मुआवजे पर आधारित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर बीमाकार लाभांश का प्रस्ताव दे सकते हैं जिसका उल्लेख विवरणिका तथा पॉलिसी प्रलेखों में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए ।
  - ii. यदि दावा किसी विशेष वर्ष में किया गया हो तो उस पर मिलने वाला समेकित लाभांश उसी दर से घट जाएगा जिस पर वह आरंभ हुआ था ।
  - iii. समेकित बोनस, लाभ-आधारित पॉलिसियों पर नहीं दिया जाता ।

### j) उपयुक्त स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर प्रवसन

- i. विशेष आयुवर्गों जैसे प्रसूति योजनाएँ, बच्चों तथा विद्यार्थियों आदि के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रस्तावित करने वाले बीमाकारों को विशिष्ट निकास आयु अथवा पुरानी योजना के नवीकरण के समय, एक उपयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रवसन का विकल्प देना चाहिए बशर्ते कि पॉलिसी का अनुरक्षण बिना किसी व्यवधान या ब्रेक के किया गया हो।

### k) सभी स्वास्थ्य बीमा

पॉलिसियों को अनुसूची I के अनुसार किसी भी अन्य पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी की अनुमति होनी चाहिए।

### l) आयुष कवरेज

- i. बीमाकारों द्वारा गैर एलोपैथिक उपचारों का कवरेज भी दिया जा सकता है — बशर्ते कि वह उपचार किसी सरकारी अस्पताल में करवाया गया हो अथवा किसी सरकारी मान्यता प्राप्त अथवा, भारतीय क्वालिटी परिषद अथवा अन्य उपयुक्त संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- ii. लाभ-आधारित योजनाओं पर (i) लागू नहीं होगा।

### m) प्रकटन/घोषणाएँ —

- i. इन विनियमों के संबंध में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित सूचनाएँ समाहित हों,
  1. पॉलिसी के नवीकरण की शर्तों का प्रकटन
  2. आयु के बढ़ने के अनुसार कवरेज एवं प्रीमियम का प्रकटन
  3. नवीकरण की अधिकतम आयु का प्रकटन/यदि योजना एक विशिष्ट आयु वर्ग हेतु प्रस्तावित है तो उसके अन्य योजनाओं को प्रवसन का प्रकटन।
  4. पॉलिसी की एक निश्चित अवधि के उपरांत कवर के दायरे में बदलाव अथवा एक निश्चित आयु के बाद जैसे पहले से मौजूद रोगों के कवरेज तक सीमित न रहना।
  5. क्या नवीकरण प्रीमियम की गारंटी है अथवा पुनरीक्षण के आधार पर।
  6. विशिष्ट परिस्थितियों का विवरण जहाँ बीमाकार द्वारा प्रीमियम का भार बढ़ाया जा सकता है (अथवा डिस्काउंट की समाप्ति) और किस हद तक किया जाएगा।
  7. बीमा राशि अथवा कवरेज के दायरे को बढ़ाने की प्रक्रिया एवं शर्तें, यदि कोई हैं ;
  8. सभी निकासी, निरस्तीकरण स्थितियाँ तथा
  9. विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों आदि के अनुसार अन्य पहलू विज्ञापनों तथा प्रकटन की आवश्यकता।
- ii. घोषणाओं को केवल प्रस्ताव प्रपत्र के एक भाग के रूप में ही रखा जाए और उन्हें पॉलिसी प्रलेख में शामिल न किया जाए। प्रस्ताव प्रपत्र में मानक घोषणाएँ निम्नानुसार होंगी —
  1. 'मैं/हम अपनी ओर से तथा उन सभी व्यक्तियों की ओर से जिनका बीमा प्रस्तावित है, यह घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त कथन, उत्तर तथा/या मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सभी मायनों में सही एवं पूर्ण है तथा मैं/हम इन अन्य व्यक्तियों की ओर से प्रस्ताव रखने हेतु प्राधिकृत है।
  2. मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई सूचना बोर्ड द्वारा बीमा कंपनी की अनुमोदित जोखिम अंकन नीति के अनुरूप बीमा पॉलिसी का आधार बनेगी तथा पॉलिसी, पूर्ण देय प्रीमियम की प्राप्ति के बाद ही लागू होगी।

3. मैं/हम आगे यह भी घोषणा करते हैं कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद परंतु कंपनी द्वारा जोखिम स्वीकृति का संप्रेषण प्राप्त होने से पहले, बीमित/प्रस्तावित व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य अथवा व्यवसाय में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर उसकी सूचना लिखित रूप में दी जाएगी ।
4. मैं/हम घोषणा करते हैं तथा कंपनी को अपनी सहमति देते हैं कि वे कभी भी बीमित/प्रस्तावित व्यक्ति के संबंध में, वह जिस अस्पताल में इलाज पाया है या जिस डॉक्टर ने उसका इलाज किया है उनसे, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या बीमित/प्रस्तावित व्यक्ति के भौतिक या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विषयों के संबंध में पूर्व या वर्तमान नियोक्ता से सूचना प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी बीमा कंपनी से यह सूचना प्राप्त कर सकते हैं जहाँ किसी बीमित/प्रस्तावित व्यक्ति की लाइफ पर जोखिम अंकन, दावे की समाप्ति के उद्देश्य से आवेदन किया गया है ।
5. मैं/हम इस कंपनी को स्वास्थ्य संबंधी अभिलेखों सहित मेरे प्रस्ताव संबंधी सभी सूचनाएँ, केवल प्रस्ताव का जोखिम अंकन तथा/या दावे के भुगतान के उद्देश्य हेतु तथा किसी भी सरकारी तथा/या विनियामक प्राधिकरण से शेरर करने को अधिकृत करते हैं ।

**n) स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत शब्दों की मानक परिभाषा —**

- i. सभी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में प्रयुक्त वाक्यांश एवं शब्दों का 'मानक परिभाषाओं' में निर्धारित अर्थ होना चाहिए । जिसे समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है ।

**o) गंभीर/जटिल रोगों हेतु मानक तथा प्रक्रियाएँ — 'जटिल रोग कवरेज' देने वाली पॉलिसियाँ प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर परिभाषित होती हैं ।**

**p) अस्पताल —मुआवजा पॉलिसियों में शामिल न किए जाने वाले व्ययों ; की मानक सूची ;**

- i. अस्पताल मुआवजा पॉलिसियों में सामान्यतः प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित मदों की सूची शामिल नहीं होती ।
- ii. फिर भी बीमाकार द्वारा अस्पताल में भर्ती के समय होने वाले व्यय निकाले गए मदों की सूची अथवा सूची में शामिल न होने वाले मदों के कवरेज का प्रस्ताव दिया जा सकता है — बशर्ते कि ऐसे संशोधनों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाए और संशोधित सूची बीमा प्रलेख के साथ संलग्न हो ।

**q) वरिष्ठ नागरिकों हेतु विशेष प्रावधान —**

- i. वरिष्ठ नागरिकों को ऑफर की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ औचित्यपूर्ण, पारदर्शी एवं स्पष्ट रूप से वर्णित होनी चाहिए । वरिष्ठ बीमाधारकों को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त प्रीमियम के संबंध में लिखित जानकारी दी जाए । पॉलिसी जारी करने से पूर्व बीमाधारकों से ऐसे प्रभारों के भुगतान की विशेष सम्मति ले ली जाए ।
- ii. सभी स्वास्थ्य बीमाकारों को वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के निवारण, स्वास्थ्य बीमा से संबंधित दावों के बारे में संबोधित करने के लिए एक अलग चैनल स्थापित करना चाहिए ।

**r) एकाधिक पॉलिसियाँ —**

- i. यदि किसी बीमाधारक एक निश्चित अवधि के दौरान, एक या अधिक बीमाकारों से दो या उससे अधिक पॉलिसियाँ लेता है तो ऐसे में कंट्रिब्युशन क्लॉस लागू नहीं होगा जब कवर/लाभ ऑफर किया जाएगा ।

1. वह स्थिर (फिक्स्ड) प्रकृति का होगा ।



2. चिकित्सा लागत से उसका कोई संबंध नहीं होगा ।
- ii. एकाधिक पॉलिसियों के संबंध में जो स्थिर लाभ प्रदान करती हों — बीमा से संबंधित घटना घटने की स्थिति में बीमा धारक ऐसी अन्य पॉलिसियों से हटकर, स्वतंत्र रूप से संबंधित पॉलिसी के तहत दावा कर सकता है ।
- iii. यदि किसी बीमाधारक द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान, एक या अधिक व्यक्तियों से उपचार राशि के मुआवजे हेतु स्वास्थ्य पॉलिसी ली जाती है तो ऐसे में, बीमाकार कंट्रीब्यूशन क्लॉस लागू नहीं करेगा लेकिन बीमाधारक को यह अधिकार होगा कि वह अपनी किसी भी पॉलिसी के तहत अपने दावे का सेटलमेंट करे ।
1. इस सभी मामलों में चुनिंदा पॉलिसी जारी करने वाले बीमाकार को दावे का सेटलमेंट कृतज्ञतापूर्वक कंट्रीब्यूशन क्लॉस के लिए जिद किए बिना कर दे चाहिए — बशर्ते कि, किया गया दावा चुनिंदा पॉलिसी की सीमा के भीतर तथा उसकी शर्तों के अनुसार किया गया हो ।
2. यदि दावे की राशि सिंगल पॉलिसी की बीमा राशि से अधिक हो तो, बीमाधारक को दावे का सेटलमेंट करने वाले बीमाकारों को चुनने का अधिकार होगा । ऐसे मामलों में बीमाकार दावे को कंट्रीब्यूशन क्लॉस के आधार पर सेटल कर सकता है ।
3. लाभकारी पॉलिसियों के अतिरिक्त एक से अधिक बीमाकार से पॉलिसियाँ बनवाता है तो ऐसे में बीमाधारक को केवल अस्पताल में भर्ती होने का मुआवजा, पॉलिसी की शर्तों के आधार पर मिलेगा ।
6. जोखिम अंकन — (Underwriting)
- a. सभी बीमा कंपनियों को स्वास्थ्य बीमा जोखिम अंकन पॉलिसी अपनानी चाहिए जो कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित हो । अन्य मुद्दों के साथ-साथ कंपनी को एक प्रस्ताव प्रपत्र भी निर्धारित करना चाहिए, जिसमें एक स्वास्थ्य पॉलिसी खरीदने के पूर्ण विवरण दिए जाने चाहिए । ऐसे प्रपत्र में कंपनी की कथित पॉलिसी को अंडरराइट करने हेतु आवश्यक समस्त जानकारी समाहित होनी चाहिए ।
- b. इस पॉलिसी को प्राधिकरण में फाइल किया जाए। कंपनी को इस पॉलिसी को आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा परंतु प्रत्येक संशोधन को प्राधिकरण में दर्ज/फाइल करना आवश्यक होगा ।
- c. स्वास्थ्य बीमा से संबंधित कोई भी प्रस्ताव बोर्ड की अनुमोदित अंडरराइटिंग पॉलिसी के आधार पर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकता है । किसी प्रस्ताव की अस्वीकृति को लिखित में समुचित कारणों सहित प्रॉस्पेक्ट को संप्रेषित किया जाएगा ।
- d. बीमाधारक को अंडरराइटिंग से संबंधित अतिरिक्त प्रभार प्रीमियम से बढ़कर या अतिरिक्त के बारे में पहले से ही सूचित कर पॉलिसी जारी करने से पूर्व ही बीमाधारक से विशेष सहमति ले ली जाए ।
- e. यदि कोई बीमाकार कंपनी को आगे कोई सूचना अपेक्षित हो जैसे पॉलिसी के एक निश्चित स्तर अथवा नवीकरण के समय व्यवसाय में परिवर्तन तो उसे —
- i. बीमाधारक से निर्धारित प्रपत्र भरवाकर, उसे उन प्रपत्रों को पॉलिसी प्रलेखों के एक भाग के तौर पर संलग्न करना चाहिए ।
- ii. उन घटनाओं/स्थितियों को स्पष्ट रूप से उद्धृत करे जिनमें उक्त जानकारी की आवश्यकता पड़ सकती है ।
- iii. ऐसी स्थिति में लागू होने वाली शर्तों का वह स्पष्ट रूप से उल्लेख करे ।
- f. बीमाकारों को पॉलिसी धारकों को शीघ्र प्रवेश निरंतर नवीकरण ऐच्छिक/लाभकारी दावों आदि की ओर आकर्षित करने हेतु प्रोत्साहन योजनाओं अथवा नये मैकानिज्म को

अपनाना चाहिए । उस मॅकानिज्म अथवा प्रोत्साहन योजनाओं का स्पष्ट रूप से विवरणिका तथा पॉलिसी प्रलेख में फाइल व यूज के तहत अनुमोदन के आधार पर प्रकटन किया जाए ।

### 7. स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के मूल्यांकन के सिद्धांत –

- a) स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का प्रीमियम निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित होगा –
  - i. व्यक्तिगत पॉलिसियों के लिए पॉलिसी की शुरुआत अथवा उसके नवीकरण की तारीख पर प्रस्तावक की पूर्ण आयु ।
  - ii. फैमिली फ्लोटर के तहत कवर करने हेतु प्रावधान सभी पारिवारिक सदस्यों के कवरेज का प्रस्ताव होने पर बहु इंसीडेंस दरों के आधार पर ।
- b) पॉलिसी प्रीमियम अपरिवर्तित रहेगा –
  - i. कवरेज की समूची अवधि के लिए सभी सामूहिक और यात्रा बीमा योजनाओं के लिए ।
  - ii. यात्रा बीमा योजनाओं के अलावा सभी व्यक्तिगत एवं फैमिली फ्लोटर योजनाओं के लिए जिसकी न्यूनतम अवधि होगी –
    1. एक वर्ष की नवीकरण योजनाओं के लिए एक वर्ष की अवधि –
    2. बहुवर्षीय योजनाओं के मामले में 3 (b) तथा 3 (c) में वर्णित अवधि के अनुसार ।
- c) फाइल व यूज के तहत अनुमोदित योजनाओं में तीन वर्ष की अवधि के बाद समान्यतः प्रीमियम नहीं बदला जाएगा । इसके उपरान्त बीमाकार, प्रीमियम दरों में अनुभव के आधार पर परिवर्तन कर सकता है, ऐसी दरें भी प्राधिकरण के अनुमोदन की तिथि से कम से कम एक वर्ष तक अपरिवर्तित रहेंगी ।
- d) दरों में परिवर्तन, प्राधिकरण के अनुमोदन की तिथि से लागू होगा और तत्पश्चात ये दरें नई भावी योजनाओं पर तथा नवीकरण की तारीखों से लागू होंगी ।
- e) बीमाकार द्वारा किए गए मूल्यन के औचित्य का मूल्यांकन, वित्तीय दीर्घकालिकता तथा पॉलिसी की दरों, भारिता, गारंटी एवं डिस्काउंट से संबंधित लाभकारिता के आधार पर किया जाएगा ।
- f) फाइल एवं यूज प्रक्रिया के तहत किसी योजना को फाइल करते समय बीमाकार को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी ।
  - i. संपूर्ण मूल्यन-विवरण जिसमें प्रीमियम निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली, प्रयुक्त डाटा स्रोतों सहित शामिल किया गया हो ।
  - ii. संभावित तथ्यों में अपेक्षित दावों की आवृत्ति तथा आयु वर्गों के अनुसार दावे की गंभीरता अपेक्षित व्यय आदि शामिल होंगे ।
  - iii. विशिष्ट भार, यदि कोई हो ;
  - iv. विभिन्न मॉडल बिंदुओं पर लाभ का मार्जिन अथवा हानि का अपेक्षित अनुपात और समूचे पोर्टफोलियों में संभावित संयुक्त/समेकित अनुपात ।
  - v. योजना के लिए अंडरराइटिंग क्षमता तथा बीमाकार के पास उपलब्ध वास्तविक क्षमता ।
  - vi. व्यवसाय के प्रबंधन की प्रतिधारण क्षमता ।
  - vii. आंतरिक क्षमता निर्माण उपाय, यदि हो तो प्रस्तावित योजना में पेश करने की आवश्यकता है, और
  - viii. प्रस्तावित योजना के लिए कोई अन्य संगत मेट्रिक ।

- g) प्रीमियम दरों के पुनरीक्षण हेतु आवेदन प्राधिकरण के समक्ष फाइल एवं यूज प्रक्रिया के तहत अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएँ ।
- मूल्य के पुनरीक्षण का औचित्य ;
  - पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दावों के अनुभव की तुलना, उसी तरह की योजना का अनुभव तथा भिन्नताओं के विवरण सहित प्रत्याशित अनुभव से करना ।
  - अपेक्षित दावों के अनुभव तथा प्रस्तावित मूल्यन की संभावनाओं में यह विश्लेषण भी निहित हो कि प्रस्तावित मूल्यन कैसे अनुभूत प्रतिकूलताओं का समाधान करेगा ।
- h) नवीकरण का भार —
- नवीकरण का भार, समूचे पोर्टफोलियो हेतु प्रस्तावित प्रीमियम की वृद्धि और कमी की शर्तों पर होगा न कि किसी व्यक्तिगत पॉलिसी के दावे के अनुभव पर ।
  - प्रस्तावित कटौतियाँ (डिस्काउंट) और भार ;
    - बीमाकार के विवेकाधिकार के अनुसार नहीं होंगे ।
    - एक वस्तुनिष्ठ/उद्देश्यपूर्ण मापदंड पर आधारित होंगे ।
    - विवरण पुस्तिका तथा पॉलिसी प्रलेख में मुख्य रूप में प्रकटित होंगे और वे फाइल एवं यूज प्रक्रिया के तहत अनुमोदित होंगे ।
- i) ऊपरी सीमा/अनुबंध में प्रस्तावित अधिकतम ऑफर ;
- यदि किसी लाभ आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमाकार ने किसी विशेष लाभ अथवा कवर के लिए कोई ऊपरी सीमा निर्धारित कर रखी हो तो, बीमाकार उस ऊपरी सीमा से बढ़कर किसी अन्य कवर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा बशर्ते कि उस अतिरिक्त कवर के लिए अलग से भुगतान किया जाए ।
  - कुल प्रीमियम पर उस प्रकार की कितनी अंतर्निहित सीमाएँ निर्धारित हैं इसकी संपूर्ण जानकारी फाइल एवं यूज में प्रस्तुत की जाए ।
  - यदि कोई प्रस्ताव ऐसी ऊपरी सीमा से बढ़कर स्वीकार किया जाता है तो बीमाकार किसी दावे को इस आधार पर अस्वीकार नहीं कर सकता है कि, वह पॉलिसी उसके लिए निर्धारित ऊपरी सीमा को पार चुकी है ।
  - फिर भी बीमाकार ऐसी ऊपरी सीमा से अधिक कवर को रद्द कर सकता है तथा प्रीमियम का एक अनुपात लौटा देगा, यदि ;
    - प्रस्ताव के समय किसी पॉलिसी धारक ने मौजूदा तथा समानांतर पॉलिसी के विवरण अपने प्रस्ताव फॉर्म में प्रस्तुत ने किए हों ।
    - यदि ऐसी पॉलिसी के बारे में ऊपरी सीमा से अधिक कवर स्वीकृत होने के बाद जानकारी दी गई हो ।
    - किसी अन्य बीमा कंपनी द्वारा ऐसी अन्य पॉलिसी की गई हो ।
8. पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण —
- बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA) (पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण) विनियम 2002 सभी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर लागू रहता है ।
  - प्रत्येक बीमाधारक को एक प्रमुख सूचना पत्र प्रदान किया जाए जिसमें पॉलिसी संबंधी सभी महत्वपूर्ण लक्षण, उसके दावे की सीमाएँ, अस्वीकृतियाँ आदि के बारे में संक्षिप्त जानकारी सरल भाषा में स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए । प्राधिकरण द्वारा ऐसे प्रलेख निर्धारित किए जाएँ ।
  - बीमाकार को आवश्यक प्रणालियों, प्रक्रियाओं, कार्यालयों तथा आधारीक संरचना आदि की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वह 24 घंटों के आधार कुशलतापूर्वक पूर्व प्राधिकार पत्र जारी करने तथा दावों तथा शिकायतों का निवारण करने हेतु समर्थित हो सके ।

- d) बीमाकार द्वारा दावे का निपटारा/अस्वीकृति
- एक बीमाकार को अंतिम 'अपेक्षित' प्रलेख की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दावों का निपटारा अथवा अस्वीकृति कर देना चाहिए ।
  - संदिग्ध 'फ्रॉड' के कुछ मामलों के अलावा, सामान्यतः पॉलिसी की शर्तों की सूची में शामिल न होने वाला कोई भी प्रलेख 'आवश्यक' नहीं समझा जाएगा । बीमाकार यह सुनिश्चित कर ले कि दावों की प्रक्रिया हेतु सभी अपेक्षित प्रलेखों को एक ही समय पर मांगा जाएगा न कि बार-बार ।
  - बीमाकार द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र में प्रस्ताव स्वीकार करते समय एकत्रित की गई जानकारी पॉलिसी के तहत प्रस्तावित शर्तों, पूर्व में किए गए दावों में प्रकटित चिकित्सकीय इतिहास आदि समस्त जानकारी का अनुरक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में किया जाना चाहिए । दावे का निपटारा करते समय, दुबारा बीमाधारक से पूछताछ नहीं की जानी चाहिए । यदि कोई सूचना मांगी जाती है तो उसे 'आवश्यक' नहीं समझा जाएगा ।
  - यदि दावे की स्थिति/घटना दो पॉलिसियों की अवधि के बीच में सृजित होती है तो दावे का भुगतान दो पॉलिसी अवधियों में बीमित राशि के आधार पर किया जाना चाहिए । भुगतान के समय प्रत्येक पॉलिसी की अवधि की कटौतियों को भी शामिल किया जाए । बीमाधारक को इस उपयुक्त राशि का भुगतान करते समय उसमें से अगले प्रीमियम की/नवीकरण की राशि को काट लिया जाए यदि उसका भुगतान न किया गया हो ।
  - बीमाकार द्वारा एक अवधि निर्धारित की जाए जिसके भीतर बीमा/पॉलिसी धारक दावे के लिए आवश्यक प्रलेख प्रस्तुत कर सकें । फिर भी उस अवधि के बाद भी दावे फाइल होने की स्थिति में विलंब के कारणों के औचित्य को ध्यान में रखते हुए दावों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।
- e) पॉलिसी प्रलेखन हेतु न्यूनतम प्रकटन – आई.आर.डी.ए. (पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2000 के अलावा पॉलिसी प्रलेख में निम्नलिखित का समावेश होना चाहिए ।
- इस विनियम द्वारा अपेक्षित प्रकटनों की सूची ।
  - दावों की प्रस्तुति समय सीमाओं तथा संभावित कार्रवाई की प्रक्रिया, यदि दावों की प्रस्तुति के लिए समय सीमा का पालन न किया जाए तो सभी दावा प्रलेखों के लिए दावा प्रक्रिया की आवश्यकता होती है ।
  - स्वास्थ्य बीमस योजनाओं में प्रस्तावित किसी कवर की उप सीमाओं तथा ऐसी उप-सीमाओं का उस योजना में प्रस्तावित अन्य कवरों पर पड़ने वाले प्रभाव आदि को स्पष्ट रूप से समझाया जाए ।
  - विनियम 9 (6) (पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण) विनियम 2002 के अनुसार पॉलिसी प्रलेख में दंड स्वरूप ब्याज का प्रावधान अभिन्न रूप से समाविष्ट किया जाए ।
  - टी.पी.ए. का विवरण, यदि कोई हो तो उसके पूरे पते तथा संपर्क (फोन) नंबरों के साथ पॉलिसी प्रलेख से संलग्न किया जाए । टी.पी.ए. के बदलने पर उपर्युक्त जानकारी अद्यतन की जाए ।
9. स्वास्थ्य पॉलिसियों को स्वीकारना –
- किसी पॉलिसी की शर्तों के आधार पर बीमाकार द्वारा सभी पॉलिसी धारकों को एक सुनिश्चित प्रतिष्ठान में इलाज करवाने हेतु निःशुल्क सुविधा प्रदान की जानी

चाहिए अथवा किसी भी चिकित्सा केन्द्र में इलाज करवाने पर उन्हें उसके व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाए ।

- b) निःशुल्क सुविधा केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों हेतु प्रस्तावित की जाए जिन्होंने चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने हेतु बीमाकार से अनुबंध किया हो । इन स्थापनों को 'नेटवर्क प्रोवाइडर' कहा जाता है । प्रतिपूर्ति की अनुमति किसी भी चिकित्सा प्रतिष्ठान हेतु दी जा सकती है । इन सभी केन्द्रों/स्थापनों/प्रतिष्ठानों का, आवश्यकतानुसार किसी स्थानीय राज्य अथवा राष्ट्रीय विधि द्वारा लाइसेंस अथवा पंजीकृत होना अनिवार्य है ।
- c) समस्त स्वास्थ्य एवं जीवन संयोजन योजनाओं का प्रबंधन इस विनियम की अनुसूची II के अनुसार होना चाहिए जिसमें समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा संशोधन किया जाता है ।
- d) आपात स्थितियों के अलावा निःशुल्क सुविधा के लिए बीमाकार अथवा टी.पी.ए. द्वारा पूर्व प्राधिकार पत्र उस नेटवर्क प्रोवाइडर के नाम से जारी किया जाना होता है जहाँ उपचार करवाया जाना हो । प्राधिकरण द्वारा एक मानक पूर्व प्राधिकार प्रपत्र तथा दावे के मानक प्रतिपूर्ति प्रपत्र निर्धारित किए जा सकते हैं — जिनका प्रयोग इस प्रयोजनार्थ किया जाएगा ।
- e) निःशुल्क सुविधा का लाभ उठाने के लिए बीमाकारों द्वारा बीमाधारक को पॉलिसी जारी करने के 15 दिनों के भीतर, टी.पी.ए. द्वारा या स्वयं एक परिचय पत्र जारी करना चाहिए ।
- f) परिचय पत्र पर पॉलिसी तथा पॉलिसी धारक का ब्यौरा तथा बीमाकार का लोगो होना चाहिए । कार्ड की मान्यता समय-समय पर नवीकृत पॉलिसी की शर्तों के अनुसार होनी चाहिए । बीमाकार परिचय पत्र के बजाय स्मार्टकार्ड भी जारी कर सकते हैं ।
- g) जब किसी पॉलिसी धारक को किसी निर्दिष्ट अस्पताल में उक्त प्रक्रिया हेतु पूर्व प्राधिकार प्रदान कर दिया जाता है अथवा पॉलिसी धारक द्वारा पहले से ही उस अस्पताल में उपचार करवाया जा रहा है यदि उस अस्पताल को नेटवर्क प्रोवाइडर की सूची से हटाया जा रहा है तब बीमाकार को ऐसे पॉलिसी धारक को उसी अस्पताल में अपना इलाज करवाने हेतु निःशुल्क सुविधा पूर्ववत् जारी रखना चाहिए ।
- h) बीमाकार द्वारा अपने बीमाधारक को नेटवर्क प्रोवाइडरों की सूची से अवगत करवाते रहना चाहिए । उस सूची को अद्यतन कर उसे अपनी तथा नियुक्त टी.पी.ए. के कार्यालय की वेबसाइट पर दर्शाना चाहिए । नेटवर्क प्रोवाइडरों में बदलाव होने की स्थिति में सूचित किया जाए ।
- i) बीमाधारक की बीमाकार के सभी नेटवर्क प्रोवाइडरों तक निःशुल्क सुविधा हेतु तब तक पहुँच होती है जब तक कि बीमाकार का नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ एक मान्य सेवा अनुबंध होता है । टी.पी.ए. के बदलने के बावजूद भी नेटवर्क प्रोवाइडर अपरिवर्तित रहते हैं ।
- j) नेटवर्क प्रोवाइडरों के विभाजन, दावों के हस्तांतरण तथा उनके सेवा क्षेत्रों के बाहर के लेन-देन हेतु एक बीमा कंपनी अन्य बीमा कंपनियों के साथ अनुबंध कर सकती है ।

#### 10. बीमाकारों, नेटवर्क प्रोवाइडरों तथा टी.पी.ए. के बीच अनुबंध —

- a) बीमा कंपनियाँ अपने पॉलिसी धारकों को निःशुल्क सेवाएँ प्रदान कर सकती हैं बशर्ते —

660 GI/13-4

- i. सेवाएँ उन नेटवर्क प्रोवाइडरों को प्रस्तावित की जाएँगी जिन्हें स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने हेतु सीधे बीमाकार के साथ अनुबंधित किया गया है अथवा स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइडर, टी.पी.ए. तथा बीमाकार के बीच अनुबंध किया गया हो ।
- ii. ऐसे अनुबंधों में प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर मानक खंड शामिल किए जाएँ । जैसे (बी) में कहा गया है ।
- iii. बीमाकारों नेटवर्क प्रोवाइडरों/टी.पी.ए. के साथ किए गए अनुबंध में अन्य मुद्दों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी कवर की जाएँ ।
  1. नेटवर्क प्रोवाइडरों द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर लागू होने वाली दर ।
  2. बीमाकार के सशक्तीकरण हेतु अनुबंध में एक खंड अलग से रखा जाए जिसके अनुसार किसी फ्रॉड, कुप्रतिनिधित्व, सेवा की अपर्याप्तता अथवा अन्य प्रकार के अननुपालन अथवा टी.पी.ए. अथवा नेटवर्क प्रोवाइडर की ओर से डीफॉल्ट होने पर अनुबंध को रद्द अथवा संशोधित किया जा सके । बशर्ते कि ऐसा निरस्तीकरण अथवा संशोधन बीमाकार द्वारा तब तक न किया जाए जब तक कि संबंधित टी.पी.ए./नेटवर्क प्रोवाइडर अपना पक्ष न रख दें ।
  3. अनुबंध एक ऐसा खंड भी स्थाई रूप से रखा जाए जिसके तहत टी.पी.ए. के बदल जाने अथवा अनुबंध के रद्द होने जाने के बाद भी नेटवर्क प्रोवाइडर निरंतर रूप से बीमा कंपनी को अपनी सेवाएँ प्रदान करता रहे ।
  4. टी.पी.ए. द्वारा नेटवर्क प्रोवाइडर को दी जा रही सेवा की अपर्याप्तता के कारणों के आधार पर, नेटवर्क प्रोवाइडर के मौजूदा टी.पी. से अलग हो जाने का खंड भी अनुबंध में शामिल किया जाए ।
  5. किसी बीमा कंपनी द्वारा टी.पी.ए. को दी जा रही सेवाओं हेतु देय शुल्क तथा अन्य प्रभारों को स्पष्ट करने वाला खंड ।
  6. केवल बीमा कंपनी को ही दावे को नकारने की शक्ति प्रदान करने हेतु एक विशेष खंड (क्लॉस)
  7. (a) बीमाकार को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नेटवर्क प्रोवाइडर के परिसर का निरीक्षण करने हेतु समर्थता प्रदान करने संबंधी खंड ।  
(b) समय-समय पर प्राधिकरण इस प्रकार के समझौतों में सम्मिलित करने हेतु मानक परिच्छेद प्रदान कर सकता है ।  
(c) बीमा कंपनी को यह प्रयास करना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में भौगोलिक विस्तार के साथ पर्याप्त संख्या में सरकारी एवं निजी नेटवर्क प्रोवाइडरों के साथ समझौते करें ।
11. नेटवर्क प्रोवाइडरों को भुगतान तथा पॉलिसी धारकों के दावों का निपटारा — दावों के निपटारों के उद्देश्य से बीमाकार द्वारा नेटवर्क प्रोवाइडर तथा पॉलिसी धारकों को सीधा भुगतान करना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए वह अपनी बैंकिंग प्रणाली को नेटवर्क प्रोवाइडर अथवा बीमाधारक के साथ एकीकृत कर सकता है । ऐसा होने पर यदि कोई दावेदार चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान करना चाहता है तो, बीमाकार को उसका अनुरोध अस्वीकार नहीं करना चाहिए ।
12. स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के संबंध में टी.पी.ए. द्वारा प्रस्तावित सेवाएँ —
  - a) बीमाकार परिभाषित सेवाओं के प्रावधान हेतु आई.आर.डी.ए. (थर्ड पार्टी प्रशासक) विनियम 2001 के अनुसार एक मान्य लाइसेंस धारी टी.पी.ए. के साथ अनुबंध में शामिल हो सकता है ।
  - b) टी. पी.ए. द्वारा प्रस्तावित सेवाओं में निम्नलिखित शामिल नहीं होंगे —

- i. स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों से संबंधित निपटारे तथा अस्वीकृतियाँ ; फिर भी टी.पी.ए. दावों का निपटारा करने तथा दावों के भुगतान हेतु बीमाकार को सिफारिश कर सकती है, परंतु बीमाकार द्वारा टी.पी.ए. को दावों के आकलन तथा दक्षता आवश्यकताओं के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण आवश्यकताओं, दावे का आकलन तथा स्वीकृति प्रक्रिया आवश्यकताओं इत्यादि का समझौते के अधीन सविवरण निर्देश प्रदान करना चाहिए ।
- ii. पॉलिसी धारक अथवा बीमा धारक या किसी अन्य व्यक्ति को सीधी सेवाएँ प्रदान करना जब तक कि वह सेवा अनुबंध में वर्णित है । शर्तों के आधार पर अनुबंध में वर्णित हों ।
- c) पॉलिसी धारकों को हर समय स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए टी.पी.ए. के पास आधारीक संरचना होनी चाहिए ।
- d) दावों का निपटारा एवं अस्वीकृति —
- i. टी.पी.ए. को सौंपे गए सभी प्रलेखों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करके बीमाकारों को दावे के निपटारे अथवा अस्वीकृति पर निर्णय लेने के लिए अग्रेषित किया जाना चाहिए ।
- ii. टी.पी.ए. द्वारा दावों के निपटारे/अस्वीकृति के संबंध में पत्राचार करते समय स्पष्ट रूप से निम्नलिखित कथन व्यक्त कर देना होगा ।  
बीमाकार के अनुदेशानुसार (बीमाकार का नाम) उपचार के विनिर्देशों/अस्वीकृति के आधार/रु. ....(राशि) का दावा स्वीकार/अस्वीकार किया जाता है। किसी अन्य स्पष्टीकरण के लिए आप बीमाकार से सीधा संपर्क कर सकते हैं।
- iii. उपर्युक्त कथन दावे के निपटारे अथवा अस्वीकृति के प्रत्येक दावे में पॉलिसी धारक को भेजे जाने वाले संप्रेषण का एक अनिवार्य भाग है ।
- iv. बीमाकार तथा टी.पी.ए. पॉलिसीधारक को सदैव उचित तथा पर्याप्त सेवा प्रदान करने हेतु जिम्मेदार होंगे ।
- e) गैर-स्वास्थ्य लाभ बीमा योजनाओं पर रोध —
- i. टी.पी.ए. द्वारा केवल आई.आर.डी.ए. (थर्ड पार्टी प्रशासक) विनियम 2001 द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सेवाएँ ही प्रदान की जाएँ न कि कोई अन्य सेवाएँ ;
1. प्रत्यक्ष तथा अपरोक्ष रूप से गैर बीमा स्वास्थ्य सेवाएँ अथवा
  2. प्रत्यक्षतः ऐसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को जिसका प्रोन्नयन, प्रायोजन अथवा अनुमोदन किन्हीं बीमा कंपनियों द्वारा नहीं अपितु सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किया गया हो ।
  3. किसी पॉलिसी/बीमाधारक को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से —बीमाकार के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार कुछ स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर ।
13. टी.पी.ए. और बीमा कंपनी के बीच अनुबंध —
- a) स्वयं बीमाकार और टी.पी.ए. द्वारा अनुबंध का दायरा परिभाषित किया जाए । टी.पी.ए.द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य एवं संबंधित सेवाएँ तथा पारिश्रमिक आदि । बशर्ते कि हर अनुबंध में किसी एक पक्ष अथवा आपसी सहमति से अथवा किसी फ्रॉड कुप्रतिनिधित्व, अपर्याप्तत सेवा, अननुपालन अथवा विलंब के आधार पर अनुबंध को रद्द करने का खंड भी शामिल किया जाए । ऐसा होने पर अनुबंध में ऐसा कोई तत्व न हो जो आई.आर.डी.ए. द्वारा निर्धारित पॉलिसी धारक के कल्याण, संरक्षण, सेवा मानकों तथा समय के मानकों को प्रतिबंधित अथवा संशोधित करता हो ।

- b) टी.पी.ए. को दिया जाने वाला पारिश्रमिक बीमाकार को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर आधारित होना चाहिए न कि योजना/पॉलिसी अनुभव अथवा दावे की लागत या बीमाकार की हानि के अनुपात पर ।
- c) टी.पी.ए. तथा बीमा कंपनी के बीच हुए अनुबंध की अथवा किसी भी प्रकार के संशोधन की एक प्रति, संशोधन के 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण में फाइल की जाए ।
- d) एक से अधिक टी.पी.ए. को बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त किया जा सकता है और उसी प्रकार एक टी.पी.ए. एक से अधिक कंपनियों को अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकता है ।
- e) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर न्यूनतम मानक खंड अनुबंध में शामिल करने हेतु निर्धारित किए जा सकते हैं ।

#### 14. स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की सर्विसिंग हेतु टी.पी.ए. का परिवर्तन —

- a) टी.पी.ए. के बदलने की सूचना बीमाकार द्वारा अपने सभी पॉलिसी धारकों को बदलाव के 30 दिन पूर्व ही दी जानी चाहिए ।
- b) नवनियुक्त टी.पी.ए. के हेल्पलाइन नंबरों, पतों आदि की सूचना सभी पॉलिसी धारकों हेतु यथाशीघ्र उपलब्ध करवाए जाने चाहिए ।
- c) बीमाकार द्वारा पिछले टी.पी.ए. के सभी पॉलिसी धारकों का समस्त डाटा एकत्रित कर नवनियुक्त टी.पी.ए. को अविलंब हस्तांतरित किया जाए । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस बदलाव द्वारा पॉलिसी धारकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े । इस संबंध में निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए ।
  - i. उन मामलों की अवस्थिति जिनमें मौजूदा टी.पी.ए. द्वारा पूर्व प्राधिकरण पहले ही जारी किया जा चुका हो ।
  - ii. उन मामलों की स्थिति जिनमें दावों के प्रलेख प्रोसेसिंग हेतु पहले ही टी.पी.ए. को सौंपे जा चुके हों ।
  - iii. उन दावों की स्थिति जिनमें टी.पी.ए. द्वारा प्रोसेसिंग पूरी की जा चुकी हो तथा भुगतान राशि बीमाकार/टी.पी.ए. के पास रूकी हुई हो ।

#### 15. डाटा एवं संबंधित मुद्दे —

- a) टी.पी.ए. और बीमाकार सभी दावों के डाटा हस्तांतरण हेतु एक निर्बाध प्रवाह प्रक्रिया स्थापित करें ।
- b) संबंधित फाइलें, दावों के निपटारे अथवा अस्वीकृति के 15 दिनों के भीतर बीमाकार को सौंप दी जाएँ ।

#### 16. प्राधिकरण में विवरणियों की प्रस्तुति —

- a) स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय चलाने वाली सभी बीमा कंपनियों, अनुसूची III के अनुपालनार्थ समस्त विवरणियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दें ।

#### 17. संक्रमणिक (Transitory) प्रावधान —

- a) योजनाओं की निकासी
  - i. नियुक्त बीमाकार द्वारा प्रत्येक स्वास्थ्य योजना, समूह एवं व्यक्तिगत का कंपनी के पोर्टफोलियों में परीक्षण कर उन योजनाओं को सूचीबद्ध किया जाए जो इन विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में न हों। यह सूची नियुक्त बीमाकार द्वारा प्रमाणित तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा हस्ताक्षरित होने



के उपरांत 30.06.2013 को या उससे पूर्व प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

ii. इस विनियम के अनुपालित न होने वाली सभी योजनाओं को निरस्त करके उन्हें न बेचा जाए।

1. समूह योजनाओं के मामले में - 01 जुलाई 2013 से।
2. व्यक्तिगत योजनाओं के मामले में - 01 अक्टूबर, 2013 से।

iii. योजना के एक बार विद्‌झों हो जाने के बाद उसमें नये सदस्यों को नामांकित न किया जाए।

iv. फाइल हो चुकी ऐसी योजनाओं को आवेदकों को दुबारा आवेदन करने हेतु लौटा दिया जाए जिनके लिए प्राधिकरण का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

b) उपचारक उपाय -

i. लाभ-प्रस्तावक, प्रीमियम आधारित अथवा डिस्काउंट ऑफर देने वाली योजनाओं को छोड़कर बीमाकार स्वयं अपनी ओर से योजनाओं के लक्षणों (फीचर्स) में संशोधन कर सकते हैं। ये उन संशोधनों से योजना का अनुपालन पर्याप्त रूप से हो पाता है तो, नियुक्त बीमांकक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमाणपत्र के आधार पर उन परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर, एक नई पहचान संख्या नई योजनाओं हेतु आवंटित करेंगे। इन मामलों में यदि यह पता चलता है कि कंपनी की यह दृढ़ता उचित नहीं तो प्राधिकरण को समुचित कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा।

ii. ऐसी योजनाएँ जो उपर्युक्त 2A के प्रावधानों के तहत कवर नहीं की जा सकतीं उन्हें समुचित रूप से संशोधित कर फाइल व यूज के तहत फिर से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए। ऐसे आवेदन टैबुलर रूप में चालू तथा पुनरीक्षित प्रावधानों सहित, मूल्यन आरक्षण, लाभआर्जित तथा अन्य संगत मेट्रिक्स के विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किए जाएँ।

iii. नवीकरण के समय सभी समूह पॉलिसियों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएँ-

1. समूह योजना के संशोधित, अनुमोदित संस्करण को अपनाने का, अथवा
2. पूर्व में जारी की गई पॉलिसी के निरंतर नवीकरण का परंतु ऐसे मामलों में, 1 अप्रैल, 2013 के बाद किसी नये सदस्य को नामांकित नहीं किया जाना चाहिए और समूह पॉलिसी धारक से पुरानी पॉलिसी जारी रखने संबंधी लिखित सहमति प्राप्त कर लिया जाए।

c) सभी बीमाकारों द्वारा संभावित पॉलिसी धारकों को योजनाओं में होने वाले संभावित परिवर्तनों के बारे में सूचित करते हुए उन सभी को उसके संशोधित रूप को अपनाने (स्विच ओवर) करने के विकल्प से भी अवगत करवाया जाए।

18. निरस्तीकरण एवं बचत -

a) स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के संबंध में पूर्व में जारी किए गए सभी दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण/परिपत्र/पत्र आदि इस विनियम के लागू होने के उपरांत निरस्त माने जाएँगे।

b) जब तक कि इन विनियमों द्वारा प्रावधान न किया जाए, इन विनियमों के लागू होने से पूर्व किए गए स्वास्थ्य बीमा अनुबंधों को अमान्य न समझा जाए।

## अनुसूची - I

जीवन तथा समान्य बीमाकारों द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की सुवाह्यता ;

1. अन्य बीमा कंपनी को अपनी पॉलिसी पोर्ट करने के इच्छुक एक पॉलिसी धारक को उक्त बीमा कंपनी को प्रीमियम नवीकरण की तिथि से कम से कम 45 दिन पहले अपनी समूची पॉलिसी को पारिवारिक सदस्यों सहित (यदि हों तो) पोर्ट करने हेतु आवेदन देना होगा ।
2. यदि पॉलिसी धारक नये बीमाकार से प्रीमियम नवीकरण से कम से कम 45 दिन पहले संपर्क करने में असफल रहता है तो बीमाकार सुवाह्यता का प्रस्ताव देने हेतु बाध्य नहीं होगा ।
3. किसी पॉलिसी धारक द्वारा उपर्युक्त (i) में वर्णित कथन के अनुसार ही सुवाह्यता अपनाई जाए न कि पॉलिसी के दौरान ।
4. पॉलिसी धारक द्वारा नवीकरण की तिथि से 45 दिन पूर्व संपर्क न कर पाने पर भी यदि बीमाकार उसके सुवाह्यता के प्रस्ताव पर विचार करने का इच्छुक है, तो वह इसके लिए स्वतंत्र है ।
5. जबकि नवीकरण तिथि पर नये बीमाकार द्वारा सुवाह्यता की सहमति की प्रतीक्षा हो —
  - a) पॉलिसी धारक के अनुरोध पर अल्पावधि के लिए मौजूदा पॉलिसी को विस्तारित किया जा सकता है । इस अवधि के लिए प्रो-रेट प्रीमियम स्वीकृत किया जाए । यह अवधि कम से कम एक माह होनी चाहिए और ;
  - b) नये बीमाकार से पॉलिसी की पुष्टि प्राप्त होने अथवा बीमाधारक का विशेष लिखित अनुरोध प्राप्त होने तक मौजूदा पॉलिसी रद्द नहीं की जानी चाहिए ।
  - c) इन सभी मामलों में नये बीमाकार द्वारा जोखिम उत्पन्न होने तथा अल्पावधि की तारीख की समाप्ति जो भी संगत हो — की गणना पहले से ही कर ली जानी चाहिए ।
  - d) यदि, किसी कारणवश बीमाधारक अपनी पॉलिसी को मौजूदा बीमाकार के साथ ही बनाए रखना चाहता है तो, नियमित प्रीमियम लेकर तथा कोई नई शर्तें लागू किए बिना उसे यह अनुमति दी जानी चाहिए ।
6. यदि पॉलिसी धारक ने 5(a) का प्रावधान चुना है और वह दावा प्रस्तुत करना चाहता है तो, मौजूदा बीमाकार द्वारा पॉलिसी के शेष भाग के लिए बकाया प्रीमियम की मांग कर सकता है — बशर्ते मौजूदा बीमाकार उन दावों को स्वीकार कर ले । ऐसे मामलों में पॉलिसी धारक पर, शेष अवधि के लिए प्रीमियम भरने का दायित्व रहेगा ।
7. उक्त सूचना प्राप्त होने पर बीमा कंपनी आवेदक को अनुसूची - I के दिशानिर्देशों के अनुसार सुवाह्यता प्रपत्र के साथ एक प्रस्ताव प्रपत्र तथा योजना से संबंधित प्रासंगिक साहित्य तथा विभिन्न प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की जानकारी भिजवा दे ।
8. पॉलिसी धारक, उस सुवाह्यता प्रपत्र तथा प्रस्ताव प्रपत्र भरकर दोनों प्रपत्रों को बीमा कंपनी में जमा करवा दे ।
9. पोर्टेबिलिटी - फॉर्म प्राप्त होने के बाद बीमा कंपनी, मौजूदा बीमा कंपनी से संबंधित पॉलिसी धारक के मेडिकल-हिस्ट्री तथा दावा हिस्ट्री संबंधी विवरण मंगवाने हेतु संबंधित करेगी । यह कार्य आई.आर.डी.ए. के वेब-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा ।
10. मौजूदा बीमा कंपनी, उक्त अनुरोध प्राप्त होने पर आई.आर.डी.ए. के वेब पोर्टल में निर्धारित डाटा फॉर्मेट में समस्त अपेक्षित डाटा अनुरोध प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर उपलब्ध करवाएगी ।

11. यदि मौजूदा बीमाकार निर्धारित समय सीमा के भीतर डाटा फॉर्मेट में अपेक्षित डाटा उपलब्ध नहीं करवा पाता है तो इसे आई.आर.डी.ए. द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा तथा बीमाकार, बीमा अधिनियम, 1938 के तहत दंड के प्रावधानों का अधिकारी होगा।
12. मौजूदा बीमा कंपनी से डाटा प्राप्त होने के बाद नयी बीमा कंपनी प्रस्ताव तैयार करेगी तथा आई.आर.डी.ए. (पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण) विनियम 2002 के विनियम 4 (6) के अनुसार पॉलिसी धारक को अपने निर्णय से अवगत करवाएगी।
13. निर्धारित समय सीमा के भीतर डाटा प्राप्त होने के बावजूद भी यदि बीमा कंपनी 15 दिन के भीतर पॉलिसी धारक को निर्णय की सूचना नहीं देती है तो बीमा कंपनी के पास उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत करने का अधिकार कायम नहीं रहता है और उसे वह प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ता है।
14. सुवाह्यता (पोर्टिंग) हेतु प्रस्तुत पॉलिसी को स्वीकार करने हेतु बीमाकार द्वारा किसी प्रकार के अतिरिक्त चार्ज की मांग नहीं की जाएगी।
15. पोर्टेड पॉलिसी की स्वीकार्यता के लिए किसी प्रकार का कमीशन अथवा मध्यस्थता शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती।
16. सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) की अनुमति निम्नलिखित मामलों में दी जानी चाहिए ;
  - a) गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा जारी की गई सभी व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियाँ तथा फ़ैमिली फ्लोटर पॉलिसियाँ।
  - b) किसी गैर जीवन बीमा कंपनी की किसी समूह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए गए पारिवारिक सदस्यों, व्यक्तिगत सदस्यों को उसी बीमाकार के साथ उक्त समूह बीमा योजना से किसी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा योजना अथवा फ़ैमिली फ्लोटर पॉलिसी पर प्रवसन करने का अधिकार होता है। तत्पश्चात उसे उपर्युक्त। में वर्णित अधिकार प्राप्त हो जाएगा।
17. किसी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए पहले से मौजूद रोगों तथा समयबद्ध निकासियों का प्रतीक्षाफल निम्नलिखित रूप से माना जाता है -

क्र. सं.	पिछले बीमाकार के साथ बीमा कवर की निरंतरता के वर्ष	नये बीमाकार के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रतीक्षा अवधि,, दिनों /वर्षों के रूप में				
		YY दिन	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष
1.	आरंभ के XX दिन (पॉलिसी प्रलेख के अनुसार दिनों की संख्या)	(YY-XX) दिन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	1 वर्ष की अवधि की निकासी के लिए					
	1 वर्ष	लागू नहीं	शून्य	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष
3.	2 वर्षों की अवधि की निकासी के लिए					
	1 वर्ष	लागू नहीं	शून्य	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष
	2 वर्ष	लागू नहीं	शून्य	शून्य	1वर्ष	2 वर्ष
4.	3 वर्षों की अवधि की निकासी के लिए					
	1 वर्ष	लागू नहीं	शून्य	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष

	2 वर्ष	लागू नहीं	शून्य	शून्य	1 वर्ष	2 वर्ष
	3 वर्ष	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	1 वर्ष
5.	4 वर्षों की अवधि की निकासी के लिए					
	1 वर्ष	लागू नहीं	शून्य	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष
	2 वर्ष	लागू नहीं	शून्य	शून्य	1 वर्ष	2 वर्ष
	3 वर्ष	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	1 वर्ष
	4 वर्ष	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

नोट 1.— यदि नई पॉलिसी में किसी रोग अथवा उपचार की प्रतीक्षा अवधि पिछली पॉलिसी की तुलना में अधिक लंबी है तो अतिरिक्त प्रतीक्षा अवधि के बारे में आवक पॉलिसी धारक को पोर्टेबिलिटी प्रपत्र में स्पष्ट रूप से समझा दिया जाना चाहिए ।

नोट 2. — समूह स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए व्यक्तिगत सदस्यों को उपर्युक्त टेबल के अनुसार तथा निरंतर बीमा कवर के आधार पर क्रेडिट दिया जा सकता है यह विचार किए बिना कि पिछली पॉलिसी में पहले से मौजूद रोग के लिए निकासी/समयबद्ध निकासी का प्रावधान/था अथवा नहीं ।

18. पोर्टेबिलिटी पिछली पॉलिसी में बीमित राशि तथा बढ़ी हुई बीमित राशि पर भी लागू होगी यदि बीमाधारक द्वारा अनुरोध किया जाए तो पिछली पॉलिसियों के तहत पिछले बीमाकारों से प्राप्त संचयी लाभांश पर भी एक सीमा तक लागू होगी । उदाहरण के लिए ; यदि किसी व्यक्ति के पास 2 लाख रु. की बीमित राशि थी और उसे बीमाकार A से 50,000 रु. उपार्जित लाभांश मिला । जब वह बीमाकार B को शिफ्ट हुआ और उसका प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, बीमाकार B को उसे 2.50 रु. की बीमित राशि प्रीमियम लेने के बाद ऑफर करनी थी । यदि बीमाकार B के पास 2.50 लाख रु. की कोई योजना उपलब्ध न हो तो वह बीमित व्यक्ति को निकटतम उच्चतर स्लैब के रूप में 3 लाख की बीमा योजना ऑफर करेगा और 3 लाख रु. के लिए प्रीमियम लेगा । फिर भी इस मामले में सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) 2.50 लाख तक ही उपलब्ध रहेगी ।

19. बीमाकारों द्वारा पॉलिसी अनुबंध तथा प्रोन्नयन सामग्री जैसे विवरणिका, बिक्री विवरण या अन्य प्रलेखों में इस बात की ओर पॉलिसी धारक का ध्यान आकर्षित किया जाए कि ;

- सभी स्वास्थ्य योजनाएँ सुवाह्य (पोर्टेबल) होती हैं ;
- पॉलिसी धारक, पोर्टेबिलिटी का लाभ उठाने हेतु, नवीकरण की तारीख से पहले ही अन्य बीमाकार से संपर्क करने की पहल शुरू कर दे ताकि पॉलिसी कवरेज में अन्य बीमाकार द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने में विलंब होने से आने वाले व्यवधान (ब्रेक) से बचा जा सके ।

### परिशिष्ट - I

#### सुवाह्यता प्रपत्र

#### भाग - I

1.	पॉलिसी धारक/बीमित का नाम	
2.	जन्म तिथि/आयु	
3.	पॉलिसी धारक/बीमित का पता	
4.	मौजूदा बीमाकार का विवरण	

	• योजना का नाम	
	• बीमित राशि	
	• संचयी लाभांश	
	• लिए गए पूरक/संशोधन	
	• पॉलिसी नंबर	
5.	प्रस्तावित बीमा का ब्यौरा	
	• प्रस्तावित/ली जाने वाली योजना का नाम	
	• प्रस्तावित बीमा राशि	
	• क्या संचयी लाभांश को बीमित राशि के साथ परिवर्तित करना है	
6.	सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी के कारण )	
7.	पॉलिसी में शामिल किए जाने वाले पारिवारिक सदस्यों का नाम	
संलग्नक; मौजूदा पॉलिसी-प्रलेखों की छायाप्रति		
दिनांक		पॉलिसी धारक के हस्ताक्षर

## भाग - II

क्या पी.ई.डी. निकासी/समयबद्ध निकासी की अवधि मौजूदा पॉलिसी से अधिक है ; (हाँ/नहीं इंगित करें) :

यदि हाँ, कृपया निम्नलिखित घोषणा को लिखित सहमति दें ।

'मुझे विदित है कि निम्नलिखित रोगों/उपचारों की प्रतीक्षा अवधि पिछली पॉलिसी की शर्तों से ...  
.....दिन/वर्ष अधिक है। मैं एतद्वारा, निम्नलिखित रोगों/उपचारों के लिए अतिरिक्त प्रतीक्षा अवधि वहन करने हेतु सहमत हूँ ।

पॉलिसी धारक के हस्ताक्षर

660 GI/13-6

## अनुसूची II

### स्वास्थ्य एवं जीवन-संयोजी योजनाओं का प्रबंधन

- 1 इस श्रेणी की योजनाओं का 'स्वास्थ्य एवं जीवन संयोजी योजनाओं' का नाम दिया गया है। इस अनुसूची में इसका उल्लेख 'कॉम्बी योजनाओं' के रूप में किया जाएगा।
- 2 यह अनुसूची आई.आर.डी.ए. (माइक्रो बीमा) विनियम 2005 द्वारा प्रशासित माइक्रो बीमा योजनाओं पर लागू नहीं होगी।
- 3 सभी बीमा कंपनियाँ जो 'स्वास्थ्य एवं जीवन-संयोजी योजनाओं' का प्रोन्नयन करती हैं वे निम्नलिखित का पालन करेंगी।

#### a) संयोजी योजनाओं का वर्ग

- i. 'संयोजी योजनाएँ' सभी जीवन बीमा तथा गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा प्रमोट की जा सकती है।
- ii. ये योजनाएँ जीवन बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित विशुद्ध अवधि जीवन बीमा कवर तथा गैर जीवन बीमा निगम/एकांगी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा कवर का संयुक्त रूप होती हैं।
- iii. इन योजनाओं के तहत प्रस्तावित योजनाएँ व्यक्तिगत रूप से, फाइल व यूज प्रक्रिया के तहत अनुमोदित होनी चाहिए।
- iv. राइडर्स/अतिरिक्त (add-on) कवर, फाइल व यूज अनुमोदन के अनुरूप प्रस्तावित किये जा सकते हैं।
- v. दोनों प्रकार जोखिमों के प्रीमियम संघटकों को अलग से पहचानाकर बिक्री-पूर्व तथा बिक्री के उपरांत, पॉलिसी धारकों को इसकी जानकारी दे दी जाए साथ ही पॉलिसी प्रलेख, बिक्री-विवरण में भी इसे प्रकटित किया जाए।
- vi. इस योजना को, व्यक्तिगत बीमा-योजना तथा समूह बीमा आधार पर प्रस्तावित किया जा सकता है। फिर भी जहाँ तक स्वास्थ्य बीमा फ्लोटर योजनाओं का प्रश्न है - विशुद्ध अवधि बीमा योजनाओं की अनुमति, परिवार के अर्जनकारी (earning) सदस्यों में एक को जो स्वास्थ्य बीमा का प्रस्तावक भी है - दी जाती है।
- vii. 'कॉम्बी योजना' की एकीकृत प्रीमियम राशि की गणना श्रेयोल्ड सीमा/विनियमों, दिशा निर्देशों तथा परिपत्रों आदि के आधार पर की जानी चाहिए।
- viii. 'कॉम्बी योजनाओं' के मामले में, कमीशन तथा दावे के पेआउट्स संबंधित बीमाकारों द्वारा ही दिये जाएँगे।
- ix. आई.आर.डी.ए. (स्वास्थ्य बीमा विनियम) 2010 के अनुसार 'कॉम्बी योजनाओं' के लिए फ्री लुक विकल्प रखा जाए। फ्री लुक विकल्प इन योजनाओं पर पूर्णतः लागू किया जाना चाहिए।
- x. 'कॉम्बी योजनाओं' के स्वास्थ्य-खंड को, पॉलिसी-धारक के विकल्प के अनुसार, संबंधित गैर जीवन/एकांगी जीवन बीमा कंपनी द्वारा नवीकृत होने का अधिकार दिया जाए।

#### a) बीमाकारों के बीच 'टाई अप'

- i. 'कॉम्बी योजनाओं' का प्रस्ताव देने वाली बीमा कंपनियों द्वारा 'समझौता-ज्ञापन' स्वीकार किया जाना अनिवार्य है-जिसमें विपणन की कार्य-प्रणाली, पॉलिसी-सेवा तथा सामान्य खर्चों का विभाजन आदि समाहित होता है।

- ii. 'टाई अप' करने वाले बीमाकारों द्वारा, अनुबंध की एक प्रति दाखिल करते हुए आई. आर. डी. ए. से पूर्वानुमोदन ले लेना चाहिए। यह अनुमोदन उनमें से कोई एक बीमाकार भी ले सकता है।
  - iii. यह 'टाई अप' एक जीवन बीमाकार तथा एक गैर जीवन बीमाकार के बीच ही अनुमत होता है।
  - iv. ये दो बीमाकार अनगणित 'कॉम्बी योजनाओं' को प्रमोट कर सकते हैं।
  - v. 'कॉम्बी योजनाओं' को प्रमोट करने के उद्देश्य से आपस में व्यावसायिक संबंध स्थापित करने से पूर्व, बीमा कंपनियों द्वारा एक उपयुक्त ड्यू डिजिलेंस बना लेना चाहिए। प्रस्तावित 'कॉम्बी योजनाओं' हेतु प्रभावी सेवाएँ प्रदान करने के लिए बीमाकारों के बीच एक दीर्घकालिक समझौता होना भी अपेक्षित है।
  - vi. 'टाई अप' से निकासी सामान्यतः ऐच्छिक नहीं होती। फिर भी कुछ अपवादों में दोनों बीमाकार समझौता-ज्ञापन से निकलने हेतु सहमत हों तो उन्हें प्राधिकरण से पूर्वानुमति लेनी होगी।
  - vii. प्रभावी पॉलिसी-सेवा, प्राप्त प्रीमियमों के संचारण आदि के लिए समझौता ज्ञापन के एक भाग के तौर पर, बीमा कंपनियों के बीच विशिष्ट समय सीमा/टर्न अराउंड टाइम्स (TAT) पर सहमति होनी आवश्यक है।
  - viii. आई. आर. डी. ए. (बीमा विज्ञापन तथा प्रकटन) विनियम 2000 के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन जारी करने के 30 दिनों के भीतर विज्ञापनों की फाइलिंग की जानी चाहिए।
  - ix. संयुक्त बिक्री विज्ञापन को जारी करने हेतु आई. आर. डी. ए. से पूर्वानुमोदन लेने के लिए प्रस्तावित प्रक्रियाएँ।
  - x. पॉलिसी की विभिन्न स्तरों पर, जैसे-प्रस्तावना स्तर, पॉलिसी सर्विसिंग, प्रीमियम-वसूली व्यवस्थापन तथा दावों आदि हेतु प्रस्तावित पॉलिसी सेवा की कार्य प्रणाली।
  - xi. 'कॉम्बी योजनाओं' की बिक्री तथा पॉलिसी सेवा के समर्थन में सूचना-प्रौद्योगिकी प्रणाली की व्यवस्था।
  - xii. बीमा कंपनियों द्वारा एक-दूसरे को सामान्य सेवाएं प्रदान करने हेतु हुए व्यय की प्रतिपूर्ति पर अनुबंध।
  - xiii. कॉम्बी योजनाओं के तहत अनुमत अधिकतम कमीशन का वितरण।
  - xiv. प्रीमियम की वसूली का तरीका बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64VB के अनुरूप होना चाहिए।
  - xv. योजना के दूसरे बीमाकार के, प्रीमियम के भाग के शीघ्र हस्तांतरण की प्रक्रिया।
  - xvi. उचित समय पर पॉलिसी डाटा-बेस पर प्रीमियम अपडेट करने हेतु प्रचालन प्रक्रिया की व्यवस्था।
  - xvii. कॉम्बी योजनाओं के पॉलिसी धारकों के लिए, योजना के एक भाग को जारी रखकर जोखिम-कवरेज से निकासी के लिए विनियमों, दिशा-निर्देशों के अनुसार उपलब्ध विकल्प।
  - xviii. प्रस्तावित सामान्य बिक्री विवरण/प्रस्ताव-प्रपत्र दोनों बीमाकारों द्वारा जारी किये जाने हैं बशर्ते कि फाइल एवं यूज प्रक्रिया के तहत अनुमोदित इन प्रलेखों में कोई तरमीम न की गई हो।
  - xix. 'कॉम्बी योजनाओं' के सामान्य विज्ञापन-बशर्ते कि वे कॉम्बी योजनाओं के लक्षणों, शर्तों तक ही सीमित हों।
- c) मुख्य (लीड) बीमाकार
- i. चूंकि 'कॉम्बी योजना' के प्रस्ताव में दो बीमा कंपनियाँ शामिल होती हैं। अतः उनमें से एक बीमा कंपनी, प्रत्येक कॉम्बी योजना की स्वीकृत शर्तों एवं विचारण के अनुसार

प्रस्तावित 'कॉम्बी योजना' के मुख्य बीमाकार की भूमिका निभाने के लिए सहमत हो जाती है।

- ii. 'मुख्य बीमाकार' को कॉम्बी योजना से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए क्रांतिक भूमिका निभानी होती है।
- iii. कॉम्बी योजनाओं की प्रभावी पॉलिसी-सेवा हेतु मुख्य बीमाकार की भूमिका पार्टनर-बीमा कंपनी की मौजूदा प्रचालन-इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर होने में विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।
- iv. अपनी संबंधित पॉलिसियों की शर्तों के अनुसार, दोनों में से कोई भी कंपनी दावों के सक्रिय निपटारे तथा अन्य दायित्वों से विमुख नहीं होनी चाहिए।

4. जोखिम अंकन :- 'कॉम्बी योजना' के तहत, जोखिम से संबंधित अंश का अंकन का कार्य दोनों संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा किया जाना चाहिए। अर्थात् जीवन-बीमा के जोखिम का अंकन जीवन बीमा कंपनी द्वारा तथा स्वास्थ्य बीमा के जोखिम के अंश का अंकन गैर जीवन-बीमा/एकांगी स्वास्थ्य बीमा-कंपनी द्वारा किया जाए।

5. फाइल एवं यूज :-

- a) एक 'कॉम्बी योजना' के तौर पर प्रस्तावित बीमा योजना तथा स्वास्थ्य बीमा-योजना दोनों ही फाइल एवं यूज के तहत पूर्व अनुमोदित होने चाहिए।
- b) दोनों अनुमोदित स्वतंत्र योजनाओं को एकीकृत कर एक सामान्य ब्रैंड नाम से फाइल करवाया जाए
- c) 'कॉम्बी योजना' को फाइल एवं यूज के अनुमोदन हेतु एकीकरण करते समय फाइल जाना होता है - यह विचार किये बिना कि, इस पर पहले अनुमोदन लिया गया था अथवा नहीं।
- d) 'कॉम्बी योजना' फाइलिंग के समय फाइल एवं यूज दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाते हैं।
- e) 'कॉम्बी योजना' को प्राधिकरण के बीमांकिक विभाग में, फाइल एवं यूज प्रारूप में फाइल किया जाना होता है।
- f) कॉम्बी योजना फाइल एवं यूज रूप में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदिन होनी चाहिए।
- g) कॉम्बी योजना फाइल एवं यूज अनुप्रयोग द्वारा निम्नलिखित को भी विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
  - i. 'कॉम्बी योजना' का मुख्य बीमाकार तथा दोनों बीमाकारों के बीच विभाजन कार्यकलापों का सीमांकन।
  - ii. बीमा अधिनियम 1938 की धारा 58 की शर्तों पर प्रीमियम-नोटिसों को जारी करने हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया।
  - iii. जब सर्विसिंग के दौरान मूल बीमाकार की उपस्थिति जरूरी हो तब मुख्य बीमाकार द्वारा पॉलिसी सर्विसिंग की जानी चाहिए। जहाँ तक पॉलिसी धारक का संबंध है मुख्य बीमाकार को सर्विसिंग अनुरोध प्राप्त करने के लिए तथा पावतियाँ जारी करने हेतु नोडल बिंदु के तौर पर नियुक्त किया जाए।
  - iv. साध्यता-अध्ययन के परिणाम, पॉलिसी डाटा बेस को प्रभावी पॉलिसी सेवा अनुरोधों को मुख्य बीमाकार तक पहुँचाते हैं।
  - v. दोनों बीमाकारों द्वारा लागत-लाभ विश्लेषण अपनाए जाएंगे तथा कॉम्बी योजना के प्रीमियम पर दिये जाने वाले डिस्काउंट का प्रस्ताव भी दोनों की सहमति से दिया जाएगा।



## 6. दावों के निपटारे के समय मुख्य बीमाकार द्वारा सुनिश्चित किये जाने मुद्दे

- दावे के प्रकार के आधार पर अन्य बीमाकार द्वारा भी दावों के निपटारे के लिए कुछ उपाय किये जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में, मुख्य बीमाकार द्वारा दूसरे बीमाकार की ओर से, दावे के निपटारे की गारंटी नहीं दी जाएगी।
- 'कॉम्बी योजना' के तहत एक बीमाकार द्वारा स्वीकार किये जाने वाले जोखिम का प्रभाव अन्य बीमा कंपनी पर नहीं पड़ना चाहिए।
- जहां तक 'कॉम्बी योजना' के स्वास्थ्य अंश का संबंध है, उस पर विनियम तथा दिशा-निर्देश लागू होंगे।
- जिन मामलों में पॉलिसियाँ सीधे ही सेवा मूलक हैं उनमें बीमाकार को एक सहयोगी की भूमिका निभानी चाहिए।
- 'कॉम्बी योजनाओं' के पॉलिसी बांड (Bond) के समयबद्ध प्रेषण के लिए, प्रस्तावित प्रचालक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

## 7. वितरण चैनल:—

- 'कॉम्बी योजना की बिक्री निम्नलिखित माध्यमों से संचालित की जानी चाहिए:—
  - प्रत्यक्ष सीधे विपणन (मार्केटिंग) चैनल
  - दलालों/ब्रोकरों तथा
  - दोनों बीमाकारों के परिचित व्यक्तिगत एवं कॉर्पोरेट एजेंटों द्वारा
- 'कॉम्बी योजनाओं' का विपणन, "बैंक रेफरल" व्यवस्था के माध्यम नहीं किया जाना चाहिए।
- बीमाकार यह सुनिश्चित कर लें कि 'कॉम्बी योजना' का विपणन उन बीमा-मध्यस्थों द्वारा किया जाए किसी भी बीमाकार की किसी योजना के विपणन हेतु प्राधिकृत नहीं किया गया।

## 8. न्यूनतम अनिवार्य प्रकटन:—

- किसी कॉम्बी योजना का न्यूनतम अनिवार्य प्रकटन निम्नांकित रूप में हो:—
  - योजना 'एबीसी बीमा कंपनी' (गैर जीवन/एकांगी स्वास्थ्य बीमाकार का नाम) और "XYZ बीमा कंपनी" (जीवन बीमा के बीमाकार का नाम) द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित की गई है।
  - इस कॉम्बी योजना के जोखिम संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा ही संभाव्य/स्वीकृत किये जाएँगे।
  - स्वास्थ्य बीमा लाभों से संबंधित दावों के निपटारे का दायित्व संबंधित बीमाकारों पर होगा। जैसे स्वास्थ्य लाभ के लिए abc बीमा कंपनी (गैर जीवन/एकांगी स्पष्ट करें) तथा जीवन बीमा लाभों के लिए "XYZ बीमा कंपनी" (जीवन बीमा के बीमाकार का नाम)।
  - संबंधित लाभों में होने वाले कानूनी विवादों का निपटान संबंधित बीमाकारों द्वारा ही किया जाएगा।
  - कॉम्बी योजना के पॉलिसी धारकों को पॉलिसी के आंशिक भाग को जारी रखने तथा अन्य भाग को रद्द करने का अधिकार होगा।
  - जिस योजना में स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीकरण का प्रावधान होगा, उसमें कॉम्बी योजना के स्वास्थ्य अंश को ही यह सुविधा मिलेगी।
  - इन 'कॉम्बी योजनाओं' हेतु उपलब्ध प्रीमियम-भुगतान विकल्पों का विशिष्ट प्रकटन।

- viii. उपलब्ध पॉलिसी सर्विसिंग सुविधा का विशेष प्रकटन।
- ix. दोनों प्रकार के जाखिमों के तहत इन पॉलिसियों की प्रस्तावित दावा-सेवा का विशेष प्रकटन।
- x. जोखिम के स्वास्थ्य बीमा अंश के लिए थर्ड पार्टी प्रशासकों (TPA) की उपलब्धता का प्रकटन।
- xi. इन कॉम्बी योजनाओं के तहत उपलब्ध शिकायत-निवारण विकल्पों का प्रकटन।
- xii. पॉलिसी धारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे पॉलिसी खरीदने से पहले, उसके लाभों तथा 'कॉम्बी योजना' के पॉलिसी-सेवा संरचना से भलीभांति अवगत हो जाएँ।
- b) 'कॉम्बी योजनाओं के पॉलिसी प्रलेखों में कम से कम उपर्युक्त वर्णित बिंदु (iii) से (xi) तक प्रकटित होने चाहिए।
- c) प्रस्तावक से यह घोषणा-पत्र लिया जाए कि उसने उपर्युक्त सभी प्रकटनों को समझ लिया है और उस पत्र को प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दें।
9. 'कॉम्बी योजनाओं' के संबंध में दोनों बीमाकारों द्वारा बीमा अधिनियम 1938 और अधिसूचित विनियमों, अन्य दिशा-निर्देशों, परिपत्रों का स्वास्थ्य बीमा व जीवन बीमा से संबंधित समस्त अनुदेशों का अनुपालन किया जाए।
10. इन दिशा-निर्देशों के उद्देश्य हेतु गैर-जीवन बीमा कंपनी में एकांगी स्वास्थ्य बीमा कंपनी भी शामिल है।
11. योजना की व्यापकता की प्रगति को मॉनिटर करने तथा उसके क्षेत्र को बृहत्तर बनाने के लिए समस्त बीमा कंपनियां जो 'कॉम्बी योजना' की मार्केटिंग कर रही हैं उन्हें अपने प्राधिकरण के समक्ष समय-समय पर सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।
12. 'कॉम्बी योजनाओं' को प्रस्तावित करने वाली बीमा कंपनियों की गतिविधियों को मॉनिटर करने हेतु प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ऐसी शर्तें निर्धारित की जानी चाहिए।

\*\*\*\*\*

### अनुसूची III

बीमा कंपनियों से प्रस्तुत किए जाने वाले स्वास्थ्य बीमा रिटर्न

जे. हरि नारायण, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/161/12/असा.]





<p>इनपुट हेतु 1 उत्पाद के प्रदर्शन का विवरण-1 वर्ष या 1 वर्ष से कम के कार्यकाल के उत्पाद (स्वास्थ्य उत्पादों वाले सभी बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले)</p>		<p>वार्षिक</p>						
<p>उत्पन्न और आवृत्ति सभी उत्पाद जिसका कार्यकाल 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम है की जानकारी एकत्रित करता है।</p>								
<p>मौजूदा डी कार्म की जगह नया व्यापार और उत्पन्न व्यावसायिक डेटा पर अधिक डेटा तत्वों को जोड़ने फॉर्म की आवृत्ति वार्षिक और जब कभी है</p>								
<p>किस्म और मापदण्ड</p>								
<p>वर्ष</p>								
<p>विकासकों के नाम</p>								
<p>उत्पाद का नाम</p>								
<p>यू आई एन</p>								
<p>कवर का स्कोप (1)</p>								
<p>उत्पाद विवरण</p>								
<p>उत्पाद का नाम</p>								
<p>यू आई एन</p>								
<p>कवर का स्कोप (1)</p>								
<p>उत्पाद विवरण</p>								
<p>उत्पाद का नाम</p>								
<p>यू आई एन</p>								
<p>कवर का स्कोप (1)</p>								
<p>उत्पाद विवरण</p>								
<p>उत्पाद का नाम</p>								
<p>यू आई एन</p>								
<p>कवर का स्कोप (1)</p>								
<p>उत्पाद विवरण</p>								
<p>उत्पाद का नाम</p>								
<p>यू आई एन</p>								
<p>कवर का स्कोप (1)</p>								
<p>उत्पाद विवरण</p>								
<p>उत्पाद का नाम</p>								
<p>यू आई एन</p>								
<p>कवर का स्कोप (1)</p>								
<p>उत्पाद विवरण</p>								
<p>उत्पाद का नाम</p>								
<p>यू आई एन</p>								
<p>कवर का स्कोप (1)</p>								
<p>उत्पाद विवरण</p>								
<p>उत्पाद का नाम</p>								
<p>यू आई एन</p>								
<p>कवर का स्कोप (1)</p>								
<p>उत्पाद विवरण</p>								
<p>उत्पाद का नाम</p>								
<p>यू आई एन</p>								
<p>कवर का स्कोप (1)</p>								
<p>उत्पाद विवरण</p>								
<p>उत्पाद का नाम</p>								
<p>यू आई एन</p>								
<p>कवर का स्कोप (1)</p>								
<p>उत्पाद विवरण</p>								
<p>उत्पाद का नाम</p>								
<p>यू आई एन</p>								
<p>कवर का स्कोप (1)</p>								

4	बिम्बित व्यक्ति के प्रकार	व्यक्तिगत सम्पत्ति + सम्पत्ति	व्यक्ति	2. गरीब बीमारी				
4R	भ्रूणदान का आधार							
5	उत्पाद की निकासी की तिथि							
5R	पॉलिसी की न्यूनतम की अवधि							
5बी	पॉलिसी की अधिकतम अवधि							
6	उत्पाद की वर्तमान स्थिति							
6R	एड ऑन का कवर शामिल	नहीं	हां					
6बी	एड ऑन कवर की संख्या							
6सी	क्या टीपीए द्वारा सीमित	हां						
6डी	कुल टीपीए शामिल							
		नई व्यवसाय डेटा						
7	जारी की गई नीतियों की संख्या							
8	सकल प्रीमियम एकत्र *							
8.1	कुल प्रीमियम दिया गया							
9	बिम्बित व्यक्तियों / सदस्यों की संख्या							
10	कुल बीमित राशि							
11R	पुनर्बीमा कमीशन							
		नवीकरण व्यवसाय डेटा						
7R	नवीकरण के लिए बकाया पॉलिसियों की संख्या							
8R	नवीकरण की गई पॉलिसियों की संख्या							
9R	कुल नवीकरण प्रीमियम एकत्र							
9R.1	कुल नवीकरण प्रीमियम दिया गया							
10R	बिम्बित व्यक्तियों / सदस्यों की संख्या							
12R	नवीकरण में कुल बीमित राशि							
11बी	पुनर्बीमा कमीशन प्राप्त							



	वार्षिक																	
<p>इन्फोर्मेटिव हेल्थ 1 (ए)</p> <p>1 वर्ष से अधिक वाले उत्पाद प्रदर्शन का विवरण (स्वास्थ्य उत्पादों वाले सभी बीमा कंपनियों द्वारा उत्पाद प्रदर्शन का विवरण)</p>																		
<p>उद्देश्य और आवृत्ति</p> <p>1 वर्ष से अधिक वाले उत्पाद प्रदर्शन का विवरण</p> <p>मौजूदा डी फार्म की जगह नया व्यापार और उन्मील व्यावसायिक डेटा पर अधिक डेटा तत्वों को जोड़ने</p> <p>बदले की आवृत्ति और वार्षिक रूप में है और जब.</p>																		
<p>फिन्डर और पैरामीटर</p>																		





	10रे	11रे	11बी	7की	9बी	9बी .1	10बी	11बी	12बी	7सी	8सी .1	8सी .2	6ई	6एफ	6जी 6	6I	6जे
	/व्यक्तियों / सदस्यों कवर जीवन की सख्या	कुल योग नवीकरण में बीमित	पुनर्बीमा आयुर्गो प्राप्त	नौतियों की सख्या	सकल प्रीमियम आय	कुल प्रीमियम सौंप दिया	/व्यक्तियों / सदस्यों कवर जीवन की सख्या	कुल बीमित राशि	पुनर्बीमा आयुर्गो प्राप्त	रद्द करने की नया व्यापार के बाहर	रद्द करने की अवधि में नंबर	रद्द *** पॉलिसी अवधि के दौरान सख्या	उन्मीद नया व्यापार के आकड़े (अगले वर्ष के लिए)	नौतियों की सख्या	कुल सकल प्रीमियम	कुल दावों के दावों की कुल राशि	का दावा है अनुपात सप्लस अनुपात
			यह व्यवसाय डेटा						रद्द करने के लिए डेटा								



4.i	अन्य कारणों की वजह से बंद कर दिये गये नए दावे	नहीं.		
4.ii	फिर से खोले गए दावे	राशि		
5.i	वर्ष के अंत में लंबित दावों	नहीं.		
5.ii	दंड ब्याज का भुगतान	राशि		
6.i	खर्च दावा अनुपात	नहीं.		
6.ii	संपूर्ण अनुपात का दावा है अनुपात = (दावों की कुल राशि खर्च / जीडब्ल्यू)	राशि		
7.i	संपूर्ण अनुपात = (+ कुल कंपनी व्यय राशि का खर्च दावों की कुल राशि) / जीडब्ल्यू	नहीं.		
7.ii	संपूर्ण अनुपात = (+ कुल कंपनी व्यय राशि का खर्च दावों की कुल राशि) / जीडब्ल्यू	नहीं.		
8.i	संपूर्ण अनुपात = (+ कुल कंपनी व्यय राशि का खर्च दावों की कुल राशि) / जीडब्ल्यू	नहीं.		
8.ii	संपूर्ण अनुपात = (+ कुल कंपनी व्यय राशि का खर्च दावों की कुल राशि) / जीडब्ल्यू	नहीं.		
12.i	1 महीने से कम लंबित दावे	लंबित दावों के एजिंग * नहीं.		
12.ii		राशि		
13.i	1 महीने से अधिक और 3 महीने से कम लंबित दावे	नहीं.		
13.ii		राशि		





				1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम निष्ठाए हुए दावे	16.i
				2 वर्ष से अधिक निष्ठाए हुए दावे	16.ii 17.i
					17.ii ** पिछले आवश्यकता की प्राप्ति की तारीख से गिना
			इन्कार किये गये दावों की रजिग		
				1 महीने से कम इन्कार किये गये दावे	12.i
				1 महीने से अधिक 3 महीने से कम इन्कार किये गये दावे	12.ii 13.i
				3 महीने से अधिक 6 महीने से कम इन्कार किये गये दावे	13.ii 14.i

14.ii	राशि नहीं.	6 महीने से अधिक 12 महीने से कम इंकार किये गये दावे	
15.i	राशि नहीं.	1 वर्ष से अधिक 2 वर्ष से कम इंकार किये गये दावे	
15.ii	राशि नहीं.	2 वर्ष से अधिक इंकार किये गये दावे	
16.i	राशि नहीं.		
16.ii	राशि नहीं.		
17.i	राशि नहीं.		
17.ii	राशि नहीं.		
		*** पिछले आवश्यकता की प्राप्ति की तारीख से गिना	
		नोट:	
		1. का दावा है अनुपात का खर्च = कुल खर्च दावे / कुल प्रीमियम अर्जित किया	
		2. संयुक्त अनुपात = (कुल दावे का भुगतान + अन्य परिचालन व्यय) / कुल प्रीमियम अर्जित किया	
		3. उत्पाद लक्ष्य समूह के चयन के आधार पर आबादी जाएगा	



इन्स्यूर हेल्थ 2	वार्षिक	In-house	ITA	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन	संशोधन
<p>टीपीए के मामले में दावों के प्रतिबंध के संदर्भ में उत्पाद प्रदर्शन का विवरण (स्वास्थ्य बीमा कारोबार होने की बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा)</p>										
<p><b>उद्देश्य और आवृत्ति</b> टीपीए के मामले में दावों के प्रतिबंध के संदर्भ में उत्पाद प्रदर्शन का विवरण प्रबंधन का दावा है टीपीए के मामले में उत्पादों के प्रदर्शन पर कब्जा</p>										
<p>इस फार्म में जूरी प्रपत्र डी के प्रतिस्थापन के लिए टीपीए के योगदान के बारे में और अधिक विस्तृत स्तर की जानकारी इकट्ठा है। बदले की आवृत्ति और वार्षिक रूप में है और जब.</p>										
<p><b>फिन्डर और पैरामीटर</b></p>										
<p>वर्ष</p>										
<p>बीमाकर्ता के नाम</p>										
<p>टीपीए नाम</p>										
<p>उत्पाद का नाम</p>										
<p>उत्पाद का नाम</p>										
<p>कार्य का</p>										
<p>कार्य का</p>										

<p>नोट:</p>	<p>1. सभी उत्पादों जो इस अवधि के दौरान अनुमोदित किया गया है इस रूप में शामिल किया जाएगा.</p>	<p>2. उत्पाद प्रकार व्यक्ति, या समूह हो सकता है.</p>	<p>3. उत्पाद की वर्तमान स्थिति हो आरगा - सक्रिय, निष्क्रिय या वापस ले लिया.</p>	<p>इन्फुट हेल्थ 3</p>	<p>वार्षिक</p>	<p>वैमाफ्तों के नाम</p>	<p>उत्पाद का नाम</p>	<p>पॉलिसियों की संख्या</p>	<p>सकस प्रीमियम</p>	<p>अन्य कम्पेन / प्रीम का मुदतान की तागत के</p>
<p>वैरय और आवृत्ति</p>	<p>वितरण चैनलों के मामले में प्रदर्शन का विवरण देना</p>	<p>यह फार्म चैनलों द्वारा योगदान देने पर ईटा एकवित करने के लिए मौजूदा प्रपत्र डी के एक प्रतिस्थापन है</p>	<p>बदले की आवृत्ति और वार्षिक रूप में है और अब किन्टर और मापदण्ड</p>	<p>वर्ष</p>	<p>वैमाफ्तों के नाम</p>	<p>उत्पाद का नाम</p>	<p>पॉलिसियों की संख्या</p>	<p>सकस प्रीमियम</p>	<p>अन्य कम्पेन / प्रीम का मुदतान की तागत के</p>	<p>रिफरल के लिए * शुल्क लागू होता है</p>
<p>वैरय और आवृत्ति</p>	<p>वितरण चैनलों के मामले में प्रदर्शन का विवरण देना</p>	<p>यह फार्म चैनलों द्वारा योगदान देने पर ईटा एकवित करने के लिए मौजूदा प्रपत्र डी के एक प्रतिस्थापन है</p>	<p>बदले की आवृत्ति और वार्षिक रूप में है और अब किन्टर और मापदण्ड</p>	<p>वर्ष</p>	<p>वैमाफ्तों के नाम</p>	<p>उत्पाद का नाम</p>	<p>पॉलिसियों की संख्या</p>	<p>सकस प्रीमियम</p>	<p>अन्य कम्पेन / प्रीम का मुदतान की तागत के</p>	<p>रिफरल के लिए * शुल्क लागू होता है</p>
<p>वैरय और आवृत्ति</p>	<p>वितरण चैनलों के मामले में प्रदर्शन का विवरण देना</p>	<p>यह फार्म चैनलों द्वारा योगदान देने पर ईटा एकवित करने के लिए मौजूदा प्रपत्र डी के एक प्रतिस्थापन है</p>	<p>बदले की आवृत्ति और वार्षिक रूप में है और अब किन्टर और मापदण्ड</p>	<p>वर्ष</p>	<p>वैमाफ्तों के नाम</p>	<p>उत्पाद का नाम</p>	<p>पॉलिसियों की संख्या</p>	<p>सकस प्रीमियम</p>	<p>अन्य कम्पेन / प्रीम का मुदतान की तागत के</p>	<p>रिफरल के लिए * शुल्क लागू होता है</p>
<p>वैरय और आवृत्ति</p>	<p>वितरण चैनलों के मामले में प्रदर्शन का विवरण देना</p>	<p>यह फार्म चैनलों द्वारा योगदान देने पर ईटा एकवित करने के लिए मौजूदा प्रपत्र डी के एक प्रतिस्थापन है</p>	<p>बदले की आवृत्ति और वार्षिक रूप में है और अब किन्टर और मापदण्ड</p>	<p>वर्ष</p>	<p>वैमाफ्तों के नाम</p>	<p>उत्पाद का नाम</p>	<p>पॉलिसियों की संख्या</p>	<p>सकस प्रीमियम</p>	<p>अन्य कम्पेन / प्रीम का मुदतान की तागत के</p>	<p>रिफरल के लिए * शुल्क लागू होता है</p>
<p>वैरय और आवृत्ति</p>	<p>वितरण चैनलों के मामले में प्रदर्शन का विवरण देना</p>	<p>यह फार्म चैनलों द्वारा योगदान देने पर ईटा एकवित करने के लिए मौजूदा प्रपत्र डी के एक प्रतिस्थापन है</p>	<p>बदले की आवृत्ति और वार्षिक रूप में है और अब किन्टर और मापदण्ड</p>	<p>वर्ष</p>	<p>वैमाफ्तों के नाम</p>	<p>उत्पाद का नाम</p>	<p>पॉलिसियों की संख्या</p>	<p>सकस प्रीमियम</p>	<p>अन्य कम्पेन / प्रीम का मुदतान की तागत के</p>	<p>रिफरल के लिए * शुल्क लागू होता है</p>



क्र.सं.	नाम	पदोन्नति की संख्या		नई नियुक्ति		मुक्त होकर राशि		नियुक्ति की संख्या		नियुक्ति की संख्या	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
32	दस्ता और दीव										
33	दस्ता										
34	सहायक										
35	सहायक										
36	सहायक										
37	सहायक										
38	सहायक										
39	सहायक										
40	सहायक										
41	सहायक										
42	सहायक										
43	सहायक										
44	सहायक										
45	सहायक										
46	सहायक										
47	सहायक										
48	सहायक										
49	सहायक										
50	सहायक										
51	सहायक										
52	सहायक										
53	सहायक										
54	सहायक										
55	सहायक										
56	सहायक										
57	सहायक										
58	सहायक										
59	सहायक										
60	सहायक										
61	सहायक										
62	सहायक										
63	सहायक										
64	सहायक										
65	सहायक										
66	सहायक										
67	सहायक										
68	सहायक										
69	सहायक										
70	सहायक										
71	सहायक										
72	सहायक										
73	सहायक										
74	सहायक										
75	सहायक										
76	सहायक										
77	सहायक										
78	सहायक										
79	सहायक										
80	सहायक										
81	सहायक										
82	सहायक										
83	सहायक										
84	सहायक										
85	सहायक										
86	सहायक										
87	सहायक										
88	सहायक										
89	सहायक										
90	सहायक										
91	सहायक										
92	सहायक										
93	सहायक										
94	सहायक										
95	सहायक										
96	सहायक										
97	सहायक										
98	सहायक										
99	सहायक										
100	सहायक										

समस्त के परीवार के एक के अधिक शक्ति अधिक के प्राप्त और किसी भी नदर सामयिक शक्ति

क्र.सं.	विवरण	मासिक	का वासा है पकोट	दोपहर	रुपय	माह	दोपहर नाम
1	इन्फुट हेल्थ 5						
2	टीपीए की देय का विवरण						
3	उपरोक्त और आवृत्ति						
4	दाल के सदमें में टीपीए						
5	शुल्क में प्रभावशालिता						
6	को माफने के लिये						
7	देय जानकारी एकत्र करने						
8	के लिए प्रस्तावित प्रारूप						
9	का पुनर्निर्मित फॉर्म है						
10	फार्म की आवृत्ति मासिक						
11	है। डेटा बीमा कंपनियों						
12	द्वारा पेश किये जाते हैं						
13	उनके साथ सम्बन्धित						
14	टीपीए के सदमें में।						
15	विस्तर और मापदण्ड						
16	सब						
17	सौभाग्यो की कला						
18	स्वयं						
19	महीने की शुरुआत में						
20	बकाया देय						
21	माह के दौरान प्राप्त						
22	संगतान अनुरोध						
23	इस महीने के दौरान						
24	संगतान किये गये देय						
25	महीने के अंत में बकाया						
26	देय						
27	महीने के अंत में बकाया						
28	देय का हर्षित						
29	0-7 दिन						
30	7-15 दिन						
31	15-30 दिन						
32	2 महीने से अधिक						
33	3 महीने से अधिक						
34	4 महीने से अधिक						
35	5 महीने से अधिक						
36	6 महीने से अधिक						
37	नोट:						

660 GI/13-12



क्र.सं.	वर्णन	कैलस		प्रतिपत्ति		नाम अधारित		संपूर्ण
		दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	
1	इस महीने की शुरुआत में लंबित दावों							
2	माह के दौरान गए पंजीकृत दावे							
3	माह के दौरान निवटार गए दावे							
4	माह के दौरान इन्कार किये गये दावे							
5	महीने के अंत में लंबित दावे							
<b>लंबित दावों के रजिग *</b>								
#	व्यक्ति	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	संपूर्ण
1	कोलम कंड	९	०	०	०	६	०	९
2	1 से कम महीने के लिए लंबित दावे							
3	1-3 महीनों के लिए लंबित दावे							
4	3-6 महीने के लिए लंबित दावे							
5	6-12 महीनों के लिए लंबित दावों							
6	1-2 साल के लिए लंबित दावे							
	2 वर्ष से अधिक लंबित दावे							
* पहली भुगतान की तारीख से गिना								
** निवटार गए दावों की रजिग								
#	व्यक्ति	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	संपूर्ण
	कोलम कंड	९	०	०	०	६	०	९





<p>इन्फुट हेल्थ 6.1 दावों का विवरण - स्वास्थ्य व्यापार (समूह) वाले बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किये जाएंगे</p>	<p>मासिक</p>	
<p>उद्देश्य और आवृत्ति इस फॉर्म का उद्देश्य है स्वास्थ्य व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं द्वारा समूह व्यवसाय के लिये प्रयत्न रूप से संभालने वाले दावों की जानकारी एकत्रित करना। यह दावा ऑफिसों को लेने के लिये प्रस्तावित प्रारूप का संशोधन है फॉर्म की आवृत्ति मासिक है</p>		
<p>फिस्टर और मापदण्ड</p>	<p>वर्ष</p>	
	<p>माह</p>	
	<p>व्यापार</p>	
	<p>समूह</p>	
	<p>बीमाकर्ता के नाम</p>	



	क	ख	सी	घ	ङ	च	छ	ज	
1	कालिय कोड 1 से कम महीने के लिए लंबित दावे								
2	1-3 महीनों के लिए लंबित दावे								
3	3-6 महीने के लिए लंबित दावे								
4	6-12 महीनों के लिए लंबित दावों								
5	1-2 साल के लिए लंबित दावे								
6	2 वर्ष से अधिक लंबित दावे								
	* पहली सूचना की तारीख से गिना								
	** निष्कार्य गये दावों के एजिंग								
	क	ख	सी	घ	ङ	च	छ	ज	
	कालिय कोड दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या /	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	संपूर्ण
#									
1	कालिय कोड 1 से कम महीने के लिए लंबित दावे	ख	सी	घ	ङ	च	छ	ज	





○ Individual  
 ⊙ Group

इनपुट हेल्थ 6.2 टीपेर के माध्यम से नियंत्रित किये गये दावों का विवरण - स्वास्थ्य कारोबार करने वाली बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तुत	मासिक	वर्ष	बीमाकर्ता के नाम	माह	टीपेर नाम	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
उद्देश्य और आवृत्ति																				
फार्म का उद्देश्य टीपेर के माध्यम से नियंत्रित किये दावों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए है.																				
यह दावा अंकों को लेने के लिये प्रस्तावित प्रारूप का संशोधन है																				
फार्म की आवृत्ति मासिक है.																				
फिन्डर और मानदण्ड																				



3-6 महीने के लिए लब्धित दावे	6-12 महीनों के लिए लब्धित दावों	1-2 साल के लिए लब्धित दावे	2 वर्ष से अधिक लब्धित दावे	*** पिछले आवश्यकता की प्राप्ति की तारीख से गिना
3				
4				
5				
6				
*** पिछले आवश्यकता की प्राप्ति की तारीख से गिना				
<b>इनपुट हेल्थ 6.3</b>				
<b>बीमा कंपनी के लिए राज्यवार दावे का विवरण</b>				
उद्देश्य और आवृत्ति				
फार्मे का उद्देश्य एक बीमा कंपनी के लिए दावों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए है।				
यह राज्यानुसार डेटा लेने के लिए एक नया स्वरूप है				
फार्मे की आवृत्ति वार्षिक है				
<b>फिल्टर और मापदण्ड</b>				
वर्ष				
बीमाकर्ता के नाम				
राज्य				
नाम आधारित दावों की संख्या				
प्रतिपति दावों की संख्या				
राशि				
राशि				
राशि				
राशि				
राशि				
राशि				
राशि				
राशि				
राशि				
राशि				
राशि				



	त्रैमासिक							
इन्फुट हेल्थ 6.4	क							
सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रदर्शन								
उद्देश्य और आवृत्ति इस प्रपत्र सरकार द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रदर्शन की जानकारी लेने के लिए प्रयोग किया जाता है								
यह एक नया स्वरूप है फार्म की आवृत्ति तिमाही है								
फिक्टर और मापदण्ड	वर्ष	दिमाही						
बीमाकर्ता के नाम # उत्पाद / योजना कोश	जारी की गई पोलिसियों की संख्या	कवर की गई बीपीएल परिवारों की संख्या	अनों की संख्या	कवर लाभार्थियों की कुल संख्या	सकल प्रीमियम (000s में)	सूचित किये गये दावों की संख्या	दावों की राशि की सूचना दी	लिस्टेड गैर दावों की संख्या
	रे		बी	सी	डी	ई	एफ	जी
							एच	आई
								के

660 GI/13-15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

इन्सुट हेतु 7  
राज्यानुसार  
सकल  
प्रीमियम -  
लिमाही के  
लिये

अथवा और अप्रति  
सभी चित्तों से सकल  
प्रीमियम, पोलिसियों की  
संख्या, कुल बीमा राशि  
के बारे में राज्यानुसार  
सूचना एकत्रित करता  
एवं फॉर्म फुल: इजीनियर  
किया गया है। सकल  
प्रीमियम के मौजूदा  
फॉर्म 1 तथा फॉर्म 2 के  
आधार पर

कार्य की अवृत्ति  
विभाजित है।

किन्टर और मापदण्ड  
रूप

Individual	Group

#	राज्य	प्रत्येक व्यापार (इंटरलेक्ट) पोलिसियों की संख्या के	प्रत्येक व्यापार (इंटरलेक्ट) के अंतर्गत		अन्य कोषित एजेंट		दुल्हा		अन्य कोषित एजेंट		दुल्हा		अन्य कोषित एजेंट		दुल्हा		Microinsurance एजेंट (MFI)	
			पोलिसियों की संख्या	प्रीमित राशि	पोलिसियों की संख्या	प्रीमित राशि	पोलिसियों की संख्या	प्रीमित राशि	पोलिसियों की संख्या	प्रीमित राशि	पोलिसियों की संख्या	प्रीमित राशि	पोलिसियों की संख्या	प्रीमित राशि	पोलिसियों की संख्या	प्रीमित राशि		पोलिसियों की संख्या
1	अणु प्रदेश																	
2	अन्धप्रदेश प्रदेश																	
3	अरुणाचल प्रदेश																	
4	बिहार																	
5	छत्तीसगढ़																	
6	गोवा																	
7	गुजरात																	
8	हरियाणा																	
9	हिमाचल प्रदेश																	
10	जम्मू और कश्मीर																	
11	कर्णाटक																	
12	केरल																	
13	कोलकाता																	
14	मध्य प्रदेश																	
15	महाराष्ट्र																	
16	मणिपुर																	
17	मेघालय																	
18	मिजोरम																	
19	नागालैंड																	
20	उड़ीसा																	
21	पंजाब																	
22	राजस्थान																	
23	सिक्किम																	
24	तमिलनाडु																	
25	त्रिपुरा																	
26	उत्तर प्रदेश																	
27	उत्तराखण्ड																	
28	पश्चिम बंगाल																	
29	अरुणाचल प्रदेश																	
30	चंडीगढ़																	
31	दिल्ली एवं नगरपालिका																	
32	दिल्ली																	
33	दमन और दीव																	
34	दिल्ली																	
35	लक्षद्वीप																	
36	पुद्दुचेरी																	
#	कुल																	

क्रमांक	राज्य	प्रत्यक्ष व्यापार (इंटरनेट)		प्रत्यक्ष व्यापार (इंटरनेट के अलावा)		व्यक्तिगत एजेंटों		बैंकों		कॉर्पोरेट एजेंट		दलाल		रूपरत		माइक्रो बीमा एजेंटों (एमएफए, एसएएबी, पॉलिसियों प्रीमियम की राशि संख्या और पी
		दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	दावों की संख्या	दावों की राशि	
		ए	बी	सी	डी	ई	फ	ग	घ	अ	ब	के	ख	ग	घ	पी
#	काठमांडू															
	1 आंध्र प्रदेश															
	2 अरुणाचल प्रदेश															
	3 असम															
	4 बिहार															
	5 छत्तीसगढ़															
	6 गोआ															
	7 गुजरात															
	8 हरियाणा															
	9 हिमाचल प्रदेश															
	10 जम्मू और के															
	11 झारखंड															
	12 कर्नाटक															

इन्फॉर्मेशन हेतु 8  
**राज्यानुसार  
 और चैनल  
 अनुसार  
 सूचित दावों  
 की संख्या**

उद्देश्य और आवृत्ति  
 यह फॉर्म तिमाही के  
 दौरान प्रत्येक राज्य में  
 सूचित किये गये दावों की  
 सूचना एकत्रित करता है।

यह फॉर्म फार्म IV के  
 आधार पर फिर से  
 इंजीनियर किया गया है  
 इस फॉर्म की  
 आवृत्ति त्रिमासिक है

किन्टर और पैामीटर

वर्ष

बीमा कंपनी के  
 नाम

प्रत्यक्ष व्यापार (इंटरनेट)

प्रत्यक्ष व्यापार (इंटरनेट के अलावा)

व्यक्तिगत एजेंटों

बैंकों

कॉर्पोरेट एजेंट

दलाल

रूपरत

माइक्रो बीमा एजेंटों (एमएफए, एसएएबी, पॉलिसियों प्रीमियम की राशि संख्या और पी

60 GI/13-16

13	केरल
14	मध्य प्रदेश
15	महाराष्ट्र
16	मणिपुर
17	मेघालय
18	मिज़ोरम
19	नागालैंड
20	उड़ीसा
21	पंजाब
22	राजस्थान
23	सिक्किम
24	तमिलनाडु
25	त्रिपुरा
26	उत्तर प्रदेश
27	उत्तराखण्ड
28	पश्चिम बंगाल
29	अंडमान एवं निकोबार
30	चंडीगढ़
31	दादरा एवं नागरा हवेली
32	दमन और दीव
33	दिल्ली
34	लक्षद्वीप
35	पुद्दुचेरी
	संपूर्ण

<b>इसपट हेल्थ 9</b>	
<b>बड़े दावा विवरण - बीमाकर्ता के अनुसार</b>	
<b>उद्देश्य और आवृत्ति</b>	
यह फॉर्म सभी बीमा कंपनियों के लिये बड़े दावों के विवरण प्राप्त करता है	
यह एक नया फॉर्म है	
इस प्रपत्र की आवृत्ति वार्षिक और जब कभी है	
<b>फिक्स्ड और मापदण्ड</b>	
वर्ष	सिमाही
बीमाकर्ता के नाम	









फार्म: आईआरडीए स्वास्थ्य उत्पादों	
काम और उपयोग-स्वास्थ्य उत्पादों के आवेदन पत्र:	
क्र. सं.	आवृत्त नंबर (में बीजे कम्पनी द्वारा भरा जाएगा)
1	गैर-जीवन बीमा कम्पनी के नाम
1.1	पंजीकरण आईआरडीए द्वारा सं. आवेदन
2	कृपया ध्यान दें कि उत्पादों नियुक्ति वन में इस आवेदन के तारीख के आधार पर होना चाहिए नियुक्त मूल्य का नाम
3	गोड नाम (उत्पाद है जो किनें स्वास्थ्य में निर्देशित किया जाएगा और बाजार में जाना जाता है का नाम दें, यह नाम परिवर्तित नहीं किया जा बाजार में शुरू करने के बाद किसी भी रूप में बदला जाना चाहिए या नाम सभी चिट्ठों में प्रस्ताव किया जाएगा में दिखाने आरंभ।)
3.1	अविवेक्य आवृत्त नंबर (आईआरडीए द्वारा आवेदित है, अगर इस आवेदन एक मौजूदा आवेदन के संशोधन के लिए है)
4	उत्पाद के बुरुआत की तारीख (नए उत्पादों के मामले में प्रस्तावित है, मौजूदा उत्पादों के मामले में वार्षिक तारीख) तथा बाजार में पहली बार के लिए शुरू किया जा रहा है उत्पादों के मामले में, प्रस्तावित तारीख (सालाहिक तारीख के अंतर नहीं किया जा सकता है इस आवेदन के तारीख) से 30 दिनों से जो बीमाकर्ता के बाजार के लिए करना चाहता है, मौजूदा उत्पादों के मामले में, प्रस्तावित तारीख में उत्पाद उत्पाद में शुरू किया जा रहा है।)
5	की तारीख /संशोधन कंपनी (मौजूदा उत्पादों के मामले में प्रस्तावित है, लेकिन नए उत्पादों के लिए नहीं है); (क) यह सभी नए उत्पादों के लिए लागू नहीं के रूप में भरा जाना चाहिए (ख) उत्पाद है, जब इस तारीख के उत्पाद बाजार में उपलब्ध में पहले से ही है की सुविधाओं के संशोधन की प्रस्तावित तारीख (ग) के मामले में बीमा कम्पनी को बाजार से मौजूदा उत्पाद को अपसर्जित की प्रणाली है जो राष्ट्रीय की तारीख इस मूल के अंतर्गत प्रस्तावित किया जाना चाहिए।
6	सामान्य नियम और शर्तें (सभी आवृत्त में इस होना चाहिए एक से और ध्यान दें कि आवृत्त रिक्त छोड़ दिया जाना चाहिए।)
6.1	क्या स्वास्थ्य उत्पाद के माध्यम से /की पैकेजिंग की है: [उत्तर हाँ / नहीं]
6.1.1	व्यक्तियां हाँ नहीं /
6.1.2	किमिनी फ्लोटर हाँ /नहीं
6.1.3	हाँ नहीं /समूह
6.1.4	भारत में भौगोलिक स्थान निर्दिष्ट (यदि हाँ, स्थान निर्दिष्ट करें) हाँ नहीं /
6.1.5	भारत हाँ /नहीं में सभी भौगोलिक स्थान
6.1.6	समूह आबादी हाँ / नहीं
6.1.7	व्यक्ति बीमा हाँ /नहीं
6.1.8	सरकार योजनाएं हाँ / नहीं
6.1.9	सोपानित आधार हाँ / नहीं
6.1.10	आधार लाभ उठाए हाँ नहीं /
6.2	विनियमित निर्दिष्ट करें:
6.2.1	सब्य आबादी (इस अनुक्रम में सब्य बाजार के लिए उत्पाद डिजाइन पर चर्चा करनी चाहिए, इसके अलावा अलग से किसी भी बाजार में इस उद्देश्य के लिए किए गए शोध का विवरण संलग्न करें।)
6.2.2	यदि आवेद्य के लिए अनुसंधान के संशोधन के लिए अनुमति दिनी की सहाय नवीकरण निर्दिष्ट की अनुमति
6.2.3	यदि आवेद्य में प्रीमियम के भुगतान के लिए अनुमति किस्में निर्दिष्ट करें प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अनुमति दी गई है, जब प्रीमियम नहीं stipulated तिथियों पर भुगतान कर रहे हैं, दिनी की सहाय
6.2.4	न्यूनतम समूह आकार (राज्य समूह की न्यूनतम सदस्यता)
6.2.5	मूल बीजे राशि (समूहों के लिए, प्रति सदस्य विवरण प्रस्तुत किया जा करने के लिए):
6.2.5.1	न्यूनतम की पैकेजिंग की
6.2.5.2	अधिकतम की पैकेजिंग की
6.2.5.3	बीमा फ्लूट / फ्लूट की पैकेजिंग की राशि है, अगर किसी भी (कृपया वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मानक प्रदान करने के लिए छूट और वित्तीय औचित्य की पैकेजिंग)
6.2.6	पॉलिसी की अवधि:
6.2.6.1	न्यूनतम अवधि की पैकेजिंग की नौति
6.2.6.2	अधिकतम अवधि की पैकेजिंग की नौति
6.2.6.3	प्रीमियम भुगतान की शर्तें अगर पॉलिसी अवधि से अलग
6.2.7	प्रीमियम भुगतान के तरीके की पैकेजिंग की:
6.2.7.1	राज्य प्रीमियम भुगतान का मोड की अनुमति दी (एकल प्रीमियम / वार्षिक / halfy वार्षिक, आदि)
6.2.7.2	छूट / अलग की पैकेजिंग औचित्य के साथ नौति, के लिए बूतक:
6.2.8	वार्षिक प्रीमियम (समूह के लिए प्रति सदस्य विवरण देने के लिए):
6.2.8.1	न्यूनतम:
6.2.8.2	अधिकतम:
6.2.8.3	प्रीमियम फ्लूट / फ्लूट की पैकेजिंग की है, अगर किसी भी (कृपया वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मानक प्रदान करने के लिए छूट और वित्तीय औचित्य की पैकेजिंग)
6.2.9	एन्युअल:
6.2.9.1	एन्युअल:
6.2.9.2	अधिकतम:
6.2.10	अधिकतम नवीकरण आयु
6.2.11	भारत के बाहर खरा पर प्रतिबंध (यदि हाँ, शर्तें निर्दिष्ट) हाँ नहीं /
6.2.12	किसी भी अन्य प्रतिबंध (अगर वारं प्रस्तावित प्रतिबंध नहीं है, एक ही सुरोजनत किया जाना चाहिए, उसे प्राथम्य कक्षा) हाँ नहीं /
6.2.13	कटौती योग्य की अनुमति दी
6.2.14	यह - भुगतान की अनुमति दी
6.2.15	कमिचारी फ्लूट या किसी अन्य (कृपया वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मानक प्रदान करने के लिए फ्लूट और वित्तीय औचित्य की पैकेजिंग) की पैकेजिंग की फ्लूट
6.2.16	किसी भी अन्य फ्लूट की पैकेजिंग (वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मानक प्रदान करने के लिए फ्लूट और वित्तीय औचित्य की पैकेजिंग)
6.2.17	किसी भी लदान - प्रस्तावित (loadings और वित्तीय औचित्य के लिए वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी मानक प्रदान करें)
6.2.18	प्रस्तावना
6.3	उत्पाद विवरण:
6.3.1	उत्पाद पहली बार के लिए दाखर की है / नहीं?
6.3.2	6.3.1.1

यदि नहीं, उत्पाद के पहले दाखिल करने की तारीख प्रस्तुत यदि हाँ, तो कृपया आवृत्त के लिए करें 7 अना.

660 62/13-17



12.7	वय में विभाजित (वय अल्पवयों कयती विभाजित हलन करिये यदि इरी तरे के अनुभव के लिए उपलब्ध नही है, तिसुक्त मुगी उदयोग के अनुभव पर विचार क ओचित मान्यताओं कर सकल है।)	
12.7.1	प्रथम वय वर्ग: अविभक्त तारी क आसामन हिय करिये क इतिहास के उपरिष्ठ के तरे नीचे के समुचित	
12.7.2	द्वितीय विभाजितकरण वय (उपरी वय वर्गों: तारी के अविभक्त है, तिसुक्त में संविभक्त है, तरे नीचे के अनुभव पर विचार क आसामन हिय	
12.7.3	वय वर्ग	
12.7.4	व्यक्तिय अनुभवोति कड जाती है, यदि कोई है	
12.8	विद्यार्थक के स्थानान्तरण के लिए कलन यदि कोई है, तिसुक्त में 1938 के 49 अनुभाग (द्वि)	
12.9	आसामन आकर अविभक्त, 1961 के प्रासंगिक अनुभाग (द्वि)	
12.10	किसी भी उतर के तरे विचार के लिए प्रासंगिक अनुभवोति कड	
12.11	अविभक्त अनुभवोति (वय वर्ग अविभक्त अनुभवोति कड)	
12.12	वय वर्ग (व्यक्तिय अनुभवोति कड) कड अनुभवोति कड	
12.13	अनुभवोति अनुभवोति कड अनुभवोति कड	
12.14	अनुभवोति अनुभवोति कड अनुभवोति कड	
12.15	उम के विचार में इतिहास के लिए एक अलग वय वर्ग S.No के लिए सुपाजित किया जा	
12.16	अविभक्त तारी के विचार में अनुभवोति कड अनुभवोति कड	
12.17	उम के विचार में इतिहास के लिए एक अलग वय वर्ग S.No के लिए सुपाजित किया जा	
	S.No	वय वर्ग / उम
	1	>= 0 <= 2
	2	>= 3 <= 15
	3	>= 16 <= 25
	4	>= 26 <= 30
	5	>= 31 <= 35
	6	>= 36 <= 40
	7	>= 41 <= 45
	8	>= 46 <= 50
	9	>= 51 <= 55
	10	>= 56 <= 60
	11	>= 61 <= 65
	12	>= 66
12.18	अनुभवोति अनुभवोति कड अनुभवोति कड	
12.19	उम के विचार में इतिहास के लिए एक अलग वय वर्ग S.No के लिए सुपाजित किया जा	
12.20	अनुभवोति अनुभवोति कड अनुभवोति कड	
12.21	उम के विचार में इतिहास के लिए एक अलग वय वर्ग S.No के लिए सुपाजित किया जा	
	S.No	वय वर्ग / उम
	1	>= 0 <= 2
	2	>= 3 <= 15
	3	>= 16 <= 25
	4	>= 26 <= 30
	5	>= 31 <= 35
	6	>= 36 <= 40
	7	>= 41 <= 45
	8	>= 46 <= 50
	9	>= 51 <= 55
	10	>= 56 <= 60
	11	>= 61 <= 65
	12	>= 66
12.22	उम / तारी वर्ग अनुभवोति / उम के लिए अनुभवोति कड	
12.23	उम के विचार में इतिहास के लिए एक अलग वय वर्ग S.No के लिए सुपाजित किया जा	
	S.No	वय वर्ग / उम
	2008-09	वय वर्ग / उम
	2007-08	वय वर्ग / उम
	2006-07	वय वर्ग / उम
	2005-06	वय वर्ग / उम
	2004-05	वय वर्ग / उम
13	व्यक्तिय अनुभवोति कड अनुभवोति कड	
13.1	व्यक्तिय अनुभवोति कड अनुभवोति कड	
13.2	व्यक्तिय अनुभवोति कड अनुभवोति कड	



क्र.सं.	व्यक्ति का नाम	पद	कार्यक्रम का नाम	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	इनपुट हेल्थ भारतीय कार्यालय 1																
2	कार्यालय विवरण - त्रैमासिक																
3	उद्देश्य और आवृत्ति																
4	यह फार्म प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए प्रत्येक राज्य में कार्यालय (शाखा) विवरण पर जानकारी एकत्रित करता है																
5	यह फार्म मौजूदा कार्यालय सूचना के मौजूदा फार्म पर फिर से इंजीनियर किया गया है																
6	इस वापसी को आवृत्ति तिमाही है																
7	फिन्डर और मापदण्ड																
8	वर्ष																
9	बीमाकर्ता के नाम																
10	भारत में व्यापार																
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54																	
55																	
56																	
57																	
58																	
59																	
60																	
61																	
62																	
63																	
64																	
65																	
66																	
67																	
68																	
69																	
70																	
71																	
72																	
73																	
74																	
75																	
76																	
77																	
78																	
79																	
80																	
81																	
82																	
83																	
84																	
85																	
86																	
87																	
88																	
89																	
90																	
91																	
92																	
93																	
94																	
95																	
96																	
97																	
98																	
99																	
100																	

15	महाराष्ट्र
16	मणिपुर
17	मेघालय
18	मिज़ोरम
19	नागालैंड
20	उड़ीसा
21	पंजाब
22	राजस्थान
23	सिक्किम
24	तामिलनाडु
25	त्रिपुरा
26	उत्तर प्रदेश
27	उत्तराखण्ड
28	पश्चिम बंगाल
29	अंडमान एवं निकोबार
30	चंडीगढ़
31	दादरा एवं नागरा हवेली
32	दमन और दीव
33	दिल्ली
34	लक्षद्वीप
35	पुर्वचेरी
#	ग्रन्थ
	इनपुट हेतु विदेशी कार्यालय 1
	<b>विदेशी कार्यालयों के विवरण</b>
	<b>उद्देश्य और आवृत्ति</b>
	यह फॉर्म विदेशी कार्यालयों जो प्रतिनिधि कार्यालयों, शाखाओं, सहायक, एजेंसी कार्यालयों के रूप में वर्गीकृत हैं, पर सूचना एकत्रित करता है।
	यह विदेशी कार्यालयों के बारे में जानकारी पर एकत्रित करने के लिये नया रूप है।
	इस वापसी की आवृत्ति तिमाही है।
	<b>फिन्टर और मापदण्ड</b>
	वर्ष
	टीमा कंपनी के नाम
	वैश
	तिमाही







प्रतिनिधि - स्वास्थ्य - कार्यालय 2	राज्यानुसार कार्यालयों का वितरण - त्रैमासिक				उद्देश्य और आवृत्ति	इस फार्म का उद्देश्य प्रत्येक बीमाकर्ता के लिये प्रत्येक राज्य में कार्यालय स्थान के विवरण पर जानकारी प्रदान करना है	रिपोर्ट की आवृत्ति त्रैमासिक है	फिस्टर और सापदण्ड	वर्ष	राज्य	बीमाकर्ता का नाम	स्वीकृत परंतु खोली नहीं गई शाखाओं की संख्या	ग्राम - क्षेत्र	ग्रामीण शाखाओं की संख्या	शामील शाखा की % संख्या	शहरी क्षेत्र शहरी शाखाओं की संख्या	शहरी शाखाओं का प्रतिशत	कोलम कोड	संपूर्ण
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

660 GI/13-19

इन्फुट हेतु कार्यलय 3	प्रत्येक राज्य में कार्यालयों का विकास - वार्षिक	उद्देश्य और क्रिकेसी	इस रिपोर्ट का उद्देश्य प्रत्येक राज्य भर में कार्यालयों के वितरण का एक सारांश प्रदान करने के लिए है.	इस रिपोर्ट की आवृत्ति वार्षिक है.	किन्टर और मापदण्ड	वर्ष	राज्य का नाम	वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष		
#						राज्य का नाम	वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष	शहरी कार्यालयों की संख्या	ग्रामीण कार्यालयों की संख्या	पिछले वर्ष
						कालिम कोड	क	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	अंध प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गोआ	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू और के	झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र													



**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****NOTIFICATION**

Hyderabad, the 16th February, 2013

**Insurance Regulatory and Development Authority  
(Health Insurance) Regulations, 2013**

**F. No. IRDA/Reg./14/72/2013.**—In exercise of the powers conferred under Section 114A of the Insurance Act 1938 and Section 14 read with section 26 of the IRDA Act 1999 and in consultation with the Insurance Advisory Committee, the Authority hereby makes the following regulations, namely:—

**1. Short title and commencement.**

- a. These Regulations may be called Insurance Regulatory and Development Authority (Health Insurance) Regulations, 2013
- b. They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of the Government of India.
- c. Unless otherwise provided by this Regulation, nothing in this Regulation shall deem to invalidate the health insurance contracts entered prior to these Regulations coming into force
- d. These Regulations are applicable to all licensed life insurers, non-life insurers and health insurers, conducting health insurance business as defined under these regulations in India.

**2. Definitions.** In these Regulations, unless the context otherwise requires,—

- a. "Act" means the Insurance Act, 1938.
- b. "Agreement" means an agreement prescribing the terms and conditions of services, which may be rendered to the holders of health policies of an Insurance Company entered into between
  - i. a Third Party Administrator (TPA) and an insurance company ; or
  - ii. a Network provider and an Insurance Company, which may include a TPA as a third party.
  - iii. a Network provider, a TPA, and the insurer.
- c. "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub section 1 of section 3 of the IRDA Act 1999.
- d. "Break in policy" occurs at the end of the existing policy term, when the premium due for renewal on a given policy is not paid on or before the premium renewal date or within 30 days thereof.
- e. "Cashless facility" means a facility extended by the insurer to the insured where the payments, of the costs of treatment undergone by the insured in accordance with the policy terms and conditions, are directly made to the network provider by the insurer to the extent pre-authorization approved.
- f. "File and Use Procedure" means a procedure to be followed for health insurance product approval by the insurers in accordance with guidelines/circular issued by the Authority.
- g. "Health insurance business" or "health cover" means the effecting of insurance contracts which provide for sickness benefits or medical, surgical or hospital expense benefits, including assured benefits and long-term care, travel insurance and personal accident cover.

- h. "Health Services by TPA" means the services rendered by a TPA to an insurer under an agreement in connection with health insurance business but does not include the business of an insurance company or the soliciting either directly or indirectly, of health insurance business or deciding on the admissibility of a claim or its rejection.
- i. "Health plus Life Combi Products" mean products which offer the combination of a Pure Term Life Insurance cover of a life insurance companies and a Health Insurance cover offered by non-life and/or standalone health insurance companies.
- j. "Network Provider" means hospitals or health care providers enlisted by an insurer or by a TPA and insurer together to provide medical services to an insured on payment by a cashless facility.
- k. "Portability" means the right accorded to an individual health insurance policyholder (including family cover), to transfer the credit gained for pre-existing conditions and time bound exclusions, from one insurer to another insurer or from one plan to another plan of the same insurer, provided the previous policy has been maintained without any break.
- l. "Senior citizen" means any person who has completed sixty or more years of age as on the date of commencement or renewal of a health insurance policy.
- m. "Third Party Administrators or TPA" means any person who is licensed under the IRDA (Third Party Administrators – Health Services) Regulations, 2001 by the Authority, and is engaged, for a fee or remuneration by an insurance company, for the purposes of providing health services.
- n. All words or expressions not defined in these Regulations but defined in the Insurance Act 1938 or Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts.

### 3. Registration and Scope of Health Business

- a. Health Insurance products may be offered only by entities with a valid registration under the Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations 2001.
- b. Life Insurance Companies may offer long term health products but the premium for such products shall remain unchanged for at least a period of every block of three years, thereafter the premium may be reviewed and modified as necessary.
- c. Non-Life and Standalone Health insurance companies may offer individual health products with a minimum tenure of one year and a maximum tenure of three years, provided that the premium shall remain unchanged for the tenure.
- d. Group Health Insurance Policies may be offered by any insurance company, provided that all such products shall only be one year renewable contracts. However, the non-life and standalone health insurers may offer group personal accident products with term less than one year also to provide coverage to any specific events.
- e. Overseas or Domestic Travel Insurance policies may only be offered by non-life and standalone health insurance companies, either as a standalone product or as an add-on cover to an existing health policy, provided that the premium for the add-on cover is approved by the Authority under File And Use Procedure.

### 4. File and Use Procedure for health insurance products

- a. No health insurance product shall be marketed by any insurer unless it has the prior clearance of the Authority accorded as per the File and Use Procedure.
- b. Any subsequent revision or modification of any approved health insurance product shall also require the prior clearance of the Authority as per the guidelines issued from time to time.
  - i. Any revision or modification in a policy which is approved by the Authority shall be notified to each policy holder at least three months prior to the date when such revision or modification comes into effect. The notice shall set out the reasons for such revision or modification, in particular the reason for an increase in premium and the quantum of such increase.
  - ii. The possibility a revision or modification of the terms of the policy including the premium must be disclosed in the prospectus.
- c. File & Use application for the prior approval of the Authority shall be certified by the Appointed Actuary and the CEO of the insurance company and shall be in such formats and accompanied by such documentation as may be stipulated by the Authority from time to time.

660 GI/13-20

**d. Withdrawal of Health Insurance Product**

- i. To withdraw a health insurance product, the insurer shall take prior approval of the Authority by giving reasons for withdrawal and complete details of the treatment to the existing policyholders.
  - ii. The policy document shall clearly indicate the possibility of withdrawal of the products in the future and the options that would be available to the policyholder on withdrawal of the products.
  - iii. If the existing customer does not respond to the insurer's intimation, the policy shall be withdrawn on the renewal date and the insured shall have to take a new policy available with the insurer, subject to portability conditions.
  - iv. The withdrawn product shall not be offered to the prospective customers.
- e. All particulars of any product shall after introduction be reviewed by the Appointed Actuary at least once a year. If the product is found to be financial unviable, or is deficient in any particular the Appointed Actuary may revise the product appropriately and apply for revision under File and Use procedure.
- f. Five years after a product has been accorded File and Use approval, the Appointed Actuary shall review the performance of the product in terms of morbidity, lapse, interest rates, inflation, expenses and other relevant particulars as compared to the original assumptions made while designing such product and seek fresh approval with suitable justifications or modifications of the earlier assumptions made.

**5. General Provisions relating to Health Policies**

- a. Health insurance product may be designed to offer various covers
- i. To specified age or gender groups
  - ii. To different age groups
  - iii. To treatment in all hospitals throughout the country, provided the definition of hospital is met
  - iv. To treatment in specified hospitals only, provided the morbidity rates used are representative
  - v. To treatment in specified geographies only, provided the morbidity rates used are representative etc

provided, such specifications are disclosed upfront and clearly in the product prospectus, documents and sale process.

- b. Insurer shall not compel the insured to migrate to other health insurance products, if it is to the disadvantage of insured.
- c. Insurers shall ensure adequate dissemination of product information on all their health insurance products on their websites. This information shall include a description of the product, copies of the prospectus as approved under the File and Use Procedure, proposal form, policy document wordings and premium rates inclusive and exclusive of Service Tax as applicable.

**d. Nomination and Assignment**

- i. All health insurance policies shall provide for a nomination registered at the time of the proposal in accordance with Section 39 of the Insurance Act, 1938.
- ii. No assignment of health insurance policies shall be allowed irrespective of whether the coverage provided under such policies are indemnity based or benefit based. Provided that, in Life-Health Combi products, assignment may be allowed only for the life insurance component of the product in accordance with Section 38 of the Insurance Act, 1938.

**e. Entry and Exit Age**

- i. Except as provided for in regulation j, all health insurance policies shall ordinarily provide for an entry age of at least up to 65 years.

- ii. Except travel insurance products and for products in accordance with Regulation j and 4 (d) herein, once a proposal is accepted and a policy is issued which is thereafter renewed periodically without any break, further renewal shall not be denied on grounds of the age of the insured.

**f. Renewal of Policies**

- i. A health insurance policy shall ordinarily be renewable except on grounds of fraud, moral hazard or misrepresentation or non-cooperation by the insured.
- ii. The renewal of a health insurance policy sought by the insured shall not be denied arbitrarily. If denied, the insurer shall provide the policyholder with cogent reasons for such denial of renewal.
- iii. A insurer shall not deny the renewal of a health insurance policy on the ground that the insured had made a claim or claims in the previous or earlier years, except for benefit based policies where the policy terminates following payment of the benefit covered under the policy like critical illness policy following payment of the critical illness benefit, the policy terminates.
- iv. The insurer shall provide for a mechanism to condone a delay in renewal up to 30 days from the due date of renewal without deeming such condonation as a break in policy. However coverage need not be available for such period.
- v. The promotion material and the policy document shall explicitly state the conditions under which a policy terminates, such as on the payment of the benefit in case of critical illness benefits policies.

**g. Free Look Period**

- i. All Health insurance Policies shall have a free look period. The free look period shall be applicable at the inception of the policy and:
  1. The insured will be allowed a period of at least 15 days from the date of receipt of the policy to review the terms and conditions of the policy and to return the same if not acceptable
  2. If the insured has not made any claim during the free look period, the insured shall be entitled to-
    - a. A refund of the premium paid less any expenses incurred by the insurer on medical examination of the insured persons and the stamp duty charges or;
    - b. where the risk has already commenced and the option of return of the policy is exercised by the policyholder, a deduction towards the proportionate risk premium for period on cover or;
    - c. Where only a part of the risk has commenced, such proportionate risk premium commensurate with the risk covered during such period.
    - d. In respect of unit linked policy, in addition to the above deductions, the insurer shall also be entitled to repurchase the unit at the price of the units as on the date of the return of the policy.

**h. Cost of pre-insurance health check up**

- i. The cost of any pre-insurance medical examination shall generally form part of the expenses allowed in arriving at the premium. However in case of products with term of one year and less, if such cost is to be incurred by the insured, not less than 50% of such cost shall be borne by the insurer once the proposal is accepted, except in travel insurance policies where such costs need not be reimbursed.

- ii. Insurers shall maintain a list of, and the fees chargeable by, institutions where such pre-insurance medical examination may be conducted, the reports from which will be accepted by them. Such list shall be furnished to the prospective policyholder at the time of pre-insurance medical examination.

**i. Cumulative bonus**

- i. Insurers may offer cumulative bonuses on indemnity based health insurance policies, which shall be stated explicitly in the prospectus and the policy document.
- ii. If a claim is made in any particular year, the cumulative bonus accrued may be reduced at the same rate at which it is accrued;
- iii. Cumulative bonus shall not be allowed on benefit based policies.

**j. Option to migrate to suitable health insurance policy**

- i. Insurers offering health covers specific to age groups such as maternity covers, children under family floater policies, students etc, shall offer an option to migrate to a suitable health insurance policy at the end of the specified exit age or at the renewal of the policy by providing suitable credits for all the previous policy years, provided the policy has been maintained without a break.

- k. All health insurance policies shall allow the portability of any policy in accordance with Schedule: I

**l. AYUSH Coverage:**

- i. Insurers may provide coverage to non-allopathic treatments provided the treatment has been undergone in a government hospital or in any institute recognized by government and/or accredited by Quality Council of India/National Accreditation Board on Health or any other suitable institutions.
- ii. For benefit based products, (i) shall not be applicable.

**m. Disclosures/Declarations:**

- i. Subject to the provisions of these regulations, prospectus of health insurance policy shall mandatorily contain all the information regarding:
  1. disclosures about the terms of its renewal.
  2. coverage and premium applicable as per the age progression
  3. disclosure of the maximum age up to when the renewal would be available, if product is offered to specified age groups and the option available to migrate to other policies in all such cases.
  4. any changes in the scope of the cover after certain duration of the policy or after a certain age- such as including but not limited to coverage for pre-existing diseases;
  5. whether renewal premium would be guaranteed or subject to revision;
  6. details of specific circumstances, if any, where premium could be loaded (or discount withdrawn) by the insurer and also to the extent to which it could be done;
  7. procedure and terms for enhancing the sum insured or scope of cover, if any;
  8. all the exclusions, cancellation conditions and
  9. other aspects in accordance with the extant regulations, guidelines, circulars etc on advertisements and disclosure requirements.



ii. Declarations shall only form part of the proposal form and shall not be included in the policy document. The standard declarations in the proposal form shall be:

1. "I/We hereby declare, on my behalf and on behalf of all persons proposed to be insured, that the above statements, answers and/or particulars given by me are true and complete in all respects to the best of my knowledge and that I/We am/are authorized to propose on behalf of these other persons.
2. I understand that the information provided by me will form the basis of the insurance policy, is subject to the Board approved underwriting policy of the insurance company and that the policy will come into force only after full receipt of the premium chargeable.
3. I/We further declare that I/we will notify in writing any change occurring in the occupation or general health of the life to be insured/proposer after the proposal has been submitted but before communication of the risk acceptance by the company.
4. I/We declare and consent to the company seeking medical information from any doctor or from a hospital who at anytime has attended on the life to be insured/proposer or from any past or present employer concerning anything which affects the physical or mental health of the life to be assured/proposer and seeking information from any insurance company to which an application for insurance on the life to be assured/proposer has been made for the purpose of underwriting the proposal and/or claim settlement.
5. I/We authorize the company to share information pertaining to my proposal including the medical records for the sole purpose of proposal underwriting and/or claims settlement and with any Governmental and/or Regulatory authority."

**n. Standard Definition of terms in health insurance policies**

- i. Phrases and terms used in all health insurance policies shall carry the meaning attached to them as set out in 'Standard Definitions', if any, issued by the Authority from time to time.

**o. Standard Nomenclature and Procedures for Critical Illnesses**

- i. The nomenclature and procedures incorporated into policies offering 'critical illness cover' shall be as defined by the Authority from time to time.

**p. Standard List of Excluded Expenses in Hospitalization Indemnity policies**

- i. Hospitalization indemnity policies shall generally exclude from cover the Standard list of excluded items as may be stipulated by the Authority from time to time.
- ii. However insurers may offer to cover as part of hospitalization expenses, items in the Standard excluded list or exclude items not in the list, provided that such modification is shall clearly stated and such modified list is annexed to the policy document.

**q. Special Provisions for Insured Persons who are Senior Citizens**

- i. The premium charged for health insurance products offered to senior citizens shall be fair, justified, transparent and duly disclosed upfront. The insured shall be informed in writing of any underwriting loading charged over and above the premium and the specific consent of the policyholder for such loadings shall be obtained before issuance of a policy.
- ii. All health insurers and TPAs, as the case may be, shall establish a separate channel to address the health insurance related claims and grievances of senior citizens.

**r. Multiple Policies**

- i. If two or more policies are taken by an insured during a period from one or more insurers, the contribution clause shall not be applicable where the cover/benefit offered:

660 GI/13-21

1. is fixed in nature;
  2. does not have any relation to the treatment costs;
- ii. In case of multiple policies which provide fixed benefits, on the occurrence of the insured event in accordance with the terms and conditions of the policies, the insurer shall make the claim payments independent of payments received under other similar policies.
  - iii. If two or more policies are taken by an insured during a period from one or more insurers to indemnify treatment costs, the insurer shall not apply the contribution clause, but the policyholder shall have the right to require a settlement of his claim in terms of any of his policies.
    1. In all such cases the insurer who has issued the chosen policy shall be obliged to settle the claim without insisting on the contribution clause as long as the claim is within the limits of and according to the terms of the chosen policy.
    2. If the amount to be claimed exceeds the sum insured under a single policy after considering the deductibles or co-pay, the policy holder shall have the right to choose insurers by whom the claim to be settled. In such cases, the insurer may settle the claim with contribution clause.
    3. Except in benefit policies, in cases where an insured has policies from more than one insurer to cover the same risk on indemnity basis, the insured shall only be indemnified the hospitalization costs in accordance with the terms and conditions of the policy.

## 6. Underwriting

- a. All Insurance Company's shall evolve a Health Insurance Underwriting Policy which shall be approved by the Board of the Company. The policy should among other matters prescribe the proposal form in which prospects may apply for purchasing a Health Policy. Such form should capture all the information necessary to underwrite a proposal in accordance with the stated Policy of the Company.
- b. The Underwriting Policy shall be filed with the Authority. The Company retains the right to modify the Policy as it deems necessary, but every modification shall also be filed with the Authority.
- c. Any proposal for health insurance may be accepted or denied wholly based on the Board approved underwriting policy. A denial of a proposal shall be communicated to the prospect in writing, recording the reasons for denial.
- d. The insured shall be informed of any underwriting loading charged over and above the premium and the specific consent of the policyholder for such loadings shall be obtained before issuance of a policy.
- e. If an insurance company requires any further information, such as change of occupation, at any subsequent stage of a policy or at the time of its renewal, it shall
  - i. prescribe standard forms to be filled up by the insured and shall make these forms part of the policy document
  - ii. Clearly state the events which will require the submission of such information.
  - iii. Clearly state the conditions applicable in such event.
- f. Insurers may devise mechanisms or incentives to reward policyholders for early entry, continued renewals, favourable claims experience etc with the same insurer and disclose upfront such mechanism or incentives in the prospectus and the policy document, as approved under File and Use.

## 7. Principles of Pricing of Health Insurance Products

- a. The premium for a health insurance policy shall be based on,
  - i. for individual policies, the completed age of the prospect on the date of inception of the policy or on the date of its renewal..

- ii. for provision of cover under family floater, the impact of the multiple incidence rates of all family members proposed to be covered.
- b. The policy premiums shall be unchanged
- i. for all group products and travel insurance products, for the entire period of cover.
  - ii. for all individual and family floater products, other than travel insurance products, for at least:
    1. a period of one year in case of one year renewable policies and
    2. for the period of the tenure as stipulated in Regulations 3 (b) and 3(c) herein in the case of multi-year policies..
- c. For a period of three years after a product has been cleared under File and Use Procedure the premiums filed shall ordinarily not be changed. Thereafter the insurer may vary the premium rates depending on the experience, such rate shall not be changed for a period of at least one year from the date of clearance from the Authority.
- d. Changes in rates will be applicable from the date of approval by the Authority and shall be applied only prospectively thereafter for new policies and at the date of renewal for renewals.
- e. The reasonableness of the pricing as arrived at by the insurer will be assessed having regard to the financial sustainability and viability of the product with respect to the rates, loadings, guarantees and discounts, and the accuracy of the assumptions underlying the pricing model adopted.
- f. At the time of filing the product under the File and Use procedure, the insurer shall provide:
  - i. complete pricing details including the methodology adopted to arrive at the premiums, together with the data sources utilized;
  - ii. assumptions made shall include the expected claim frequency and claim severities across age bands, expected expenses, lapse rates etc;
  - iii. specific loadings, if any, allowed;
  - iv. the profit margin at various model points or the expected loss ratios and the expected combined ratios across various model points across the entire portfolio;
  - v. the underwriting capacity required for the product and the actual capacity available with the insurer;
  - vi. the retention capacity to manage the business
  - vii. internal capacity building measures, if any, required to offer the proposed product and
  - viii. any other relevant metric for the product proposed.
- g. Applications for revision of premium rates shall be filed before the Authority for approval under the File and Use Procedure and shall encompass
  - i. the justification for the revision in price;
  - ii. the claims experience of the three immediately preceding years compared to the expected experience duly explaining the variations, and the experience of any similar product.
  - iii. the expected claims experience, the assumptions underlying the proposed pricing along with an analysis of how the proposed pricing would address the adversities experienced sustainably.
- h. **Loadings on Renewals:**
  - i. The loadings on renewals shall be in terms of increase or decrease in premiums offered for the entire portfolio and shall not be based on any individual policy claim experience.

ii. The discounts and loadings offered shall:

1. not be at the discretion of the insurer;
2. be based on an objective criteria;
3. be disclosed upfront in the prospectus and policy document along with the objective criteria, and shall be as approved under the File and Use.

i. **Upper Limit/Maximum Cover offered under a contract:**

- i. If in a benefit based health insurance policy the insurer has prescribed any upper limit for any specified benefit or cover, the insurer shall not accept any proposal for a cover beyond such upper limit, unless the premium for such cover is separately charged.
- ii. Complete pricing details on how such inbuilt limits are considered in arriving at the total premium shall be provided under the File and Use.
- iii. If any proposal is accepted beyond such upper limit, the insurer shall not deny a claim on the ground that the policy exceeds the upper limit prescribed for that policy.
- iv. However, the insurer may cancel the cover beyond such upper limit and shall return the proportionate premium, provided that
  1. the policyholder, at the time of proposal, has not disclosed the existing and simultaneous policy details in the proposal form and
  2. the existence of such policy is revealed only subsequently resulting in the cover accepted beyond the upper limit, and
  3. Such other policy has been underwritten by another insurance company.

**8. Protection of Policyholders' Interest**

- a. Unless otherwise provided, the IRDA (Policyholder Protection of Interest) Regulation, 2002 is applicable to all health insurance policies.
- b. Every insured shall be provided with a Key Information Sheet setting out in simple language briefly but clearly all the important features of the policy, its claim limits, disallowances. The authority may prescribe such document.
- c. The insurer shall establish necessary systems, procedures, offices and infrastructure to enable efficient issuance of pre-authorisations on a 24 hour basis and the prompt settlement of claims and grievances.
- d. **Settlement/Rejection of claim by insurer:**
  - i. An insurer shall settle claims, including its rejection, within thirty days of the receipt of the last 'necessary' document.
  - ii. Except in cases where a fraud is suspected, ordinarily no document not listed in the policy terms and conditions shall be deemed 'necessary'. The insurer shall ensure that all the documents required for claims processing are called for at one time and shall not call for the documents in a piece meal manner.
  - iii. The information that the insurer has captured in the proposal form at the time of accepting the proposal, the terms & conditions offered under the policy, the medical history as revealed by earlier claims, if any, and the prior claims experience shall all be maintained by the insurer as an electronic record and shall not be called for again from the policyholder/insured at the time of subsequent claim settlements. If called, for such information will not be deemed 'necessary.'
  - iv. If the claim event falls within two policy periods, the claims shall be paid taking into

consideration the available sum insured in the two policy periods, including the deductibles for each policy period. Such eligible claim amount to be payable to the insured shall be reduced to the extent of premium to be received for the renewal/due date of premium of health insurance policy, if not received earlier.

- v. Insurer may stipulate a period within which all necessary claim documents should be furnished by the policyholder/insured to make a claim. However, claims filed even beyond such period should be considered if there are valid reasons for any delay.
- e. **Minimum Disclosures in Policy Document:** In addition to the requirements stipulated in IRDA (Protection of Policyholders' Interest) Regulations, 2000 the policy document shall contain:
- i. List of disclosures required as per this regulation.
  - ii. Procedure for claims submission, time lines and possible course of action, if time lines for claim submission are not adhered to along with all the claims documents required for claim processing.
  - iii. Sub-limits applicable on any of the covers offered in the health insurance product and the impact of such sub-limits on other covers provided in the product, if any, shall be clearly spelt out.
  - iv. Penal interest provision shall invariably be incorporated in the policy document as per Regulation 9(6) of (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2002.
  - v. The TPA(s) details, if any along with complete address and contact numbers shall be attached to the policy document and shall be updated as and when there is a change in the TPA (s).

#### 9. Administration of Health Policies

- a. Subject to the terms of a policy, insurers shall extend to all policy holders a cashless facility for treatment at specified establishments or the reimbursement of the costs of medical and health treatments or services availed at any medical establishment.
- b. Cashless facility shall be offered only at establishments which have entered into an Agreement with the insurer to extend such services. Such establishments will be termed as Network Providers. Reimbursement shall be allowed at any medical establishment. All such establishments must be licensed or registered as may be required by any Local, State or National Law as applicable.
- c. The administration of all health plus life-combi products shall be in accordance with the provisions of Schedule II to this Regulation as may be amended from time to time by the Authority.
- d. Except in emergencies a cashless facility may require a Pre-Authorisation to be issued by the Insurer or an appointed TPA to the Network Provider where the treatment is to be undergone. The Authority may prescribe a Standard Pre-Authorisation form and standard reimbursement claims forms which shall be used for this purpose, as applicable.
- e. To avail the benefit of cashless facility, insurers shall issue an Identification Card to the insured within 15 days from the date of issue of a policy, either through a TPA or directly.
- f. The identification card shall, at the minimum, carry details of the policyholder and the logo of the insurer. The validity of card shall coincide with the term of the policy and may be renewed from time to time. Insurers may issue a Smart Card instead of an Identity Card.
- g. Where a policyholder has been issued a pre-authorisation for the conduct of a given procedure in a given hospital or if the policyholder is already undergoing such treatment at a hospital, and such hospital is proposed to be removed from the list of Network Provider, then insurers shall provide the benefits of cashless facility to such policy holder as if such hospital continues to be on the Network Provider list.

660 GI/13-22

- h. Insurer shall keep the insured informed of the list of Network Providers and display the same on their website and the appointed TPA's office. Such list shall be updated as and when there is any change in the Network providers.
- i. The insured shall have access to all the Network Providers of an insurer to avail cashless facility as long as the insurer has a valid service agreement with the Network Provider and such Network Providers shall remain unchanged irrespective of change in TPAs.
- j. An insurance company may enter into arrangement with other insurance companies for sharing of Network Providers, transfer of claim & transaction data arising in areas beyond their service areas.

**10. Agreement between Insurers, Network Providers and TPAs**

- a. Insurance companies may offer policies providing cashless services to the policyholders provided:
  - i. The services are offered in network providers who have been enlisted to provide medical services either directly under an agreement with the insurer or by an agreement between health services provider, the TPA and the insurer.
  - ii. The Authority may, from time to time, prescribe clauses to be included in such agreements as stipulated in (b).
  - iii. the Agreements which shall be entered into between insurers, network providers/TPAs shall cover the following amongst others:
    - 1. the tariff applicable with respect to various kinds of healthcare services being provided by the network provider.
    - 2. a clause empowering the insurer to cancel or otherwise modify the agreement in case of any fraud, misrepresentation, inadequacy of service or other non-compliance or default on the part of TPA or network provider; provided no such cancellation or modification shall be done by the insurer unless the concerned TPA/ network provider is given an opportunity of being heard.
    - 3. a standard clause providing for continuance of services by a network provider to the insurance company if the TPA is changed or the agreement with TPA is terminated.
    - 4. a clause providing for opting out of network provider from a given TPA for reasons of inadequacy of service rendered by the TPA to the network provider.
    - 5. a clause specifying the fees and other charges leviable by an insurance company to the TPA for services rendered.
    - 6. a clause specifically requiring only the insurance company the power to deny a claim.
    - 7. a clause enabling insurer to inspect the premises of the network provider at any time without prior intimation.
- b. The Authority may from time to time prescribe standard clauses to be included in such agreements.
- c. The insurance company shall endeavour to enter into Agreements with adequate number of both public and private sector providers with adequate geographical spread.

**11. Payments to Network Providers and Settlement of Claims of Policyholders:**

- a. For the purpose of claim settlement, insurer shall make direct payments to the Network provider and to the policyholders by integrating their banking system platform with the network provider or the insured,

as the case may be. Provided that, if a claimant opts for payment through a cheque or Demand Draft, the insurer shall not deny such request.

## 12. Services offered by TPA in relation to Health Insurance Policies

- a. The insurer may enter into an Agreement for the provision of defined services with a TPA holding a valid license issued in accordance with the IRDA (Third Party Administrators) Regulations, 2001 as may be amended from time to time.
- b. **The services offered by a TPA shall not include**
  - i. Claim settlements and rejections with respect to the health insurance policies; However, TPA may handle claims admissions and recommend to the insurer for the payment of the claim settlement, provided a detailed guideline is prescribed by the insurer to the TPA for claims assessments & admissions in terms of capacity requirements, internal control requirements, claim assessment & admissions procedure requirements etc under the agreement.
  - ii. Any services directly to the policyholder or insured or to any other person unless such service is in accordance with the terms and conditions of the Agreement entered into with the insurer.
- c. The TPA shall have in place the infrastructure necessary to extend the health services as required to the policyholders at all times.
- d. **Settlement and Denial of Claims:**
  - i. All documents submitted to TPA shall be electronically collected and shall be forwarded to the Insurers for taking a decision on the claim settlements or claim rejections.
  - ii. TPA shall, in the correspondence to the policyholder with respect to settlement/denial of the claims, state clearly the following:

“As per the instructions of the insurer <Name of the Insurer>, the claim is being settled/denied for Rs. <amount> on account of <specifics of treatment/grounds of denial>. For any further clarifications, you may directly contact the insurer.”
  - iii. The above statement shall form the mandatory part of the communication to be sent to the policyholder in every case of settlement or denial of the claims.
  - iv. The insurer and the TPA shall be responsible for the proper and prompt service to the policyholders at all times.
- e. **Bar on Non-insurance healthcare schemes**
  - i. The TPA shall offer health services only in accordance with the IRDA (Third Party Administrators) Regulations, 2001 and shall not provide any services:
    1. directly or indirectly to non-insurance healthcare schemes or
    2. directly to health insurance schemes promoted, sponsored or approved by entities not being insurance companies, such as Governments, PSU's etc.
    3. directly or indirectly to the policyholder or insured, except the health services as per the agreement with the insurer.

## 13. Agreement between a TPA and an Insurance company

- a. The insurer and the TPA shall themselves define the scope of the Agreement, the health and related services that may be provided by the TPA and the remuneration therefor. Provided that there shall be a clause in the Agreement for its termination by either party on grounds of mutual consent or any fraud, misrepresentation, inadequacy of service or other non-compliance or default fraud. Provided further that, there shall be no element in the Agreement which dilutes, restricts or otherwise modifies the

stipulations of the IRDA in respect of Policy Holder welfare, protection, service standards and turn-around-time parameters.

- b. The remuneration to the TPA shall be based on the services rendered to the insurer and shall not be related to the product/policy experience or the reduction of claim costs or loss ratios of the insurer.
- c. A copy of the Agreement entered into between the TPA and the Insurance Company or any modification thereof, shall be filed, within 15 days of its execution or modification, as the case may be, with the Authority.
- d. More than one TPA may be engaged by an insurance company and, similarly, a TPA can serve more than one insurance company.
- e. The Authority from time to time may prescribe minimum standard clauses to be included in the agreement between insurer and TPA.

#### **14. Change of TPAs for servicing of Health Insurance Policies**

- a. A change in the TPA by the insurer shall be communicated to the policyholders 30 days before giving effect to the change.
- b. The contact details like helpline numbers, addresses, etc. of the new TPA shall be made immediately available to all the policyholders in case of change of TPA.
- c. The insurers shall take over all the data in respect of the policies serviced by the earlier TPA and make sure that the same is transferred seamlessly to the newly assigned TPA, if any. It shall be ensured that no inconvenience or hardship is caused to the policyholders as a result of the change. In this regard, the following aspects shall receive special attention:
  - i. Status of cases where pre-authorization has already been issued by existing TPA.
  - ii. Status of cases where claim documents have been submitted to the existing TPA for processing.
  - iii. Status of claims where processing has been completed by the TPA and payment is pending with the insurer/ TPA.

#### **15. Data and related issues:**

- a. The TPA and the insurer shall establish a seamless flow of data transfer for all the claims.
- b. The respective files shall be handed over to the insurer within 15 days of the claim settlement or rejection.

#### **16. Submission of Returns to the Authority**

- a. All insurance companies carrying on health insurance business shall furnish the Returns to the Authority in accordance with Schedule-III.

#### **17. Transitory Provisions**

- a. **Withdrawal of Products**
  - i. The Appointed Actuary shall examine every Health product, Group and Individual, in the Company's portfolio and list out those products which are not in compliance with the provisions in every particular of these Regulations. Such list shall be certified by the Appointed Actuary, counter signed by the CEO and submitted to the Authority on or before 30.06.2013.
  - ii. Products not in compliance with this Regulation shall all stand withdrawn and shall not be sold
    1. In the case of Group Products, from 1<sup>st</sup> July 2013
    2. In the case of Individual Products, from 1<sup>st</sup> October 2013
  - iii. No new members shall be enrolled into the existing group policies once the product stands withdrawn.
  - iv. Products which have been filed and are awaiting the approval of the Authority shall all be returned to the applicant to be refilled afresh after due examination for compliance
- b. **Remedial Measures**



- i. Insurers may on their own modify product features other than those relating to any benefits offered, premium bases, loading levied or discounts offered in the products. If such modifications suffice to render the product compliant in every particular of this Regulation, then on the basis of a certificate to that effect by the Appointed Actuary and the CEO, the Authority will record such change and allot the unique identification number where after such product may be introduced. The Authority reserves the right, in such cases to take appropriate action if it is established that this assertion of the Company was not well founded.
- ii. Products which cannot be covered under the provisions of (i) above shall be appropriately modified and filed for a fresh approval under the File and Use. Such application shall be in a tabular format setting out the current provision and the revised provisions to render the product in compliance with this Regulation together with an analysis of the implications on pricing, reserving, profit margin and other relevant metrics.
- iii. At renewal, all Group Policies shall be given an option
  1. to switch over to a modified approved version of the group product, or
  2. to continue to be renewed under the extant policy, provided that in such case no new members shall be enrolled after 1<sup>st</sup> June 2013 and the specific written consent is obtained by the group policyholder to continue in the old policy.
- c. All the insurers shall inform the prospective policyholders about the possible changes in the products being sold during the transition period and give an option to the existing policyholders including prospective policyholders to switch over to the modified version if any, once introduced.

**18. Repeal and Savings:**

- a. All the guidelines/clarifications/circulars/letters issued earlier in respect of the health insurance products shall abate from the date this regulation comes into force.
- b. Unless otherwise provided by these regulations, nothing in these regulations shall deem to invalidate the health insurance contracts entered prior to these regulations coming into force.

**Schedule: I****Portability of Health Insurance Policies offered by Life and General Insurers:**

1. A policyholder desirous of porting his policy to another insurance company shall apply to such insurance company, to port the entire policy along with all the members of the family, if any, at least 45 days before the premium renewal date of his/her existing policy.
2. Insurer may not be liable to offer portability if policyholder fails to approach the new insurer at least 45 days before the premium renewal date.
3. Portability shall be opted by the policyholder only as stated in (1) above and not during the currency of the policy.
4. In case insurer is willing to consider the proposal for portability even if the policyholder fails to approach insurer at least 45 days before the renewal date, it may be free to do so.
5. Where the outcome of acceptance of portability is still waiting from the new insurer on the date of renewal
  - a. the existing policy shall be allowed to extend, if requested by the policyholder, for the short period by accepting a pro- rate premium for such short period, which shall be of at least one month and
  - b. shall not cancel existing policy until such time a confirmed policy from new insurer is received or at the specific written request of the insured
  - c. the new insurer, in all such cases, shall reckon the date of the commencement of risk to match with date of expiry of the short period, wherever relevant.

660 GI/13-23

- d. if for any reason the insured intends to continue the policy further with the existing insurer, it shall be allowed to continue by charging a regular premium and without imposing any new condition.
6. In case the policyholder has opted as in 5 (a), and there is a claim, then existing insurer may charge the balance premium for remaining part of the policy year provided the claims is accepted by the existing insurer. In such cases, policyholder shall be liable to pay the premium for the balance period and continue with existing insurer for that policy year.
  7. On receipt of such intimation, the insurance company shall furnish the applicant, the Portability Form as set out in Annexure 'I' to these guidelines together with a proposal form and relevant product literature on the various health insurance products which could be offered.
  8. The policyholder shall fill in the portability form along with proposal form and submit the same to the insurance company.
  9. On receipt of the Portability Form, the insurance company shall address the existing insurance company seeking necessary details of medical history and claim history of the concerned policyholder. This shall be done through the web portal of the IRDA.
  10. The insurance company receiving such a request on portability shall furnish the requisite data in the data format for porting insurance policies prescribed in the web portal of IRDA within 7 working days of the receipt of the request.
  11. In case the existing insurer fails to provide the requisite data in the data format to the new insurance company within the specified time frame, it shall be viewed as violation of directions issued by the IRDA and the insurer shall be subject to penal provisions under the Insurance Act, 1938.
  12. On receipt of the data from the existing insurance company, the new insurance company may underwrite the proposal and convey its decision to the policyholder in accordance with the Regulation 4 (6) of the IRDA (Protection of Policyholders' interest) Regulations, 2002.
  13. If on receipt of data within the above time frame, the insurance company does not communicate its decision to the requesting policyholder within 15 days in accordance with its underwriting policy as filed by the company with the Authority, then the insurance company shall not retain the right to reject such proposal and shall have to accept the proposal.
  14. In order to accept a policy which is porting-in, insurer shall not levy any additional loading or charges exclusively for the purpose of porting.
  15. No commission shall be payable to any intermediary on the acceptance of a ported policy.
  16. Portability shall be allowed in the following cases:
    - a. All individual health insurance policies issued by non-life insurance companies including family floater policies

- b. Individual members, including the family members covered under any group health insurance policy of a non-life insurance company shall have the right to migrate from such a group policy to an individual health insurance policy or a family floater policy with the same insurer. Thereafter, he/she shall be accorded the right mentioned in 1 above.

17. For any health insurance policy, waiting period with respect to pre-existing diseases and time bound exclusions shall be taken into account as follows:-

S. No	No of years of continuous insurance cover with previous insurer (s)	Waiting period to be served with new insurer in number of days/years				
		YY Days	1 Year	2 years	3 years	4 years
I.	XX Days at inception (XX-no of days as per the policy document)	(YY-XX) Days	N/A	N/A	N/A	N/A
II.	<b>For 1 year period exclusion:</b>					
	1 year	N/A	Nil	1 Year	2 Years	3 Years
III.	<b>For 2 year period exclusion:</b>					
	1 year	N/A	Nil	1 Year	2 Years	3 Years
	2 years	N/A	Nil	Nil	1 Year	2 Years
IV.	<b>For 3 year period exclusion:</b>					
	1 year	N/A	Nil	1 Year	2 Years	3 Years
	2 years	N/A	Nil	Nil	1 Year	2 Years
	3 years	N/A	Nil	Nil	Nil	1 Year
V.	<b>For 4 year period exclusion:</b>					
	1 year	N/A	Nil	1 Year	2 Years	3 Years
	2 years	N/A	Nil	Nil	1 Year	2 Years
	3 years	N/A	Nil	Nil	Nil	1 Year
	4 years	N/A	Nil	Nil	Nil	Nil

**Note 1:** In case the waiting period for a certain disease or treatment in the new policy is longer than that in the earlier policy for the same disease or treatment, the additional waiting period should be clearly explained to the incoming policy holder in the portability form to be submitted by the porting policyholder.

**Note 2:** For group health insurance policies, the individual member's shall be given credit as per the table above based on the number of years of continuous insurance cover, irrespective of, whether the previous policy had any pre-existing disease exclusion/time bound exclusions.

18. The portability shall be applicable to the sum insured under the previous policy and also to an enhanced sum insured, if requested by the insured, to the extent of cumulative bonus acquired from the previous insurer(s) under the previous policies.

For e.g. - If a person had a SI of RS 2lakhs and accrued bonus of Rs 50, 000 with insurer A; when he shifts to insurer B and the proposal is accepted, insurer B has to offer him SI of Rs 2.50lakhs by charging the premium applicable for Rs 2.50lakhs. If insurer B has no product for Rs 2.50lakhs, insurer B would offer the nearest higher slab say Rs 3lakhs to insured by charging premium applicable for Rs 3lakhs SI .However, portability would be available only up to Rs 2.50lakhs.

19. Insurers shall clearly draw the attention of the policyholder in the policy contract and the promotional material like prospectus, sales literature or any other documents in any form whatsoever, that:
- all health insurance policies are portable;
  - policyholder should initiate action to approach another insurer, to take advantage of portability, well before the renewal date to avoid any break in the policy coverage due to delays in acceptance of the proposal by the other insurer.

#### Annexure-I

#### Portability Form

#### PART-I

1)	Name of the Policyholder / insured (s)	
2)	Date of Birth/Age	
3)	Address of the policyholder/insured	
4)	Details of existing insurer	
	i. Name of the product	
	ii. Sum Insured	
	iii. Cumulative Bonus	
	iv. Add-ons/riders taken	
	v. Policy number	
5)	Details of the proposed insurance	
	i. Name of the product proposed/intend to take	
	ii. Sum Insured Proposed	
	iii. Whether Cumulative Bonus to be converted to an enhanced sum insured	
6)	Reason(s) for portability	

7)	No. of family member to be included I the policy to be ported.	
Enclosure: Photocopy of the existing policy documents		
Date:	Signature of the policyholder	

**PART –II**

1. Whether the PED exclusions / time bound exclusion have longer exclusion period than the existing policy:  
(Please indicate Yes / NO):
2. If yes, please give written consent to the declaration below:

"I am aware that the waiting period for the following disease(s)/treatment(s) is ..... days/years more than the previous policy terms. I hereby agree to observe the additional waiting period for the following disease(s)/treatment(s)

Signature of the policyholder

**Schedule: II****Administration of Health Plus Life Combi Products**

1. The product of this class shall be named as '**Health plus Life Combi Products**' referred as '**Combi Products**' hereinafter in this schedule.
2. This schedule does not apply to Micro Insurance Products which are governed by IRDA (Micro Insurance) Regulations, 2005.
3. All insurance companies that promote '**Health plus Life Combi products**' shall adhere to the following:
  - a. **Scope of Combi Product Class:**
    - i) The '**Combi Products**' may be promoted by all Life Insurance and Non-Life Insurance Companies.
    - ii) The '**Combi Product**' shall be the combination of Pure Term Life Insurance cover offered by life insurance companies and Health Insurance cover offered by non life insurance companies/stand alone health insurance companies.
    - iii) The Products offered under the combi products shall be individually cleared under the File and Use procedure.
    - iv) Riders / Add-on covers may be offered subject to File and Use clearance.
    - v) The premium components of both risks are to be separately identifiable and disclosed to the policyholders at both pre-sale stage and post-sale stage and in all documents like policy document, sales literature.
    - vi) The product may be offered both as individual insurance policy and on group insurance basis. However in respect of health insurance floater policies, the pure term life insurance coverage is allowed on the life of one of the earning members of the family who is also the proposer on health insurance policy subject to insurable interest and other applicable underwriting norms of respective insurers.

660 GI/13-24

- vii) The integrated premium amount of the 'Combi Product' shall be basis for reckoning the threshold limit / applicability of extant Regulations, guidelines and circulars etc. issued by the Authority or any other statutory body.
- viii) Commission and Claim payouts in respect of 'Combi Products' shall be by respective insurers only.
- ix) 'Combi product' shall have a free look option as outlined in IRDA (Health Insurance Regulations) 2010. Free Look option is to be applied to the 'Combi Product' as a whole.
- x) The Health portion of the 'Combi Product' shall entitle its renewability at the option of policy holder from the respective Non-Life / standalone health Insurance Company

**b. Tie up between insurers:**

- i) It is mandatory that insurance companies offering the 'Combi Product' shall have in place a Memorandum of Understanding covering the modus operandi of marketing, policy service and sharing of common expenses.
- ii) Insurers forming the tie-up shall obtain prior approval of IRDA by duly filing the copy of the agreement entered in this regard. Approval may be obtained by any one of insurers.
- iii) A tie up is permitted between one life insurer and one non-life insurer only. Thus a life insurer is permitted to tie up with only one non-life insurer and vice-versa.
- iv) Between these two Insurers any number of 'Combi Products' may be promoted.
- v) Insurance companies shall carry out an appropriate due diligence before establishing the business relationship for the purpose of promoting 'Combi Products'. Insurers are also expected to have a long-term understanding for effective policy service of the proposed 'Combi Products'.
- vi) Withdrawal from the tie-up is generally not desirable. However, in exceptional cases where insurers desire to withdraw from MOU they shall obtain prior permission of the Authority.
- vii) There shall be specific time frames / Turn around Times (TAT) to be agreed between the insurance companies as part of MOU for effective policy service, transmission of premiums received etc. at various stages of policy i.e., at pre-sale stage and post-sale stage.
- viii) Filing the advertisements in accordance with IRDA (Insurance Advertisements and Disclosures) Regulations, 2000 within 30 days from the date of issuing the advertisement with Authority.
- ix) Proposed procedures for obtaining the prior approval of IRDA for issuing Joint Sale Advertisements along with the common corporate agents.
- x) The modus operandi of proposed policy service at various stages of the policy viz., proposal stage, policy servicing, premium collection arrangements and claims service etc.
- xi) The Information Technology systems put in place for supporting the sale and policy service of the 'Combi Products'.
- xii) Agreement on reimbursement of expenses in consideration of common services rendered by each other of insurance companies.
- xiii) Distribution Channel wise maximum commission allowed under the 'Combi Products'.
- xiv) The manner in which premium is proposed to be collected subject to provisions of Section 64 VB of Insurance Act, 1938.
- xv) The procedures put in place for expeditious transfer of the portion of premium that pertains to the other insurer of the product.
- xvi) Operational procedures put in place for updating premium on policy data base on a real time basis.

- xvii) Options available to policyholders of 'Combi Products' to discontinue either portion of risk coverage while continuing with the other portion, subject to the extant law, regulations, guidelines etc.
- xviii) Copy of proposed common Sales Literature / Sales Illustrations, proposal form to be issued by both the insurers in respect of 'Combi Products', subject to the conditions that these documents cleared under File and Use procedure are not modified.
- xix) Common Advertisements of 'Combi Products', subject to the condition that this shall be restricted to the features, terms and conditions of the 'Combi Product'.

c. **Lead Insurer:**

- i) As two insurance companies are involved in offering the 'Combi Product' one of the insurance companies may be mutually agreed to act as a lead insurer in respect of each 'Combi Product' marketed with agreed terms, conditions and considerations.
- ii) The Lead Insurer for this purpose is the insurance company mutually agreed by both the insurers to play a critical role in facilitating the policy service as a contact point for rendering various services as required for combi products. The lead insurer may play a major role in facilitating underwriting and policy service.
- iii) The role of lead insurer shall not deter in relying upon the existing operational infrastructure of the partner-insurance company for effective policy servicing of 'Combi Products'.
- iv) Either of the insurers shall not be absolved of their responsibility of proactive settlement of claims and other obligations in accordance with the terms and conditions of their respective policies.

4. **Underwriting:** Under the 'Combi Product', underwriting of respective portion of risk shall be carried out by respective insurance companies, that is; Life Insurance risk shall be underwritten by Life Insurance Company and the Health Insurance portion of risk shall be underwritten by Non-Life/stand-alone health Insurance Company.

5. **File and Use:**

- a. The life insurance product and the health insurance product to be offered as a combi product shall have prior approval under File and Use procedure.
- b. Both the independent approved products shall be integrated as a single product and shall be filed with a common brand name.
- c. The single product shall be offered without making any modifications to the cleared products.
- d. 'Combi Product' is to be filed at the stage of integrating for getting File and Use approval irrespective of the earlier approval to either of products.
- e. 'Combi Product' filing shall follow the File and Use guidelines in vogue and all such guidelines that would be issued from time to time.
- f. Combi Product' is to be filed with Actuarial Department of Authority in File and Use formats that are in vogue.
- g. The Combi Product shall be approved by the Authority at File and Use.
- h. The File and Use application of the 'Combi Product' shall also specify the following:-
  - i) Lead Insurer for the 'Combi Product' and demarcation of functions between insurers for carrying out activities
  - ii) Procedures proposed for issuance of the premium notices, where applicable and final lapse notices in terms of Section 50 of the Insurance Act, 1938.
  - iii) Where the servicing is to be necessarily attended by the original insurer, the lead insurer shall facilitate the policy servicing. As far as the policyholder is concerned lead insurer shall be made as the single nodal point for receiving the servicing requests, fulfilling the services and issuing acknowledgements.

- iv) Results of feasibility study, if any, in giving a limited access to the policy data base of policies for effecting over-the-counter policy service requests to the lead insurer.
- v) The results of the cost benefit analysis carried out by both the insurers and the possibility of offering any discounts on the premium in the combi product.
- vi)

6. Lead insurer in settlement of claims shall ensure:-

- a. Based on the type of claim, the other insurer shall also take proactive measures for settlement of claims. In no case, the Lead insurer shall guarantee the settlement of claim on behalf of the other insurer.
- b. The risks accepted by one insurer under 'Combi Product' shall not affect the business of other insurance company.
- c. As far as health portion of 'Combi Policies' are concerned, the extant regulations and guidelines shall apply.
- d. Where the policies are serviceable directly, the lead insurer shall play a facilitative role.
- e. The operational procedures proposed to be put in place for timely dispatch of the policy bond of 'Combi Products'.

7. **Distribution Channel:**

- a. The sale of 'Combi Product' shall be solicited through:-
  - i) Direct Marketing channels
  - ii) Brokers and
  - iii) Composite Individual and Corporate Agents, common to both insurers
- b. 'Combi Products' shall not be marketed through 'Bank Referral' arrangements.
- c. Insurers shall ensure that the 'Combi Product' is not marketed by those insurance intermediaries who are not authorized to market either of the products of either of the insurers.

8. **Mandatory Minimum Disclosures:**

- a. The mandatory minimum disclosures for a Combi Product shall be:
  - i) The product is jointly offered by "abc insurance company" (specify non-life/ stand-alone health insurer name) and "xyz insurance company" (specify life insurer name).
  - ii) The risks of this 'Combi Product' are distinct and are assumed / accepted by respective insurance companies.
  - iii) The liability to settle the claim vests with respective insurers that is for health insurance benefits "abc insurance company" (specify non-life/ stand-alone health insurer name) and for life insurance benefits "xyz insurance company" (Specify life insurer name).
  - iv) The legal/quasi legal disputes, if any, shall be dealt with the respective insurers for respective benefits.
  - v) The policy holders of the 'Combi Product' under reference shall be eligible to continue with either part of the policy, discontinuing the other during the policy term.
  - vi) Where guaranteed renewability of health insurance plan is allowed, the health insurance portion of this 'Combi Product' is entitled to that facility.
  - vii) Specific Disclosures on the available premium payment options on these 'Combi Products'.
  - viii) Specific Disclosures about the available Policy Servicing facilities for these 'Combi Products'.



- ix) Specific Disclosures about the proposed claims service of these policies under both the risks.
  - x) Specific Disclosures on the availability of services of 'Third Party Administrators (TPAs)' for health insurance portion of risk, if available.
  - xi) Specific Disclosures on the available Grievances Redressal Options including particulars of Ombudsman under these 'Combi products'.
  - xii) Policyholders are to be advised to familiarize themselves with the policy benefits and policy service structure of the 'Combi Product' before deciding to purchase the policy.
- b. Policy documents of 'Combi Products' shall contain the above referred points (iii) to, (xi) as minimum disclosures.
  - c. Declaration from the prospect shall be obtained and attached to proposal form that he / she has understood the disclosures mentioned above.
9. In respect of 'Combi Products' both the insurers shall comply with the provisions Insurance Act, 1938 and Regulations notified there under and other guidelines, circulars that are applicable to health insurance business and life insurance business respectively.
  10. For the purpose of these guidelines non-life insurance company includes standalone health insurance Company also.
  11. In order to monitor the progress of the penetration of the product class before enlarging the scope of the same all insurance companies that are marketing 'Combi Products' shall submit the information that is required by the Authority from time to time.
  12. The Authority may stipulate such other terms and conditions from time to time for monitoring activities of insurance companies offering 'Combi Products'.

**Schedule: III**

**Health Insurance Returns to be submitted by Insurance Companies**

J. HARI NARAYAN, Chairman

[ADVT. III/4/161/12/Exty.]

660 GI/13-25

Forms

Description

Link

Frequency

Time limit for submission

1st Reminder Due Date

2nd Reminder Due date

Forms	Description	Link	Frequency	Time limit for submission	1st Reminder Due Date	2nd Reminder Due date
INPUT_HEALTH_1	<i>(Records to be submitted by Insurers)</i>	<a href="#">View</a>	yearly	Annual Audited - 30th of June	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_1(a)		<a href="#">View</a>	yearly	Annual Audited - 30th of June	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_1.1		<a href="#">View</a>	yearly	Annual Audited - 30th of June	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_2		<a href="#">View</a>	yearly	Annual Audited - 30th of June	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_3		<a href="#">View</a>	yearly	Annual Audited - 30th of June	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_4.1		<a href="#">View</a>	yearly	Annual Audited - 30th of June	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_5		<a href="#">View</a>	yearly	Annual Audited - 30th of June	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_6		<a href="#">View</a>	Monthly	10th of the following month	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_6.1		<a href="#">View</a>	Monthly	10th of the following month	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_6.2		<a href="#">View</a>	Monthly	10th of the following month	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_6.3		<a href="#">View</a>	Monthly	10th of the following month	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_6.4		<a href="#">View</a>	yearly	Annual Audited - 30th of June	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_7		<a href="#">View</a>	Quarterly	15th of the month following end of quarter	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_8		<a href="#">View</a>	Quarterly	15th of the month following end of quarter	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_9		<a href="#">View</a>	Quarterly	15th of the month following end of quarter	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_10		<a href="#">View</a>	yearly	Annual Audited - 30th of June	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_INDIAN_OFFICE_1		<a href="#">View</a>	Quarterly	This form is filled in by IRDA Users	2 Days before the due date	On due Date
INPUT_HEALTH_FOREIGN_OFFICE_1		<a href="#">View</a>	Quarterly	15th of the month following end of quarter	2 Days before the due date	On due Date
REP_HEALTH_OFFICE_1		<a href="#">View</a>	Quarterly	15th of the month following end of quarter	2 Days before the due date	On due Date
REP_HEALTH_OFFICE_2		<a href="#">View</a>	Quarterly	15th of the month following end of quarter	2 Days before the due date	On due Date
REP_HEALTH_OFFICE_3		<a href="#">View</a>	yearly	15th of the month following end of quarter	2 Days before the due date	On due Date

**Details of foreign Offices**

**Purpose and Frequency**

This form collects the information on the foreign offices classified as representative offices, branches, subsidiaries, agency offices. This is a new form for capturing the information on foreign offices. The frequency of this return is quarterly.

**Filters and Parameters**

Year  Quarter

Name of insurer

Country

#	Particulars	No.	whether regulated by local authority	
			a	b
1	No. of representative branches *	outside India		
2	No. of branches **	outside India		
3	No. of subsidiaries ***	outside India		
4	No. of agency Offices ****	outside India		
Total No.				

**Note:**

- \* A representative office is an office established by a company to conduct marketing and other non-transactional operations, generally in a foreign country where a branch office or subsidiary is not warranted.
- \*\* A branch of insurance companies is a retail location where an insurer offers a wide array of face to face and automated services to its customers.
- \*\*\* A subsidiary, in business matters, is an entity that is controlled by a separate higher entity
- \*\*\*\* An agency office is an entity where the business is carried out by agents of the insurance companies



**Purpose and Frequency**

This form collects the information on the office (Branch) details in each state for each insurer.  
This form is re-engineered on the basis of the existing Form VII of existing Office Information.  
The frequency of this return is quarterly.

**Filters and Parameters**Year Quarter Insurer Name **Business within India**

Sl. No.	State	No. of branches									
		No. of branches at the beginning of the quarter	No. of branches in principle approved during the quarter	Out of approvals of previous quarter	Out of approvals of the quarter	No. of branches closed during the quarter	No. of branches at the end of the quarter	No. of offices relocated	No. of offices merged	No. of existing branches in total	No. of existing branches in this quarter
Column Code		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	Andhra Pradesh										
2	Arunachal Pradesh										
3	Assam										
4	Bihar										
5	Chhattisgarh										
6	Goa										
7	Gujarat										
8	Haryana										
9	Himachal Pradesh										
10	Jammu & Kashmir										
11	Jharkhand										
12	Karnataka										
13	Kerala										
14	Madhya Pradesh										
15	Maharashtra										
16	Manipur										
17	Meghalaya										
18	Mizoram										
19	Nagaland										
20	Orissa										
21	Punjab										
22	Rajasthan										
23	Sikkim										
24	Tamil Nadu										
25	Tripura										
26	Uttar Pradesh										
27	Uttarakhand										
28	West Bengal										
29	Andaman & Nicobar Is.										
30	Chandigarh										
31	Dadra & Nagra Havell										
32	Daman & Diu										
33	Delhi										
34	Lakshadweep										
35	Puducherry										

**Note:**

1. Branches stand for place of business

660 GI/13-26

**Annual Report 2014**  
**Details of product performance - Products with more than 1 year term (To be furnished by All insurers having health products)**

**Purpose and frequency**  
 To collect product information for all products having term more than 1 year  
 To replace the existing form D to add more data elements on new business and expected business data  
 The frequency of the return is yearly and as and when.

**Filters and Parameters**  
 Year: \_\_\_\_\_  
 Issuer Name: \_\_\_\_\_

Particular	Product 1		Product 2		Product 3		Product 4		Product 5	
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Category Code									
1	Product Name									
2	UIN									
3a	Scope of Cover(1)									
3b	Target Group									
4	Insured Type									
4a	Basis of Payout									
5	Date of clearance of product									
5a	Minimum Policy period									
5b	Maximum Policy period									
6	Current Status of Product									
6a	Add-on covers included									
6b	No. of add on covers									
6c	Whether serviced by TPA?									
6d	Total no. of TPA involved									
7	No. of policies issued									
8	Gross Premium* Collected									
8.1	Total Premium Collected									
9	No of persons/members/ lives covered									
10	Total Sum Insured									
11a	Reinsurance Commissions Received									
7a	No. of policies due for renewal									
8a	No. of policies renewed									
9a	Total Renewal Premium Collected									
9a.1	Total renewal premium collected									
10a	No of persons/members/ lives covered									
11a	Total Sum Insured in renewal									
11a	Reinsurance Commissions Received									
7b	No. of policies									
8b	Gross premium income									
9b	Total premium credit									
10b	No of persons/members/ lives covered									
11b	Total Sum Insured									
11b	Reinsurance Commissions Received									
7c	No. of cancellation in free look period									
8c.1	No. of cancellation** during the policy term									
8c.2	No. of cancellation** during the business									
6a	No. of policies									
6b	Total Gross Premium									
6c	Total no. of claims									
6d	Total amount of claims									
6e	Claims ratio									
6f	Combined ratio									

**Notes:**  
 1. only predominant cover should be mentioned in scope of cover.  
 \* Gross premium is defined as the premium amount before deducting service tax.  
 \*\* This section is currently optional.  
 \* Other than free look cancellation

**Yearly**

**Details of product performance in terms of claims development and aging (To be furnished by All insurers having health products)**

**Purpose and frequency**  
 To collect claims movement and claims aging data  
 To replace the existing form D to add more detailed level information on claims data  
 The frequency of the return is yearly and as and when.

**Particulars and Parameters**  
 Year:  Channel Type:   
 Insurer Name:

Particular	Column Code				
	Product 1 a	Product 2 b	Product 3 c	Product 4 d	Product 5 e
1.i Claims pending at the beginning of the year	No.				
1.ii Amount	Amount				
2.i New claims registered	No.				
2.ii Amount	Amount				
3.i Claims repudiated	No.				
3.ii Amount	Amount				
4.i Claims closed due to other reasons	No.				
4.ii Amount	Amount				
5.i Claims reopened	No.				
5.ii Amount	Amount				
6.i Claims pending at the end of the year	No.				
6.ii Amount	Amount				
7.i Penal Interest Paid	No.				
7.ii Amount	Amount				
8.i Incurred Claims Ratio					
8.ii Combined Ratio					

Claims Ratio = (Total Amount of Claims Incurred) / GWP  
 Combined Ratio = Total Amount of Claims Incurred + Total Company Expenses Amount / GWP

12.i	No.				
12.ii	Amount				
13.i	No.				
13.ii	Amount				
14.i	No.				
14.ii	Amount				
15.i	No.				
15.ii	Amount				
16.i	No.				
16.ii	Amount				
17.i	No.				
17.ii	Amount				

\* Reckoned from date of first intimation

12.i	No.				
12.ii	Amount				
13.i	No.				
13.ii	Amount				
14.i	No.				
14.ii	Amount				
15.i	No.				
15.ii	Amount				
16.i	No.				
16.ii	Amount				
17.i	No.				
17.ii	Amount				

\* Claims settled for more than 3 yrs

17.ii	Amount
12.i	Claims repudiated for less than 2 month
12.ii	Amount
13.i	Claims repudiated for greater than 2 month and less than 3 months
13.ii	Amount
14.i	Claims repudiated for greater than 3 month and less than 6 months
14.ii	Amount
15.i	Claims repudiated for greater than 6 month and less than 12 months
15.ii	Amount
16.i	Claims repudiated for greater than 1 year and less than 2 years
16.ii	Amount
17.i	Claims repudiated for more than 2 yrs
17.ii	Amount

\*\*Rackoned from date of receipt of last requirement

Note:

1. Incurred Claims ratio = Total incurred claim/ total Earned Premium
2. Combined Ratio = (Total claims paid+other operating expense)/total premium earned
3. The product will be populated based on the selection of the target group

Sl. No.	Description	Enable	Unit	Yes	Input	Database
1.1	Claims pending at the beginning of the year	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
1.1.i	1) No.	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
1.1.ii	2) Amount	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
2.1	New claims registered	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
2.1.i	1) No.	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
2.1.ii	2) Amount	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
3.1	Claims settled fully without grievance	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
3.1.i	1) No.	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
3.1.ii	2) Amount	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
4.1	Claims settled fully subsequent to grievance	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
4.1.i	1) No.	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
4.1.ii	2) Amount	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
4.1.a	Claims first rejected and subsequently settled fully	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
4.1.a.i	1) No.	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
4.1.a.ii	2) Amount	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
4.1.b	Claims first partially settled and subsequently settled	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
4.1.b.i	1) No.	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
4.1.b.ii	2) Amount	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
5.1	Claims partially settled	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
5.1.i	1) No.	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
5.1.ii	2) Amount	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
6.1	Claims repudiated	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
6.1.i	1) No.	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
6.1.ii	2) Amount	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
7.1	Claims closed due to other reasons	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
7.1.i	1) No.	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
7.1.ii	2) Amount	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
8.1	Claims reopened	Enable	Nr.	Yes	Input	Database
8.1.i	1) No.	Enable	Nr.	Yes	Input	Database

Closing of last year will be beginning



Sl. No.	Description	Unit	Yes	Input	Database
8.ii	2) Amount	Enable			Database
9.i	Claims pending at the end of the year	Enable			Database
9.ii	1) No.	Enable			Database
9.iii	2) Amount	Enable			Database
10.i	Special Interest Paid	Enable			Database
10.ii	1) No.	Enable			Database
10.iii	2) Amount	Enable			Database
11.i	Recurrent Claims Ratio	Enable			Database
11.ii	Combined Ratio	Enable			Database
12.i	Claims pending for less than 1 month	Enable			Database
12.ii	1) No.	Enable			Database
12.iii	2) Amount	Enable			Database
13.i	Claims pending for greater than 1 month and less than 3 months	Enable			Database
13.ii	1) No.	Enable			Database
13.iii	2) Amount	Enable			Database
14.i	Claims pending for greater than 3 months and less than 6 months	Enable			Database
14.ii	1) No.	Enable			Database
14.iii	2) Amount	Enable			Database
15.i	Claims settled for greater than 6 months and less than 12 months	Enable			Database
15.ii	1) No.	Enable			Database
15.iii	2) Amount	Enable			Database
16.i	Claims settled for greater than 1 year and less than 2 years	Enable			Database
16.ii	1) No.	Enable			Database
16.iii	2) Amount	Enable			Database
17.i	Claims settled for more than 2 yrs	Enable			Database
17.ii	1) No.	Enable			Database
17.iii	2) Amount	Enable			Database
12.i	Claims settled for less than 1 month	Enable			Both
12.ii	1) No.	Enable			Both
12.iii	2) Amount	Enable			Both
13.i	Claims settled for greater than 1 month and less than 3 months	Enable			Both
13.ii	1) No.	Enable			Both
13.iii	2) Amount	Enable			Both
14.i	Claims settled for greater than 3 months and less than 6 months	Enable			Both
14.ii	1) No.	Enable			Both
14.iii	2) Amount	Enable			Both
15.i	Claims settled for greater than 6 months and less than 12 months	Enable			Both
15.ii	1) No.	Enable			Both
15.iii	2) Amount	Enable			Both
16.i	Claims settled for greater than 1 year and less than 2 years	Enable			Both
16.ii	1) No.	Enable			Both
16.iii	2) Amount	Enable			Both
17.i	Claims settled for more than 2 yrs	Enable			Both
17.ii	1) No.	Enable			Both
17.iii	2) Amount	Enable			Both











**Monthly**

**Purpose and frequency**  
To measure the performance of functions of TPAs in terms of claim filed and TPA fees. This is the recommended form of the proposed format for collecting this information. The frequency of the form is monthly. The said is submitted by insurers in respect of every TPA enrolled with them.

**Fields and Parameters**

Year:  Month:   
 Insurer Name:  TPA Name:

Closing balance of previous month will be opening balance of current month

Sl. No.	Description	Amount
1	Due outstanding at the end of the month	
2	Payments received during the month	
3	Due paid during the month	
4	Due outstanding at the end of the month	
5	Due outstanding at the end of the month	
5.1	More than 0-7 days	
5.2	More than 7-15 days	
5.3	More than 15-30 days	
5.4	More than 30-60 days	
5.5	More than 60-90 days	
5.6	More than 90-120 days	
5.7	More than 120-180 days	
5.8	More than 180-240 days	
5.9	More than 240-360 days	
5.10	More than 360 days	

Notes:

**Monthly**

**Purpose and frequency**  
The purpose of this form is to collect the information of the claims handled directly by insurers having health business for the group business. This is a modification of proposed format for capturing the claims data. The frequency of the form is monthly.

**Fields and Parameters**

Year:  Month:   
 Insurer Name:  Business:   
 Group:

**Claims movement Details**

Form Input\_Health\_6 and Form Input\_Health\_5.1 needs to be merged by giving drop down for Business

Sl. No.	Particulars	Group Code	No. of Claims	Amount of Claims	Revised Amount	No. of Claims	Amount of Claims	Revised Amount
1	Claims pending at the beginning of the month							
2	New Claims registered during the month							
3	Claims Settled During the Month							
4	Claims re-audited							
5	Claims pending at the end of the month							

**Aging of pending claims \***

Sl. No.	Particulars	Group Code	No. of Claims	Amount of Claims	Revised Amount	No. of Claims	Amount of Claims	Revised Amount
1	Claims pending for less than 1 month							
2	Claims pending for 1-3 months							
3	Claims pending for 3-6 months							
4	Claims pending for 6-12 months							
5	Claims pending for 1-2 years							
6	Claims pending for more than 2 years							

\* Revisions from date of first intimation

**Aging of settled claims \*\***

Particulars	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total
	No. of claims a	Amount of claims b	No. of claims c	Amount of claims d	No. of claims e	Amount of claims f	
1. Claims settled within less than 1 month							
2. Claims settled within 1-3 months							
3. Claims settled within 3-6 months							
4. Claims settled within 6-12 months							
5. Claims settled within 1-2 years							
6. Claims settled within more than 2 years							

\*\* Reckoned from the date of receipt of last requirement  
Aging of repudiated claims \*\*\*

Particulars	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total
	No. of claims a	Amount of claims b	No. of claims c	Amount of claims d	No. of claims e	Amount of claims f	
1. Claims repudiated within less than 1 month							
2. Claims repudiated within 1-3 months							
3. Claims repudiated within 3-6 months							
4. Claims repudiated within 6-12 months							
5. Claims repudiated within 1-2 years							
6. Claims repudiated within more than 2 years							

\*\*\* Reckoned from the date of receipt of last requirement

**Monthly**

**Details of claims Handled through TPA To be submitted by the Insurers having health business**

**Purpose and frequency**  
The purpose of the form is to collect the information of the claims handled through TPA.  
This is a modification of proposed format for capturing the claims data.  
The frequency of the form is monthly.

**Filters and Parameters**

Year:  Month:

Insurer Name:

Division:

TPA Name:

Individual  Group

**Claims movement Details**

Particulars	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total
	No. of claims a	Amount of claims b	No. of claims c	Amount of claims d	No. of claims e	Amount of claims f	
1. Claims pending at the beginning of the month							
2. New Claims registered during the month							
3. Claims Settled During the Month							
4. Claims repudiated							
5. Claims pending at the end of the month							

**Aging of pending claims \***

Particulars	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total
	No. of claims a	Amount of claims b	No. of claims c	Amount of claims d	No. of claims e	Amount of claims f	
1. Claims pending for less than 1 month							
2. Claims pending for 1-3 months							
3. Claims pending for 3-6 months							
4. Claims pending for 6-12 months							
5. Claims pending for 1-2 years							
6. Claims pending for more than 2 years							

\* Reckoned from date of first intimation  
Aging of settled claims \*\*





**Monthly**

**Purpose and Frequency**  
 The purpose of the form is to collect the information of the claims handled directly by insurers having health business for the individual business.  
 This is a modification of proposed format for capturing the claims data.  
 The frequency of the form is monthly.

**Filters and Parameters**  
 Year: \_\_\_\_\_  
 Insurer Name: \_\_\_\_\_  
 Month: \_\_\_\_\_

**Claims movement Details**

Particulars	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total
	No. of claims	Amount of claims	No. of claims	Amount of claims	No. of claims	Amount of claims	
Column Code	a	b	c	d	e	f	g
1. Claims pending at the beginning of the month							
2. New Claims registered during the month							
3. Claims Settled During the Month							
4. Claims repudiated							
5. Claims pending at the end of the month							

**Aging of pending claims \***

Particulars	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total
	No. of claims	Amount of claims	No. of claims	Amount of claims	No. of claims	Amount of claims	
Column Code	a	b	c	d	e	f	g
1. Claims pending for less than 1 month							
2. Claims pending for 1-3 months							
3. Claims pending for 3-6 months							
4. Claims pending for 6-12 months							
5. Claims pending for 1-2 years							
6. Claims pending for more than 2 years							

\* Reckoned from date of first intimation  
**Aging of settled claims\*\***

Particulars	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total
	No. of claims	Amount of claims	No. of claims	Amount of claims	No. of claims	Amount of claims	
Column Code	a	b	c	d	e	f	g
1. Claims settled within less than 1 month							
2. Claims settled within 1-3 months							
3. Claims settled within 3-6 months							
4. Claims settled within 6-12 months							
5. Claims settled within 1-2 years							
6. Claims settled within more than 2 years							

\*\* Reckoned from the date of receipt of last requirement  
**Aging of repudiated claims\*\*\***

Particulars	Cashless		Reimbursement		Benefit Based		Total
	No. of claims	Amount of claims	No. of claims	Amount of claims	No. of claims	Amount of claims	
Column Code	a	b	c	d	e	f	g
1. Claims repudiated within less than 1 month							
2. Claims repudiated within 1-3 months							
3. Claims repudiated within 3-6 months							
4. Claims repudiated within 6-12 months							
5. Claims repudiated within 1-2 years							
6. Claims repudiated within more than 2 years							

\*\*\* Reckoned from the date of receipt of last requirement

**Purpose and Frequency**  
 To collect data on information on Gross Premium, No. of Policies and Total Sum Assured across Channels. This form is re-engrossed on the basis of adding Form I and Form II of gross premium. The frequency of the form is bi-annual.

**Filers and Periodicity**

Year

Quarter

Name of Insurer

Division  Individual  Group

No.	State	Channel	Year	Quarter	Division	Individual	Group
1	Andhra Pradesh						
2	Andhra Pradesh						
3	Assam						
4	Bihar						
5	Chhattisgarh						
6	Goa						
7	Gujarat						
8	Haryana						
9	Himachal Pradesh						
10	Jammu & Kashmir						
11	Karnataka						
12	Kerala						
13	Mizoram						
14	Nagaland						
15	Narhaya Pradesh						
16	Niharashtra						
17	Madhya Pradesh						
18	Maharashtra						
19	Madhya Pradesh						
20	Madhya Pradesh						
21	Madhya Pradesh						
22	Madhya Pradesh						
23	Madhya Pradesh						
24	Madhya Pradesh						
25	Madhya Pradesh						
26	Madhya Pradesh						
27	Madhya Pradesh						
28	Madhya Pradesh						
29	Madhya Pradesh						
30	Madhya Pradesh						
31	Madhya Pradesh						
32	Madhya Pradesh						
33	Madhya Pradesh						
34	Madhya Pradesh						
35	Madhya Pradesh						
36	Madhya Pradesh						
37	Madhya Pradesh						
38	Madhya Pradesh						
39	Madhya Pradesh						
40	Madhya Pradesh						
41	Madhya Pradesh						
42	Madhya Pradesh						
43	Madhya Pradesh						
44	Madhya Pradesh						
45	Madhya Pradesh						
46	Madhya Pradesh						
47	Madhya Pradesh						
48	Madhya Pradesh						
49	Madhya Pradesh						
50	Madhya Pradesh						
51	Madhya Pradesh						
52	Madhya Pradesh						
53	Madhya Pradesh						
54	Madhya Pradesh						
55	Madhya Pradesh						
56	Madhya Pradesh						
57	Madhya Pradesh						
58	Madhya Pradesh						
59	Madhya Pradesh						
60	Madhya Pradesh						
61	Madhya Pradesh						
62	Madhya Pradesh						
63	Madhya Pradesh						
64	Madhya Pradesh						
65	Madhya Pradesh						
66	Madhya Pradesh						
67	Madhya Pradesh						
68	Madhya Pradesh						
69	Madhya Pradesh						
70	Madhya Pradesh						
71	Madhya Pradesh						
72	Madhya Pradesh						
73	Madhya Pradesh						
74	Madhya Pradesh						
75	Madhya Pradesh						
76	Madhya Pradesh						
77	Madhya Pradesh						
78	Madhya Pradesh						
79	Madhya Pradesh						
80	Madhya Pradesh						
81	Madhya Pradesh						
82	Madhya Pradesh						
83	Madhya Pradesh						
84	Madhya Pradesh						
85	Madhya Pradesh						
86	Madhya Pradesh						
87	Madhya Pradesh						
88	Madhya Pradesh						
89	Madhya Pradesh						
90	Madhya Pradesh						
91	Madhya Pradesh						
92	Madhya Pradesh						
93	Madhya Pradesh						
94	Madhya Pradesh						
95	Madhya Pradesh						
96	Madhya Pradesh						
97	Madhya Pradesh						
98	Madhya Pradesh						
99	Madhya Pradesh						
100	Madhya Pradesh						









Yearly

**Details of new business and renewal business - Statewise**

**Purpose and frequency**  
To capture the statewide new business and renewal business activities for each insurer  
This form is a new format.  
The frequency of the return is yearly.

**Filters and Parameters**

Year

Insurer Name

Business

Individual

Individual Business Needs to be removed; create the drop down as shown above

#	State	Column Code	New Business				Renewal Business				In-Force Business			
			No. of policies	Gross Premium Amount	Total Sum Assured	No. of policies	Gross Premium Amount	Total Sum Assured	No. of policies	Gross Premium Amount	Total Sum Assured	No. of policies	Gross Premium Amount	Total Sum Assured
			a	b	d	e	f	h	e	f	h	e	f	h
1	Andhra Pradesh													
2	Assam													
3	Bihar													
4	Chhattisgarh													
5	Goa													
6	Gujarat													
7	Haryana													
8	Himachal Pradesh													
9	Jammu & Kashmir													
10	Jharkhand													
11	Karnataka													
12	Kerala													
13	Madhya Pradesh													
14	Maharashtra													
15	Manipur													
16	Meghalaya													
17	Mizoram													
18	Nagaland													
19	Orissa													
20	Punjab													
21	Rajasthan													
22	Sikkim													
23	Tamil Nadu													
24	Tripura													
25	Uttar Pradesh													
26	Uttarakhand													
27	West Bengal													
28	Andaman & Nicobar Is.													
29	Chandigarh													
30	Dadra & Nagar Haveli													
31	Daman & Diu													
32	Delhi													
33	Lakshadweep													
34	Puducherry													
35	Year													

Group Business \*



#	State	New Business			Renewal Business			In-Force Business Data		
		No. of policies covered	Gross Premium Amount	Total Sum Assured	No. of lives covered	Gross Premium Amount	Total Sum Assured	No. of policies	Gross Premium Amount	Total Premium Amount
	Column Code	a	b	c	e	f	g	h	i	j
1	Andhra Pradesh									
2	Arunchal Pradesh									
3	Assam									
4	Bihar									
5	Chhattisgarh									
6	Goa									
7	Gujarat									
8	Haryana									
9	Himachal Pradesh									
10	Jammu & Kashmir									
11	Jharkhand									
12	Karnataka									
13	Kerala									
14	Madhya Pradesh									
15	Maharashtra									
16	Manipur									
17	Meghalaya									
18	Mizoram									
19	Nagaland									
20	Orissa									
21	Punjab									
22	Rajasthan									
23	Sikkim									
24	Tamil Nadu									
25	Tripura									
26	Uttar Pradesh									
27	Uttarakhand									
28	West Bengal									
29	Andaman & Nicobar Is.									
30	Chandigarh									
31	Dadra & Nagar Haveli									
32	Daman & Diu									
33	Delhi									
34	Lakshadweep									
35	Puducherry									
#	Total									

Note: Group include family floaters and any policy with more than one insured person

660 01/13-31



C	Product/Schemes	Enable				20	Yes	Input		Database
C(a)	No. of policies issued	Enable			Numeric	20	Yes	Input	Should not be Negative	Database
C(b)	No. of BPL families covered	Enable			Numeric	20	Yes	Input	Should not be Negative	Database
C(c)	Total number of beneficiaries covered	Enable			Numeric	20	Yes	Input	Should not be Negative	Database
C(d)	Gross Premium (in 000s)	Enable			Numeric	20	Yes	Input	Should not be Negative	Database
C(e)	No. of claims reported	Enable			Numeric	20	Yes	Input	Should not be Negative	Database
C(f)	Amount of Claims reported	Enable			Numeric	20	Yes	Input	Should not be Negative	Database
C(g)	No. of claims settled	Enable			Numeric	20	Yes	Input	Should not be Negative	Database
C(h)	Claim Amount settled	Enable			Numeric	20	Yes	Input	Should not be Negative	Database
C(i)	No. of claims O/S	Enable			Numeric	20	Yes	Input	Should not be Negative	Database
C(j)	Amount of Claims O/S	Enable			Numeric	20	Yes	Input	Should not be Negative	Database
C(k)	Incurred Claim Ratio (%)	Enable			Numeric	20	Yes	Input	Should not be Negative	Database

**Statewise Report of distribution of offices - Quarterly**

**Purpose and Frequency**

The purpose of this report is provide information on the distribution of office locations in each state for each insurer  
 The frequency of this report is quarterly

**Filters and Parameters**

Year  Quarter

State

#	Name of Insurer	Rural Area		Urban Area		
		No. of branches approved but not opened	No. of rural branches	% of rural Branches	No. of urban branches	% of Urban Branches
	Column Code	a	b	c	d	e
	Source/Calculation	INPUT_N ON_LIFE_ Office_1	INPUT_N ON_LIFE_ Office_1	=100*b/( b+d)	INPUT_N ON_LIFE_ Office_1	=100*d/( b+d)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
TOTAL						

## OFFICE DETAILS OF INSURERS

### Purpose and Frequency

The purpose of this report is to provide the office details of each insurer in each state and at an overall level  
The frequency of this report is quarterly

### Filters and Parameters

Year

Quarter

State

#	Name of Insurer	No. of branches opened during the year					
		No. of offices at the beginning of the year	No. of branches approved during the year	Out of approvals of previous year	Out of approvals of this year	No. of branches closed during the year	No. of branches at the end of the year
Column Code		a	b	c	d	e	f
Source/Calculation		INPUT_N ON LIFE Office 1	INPUT_N ON LIFE Office 1	INPUT_N ON LIFE Office 1	INPUT_N ON LIFE Office 1	INPUT_N ON LIFE Office 1	INPUT_N ON LIFE Office 1
1							
2							
3							
4							
5							
6							
*****							
#	<b>Total</b>						